

प्रकाशक—  
गिरिजाशंकर वर्मा  
अभिनव भारती ग्रन्थमाला  
१७१-ए, हरिसन रोड  
कलकत्ता

प्रथम बार  
मूल्य २)

सुदृक—  
रुलियाराम गुप्त  
दि बंगाल प्रिंटिंग वर्क्स  
१, सिनागोग स्ट्रीट  
कलकत्ता ।

# विषय-सूची

## पहला प्रकरण

### चीनका भूतपूर्व इतिहास

अध्याय १—चीन देश और इस नामका अर्थ	१
अध्याय २—देशः भूमि और प्राकृतिक विभाजन	२
अध्याय ३—निवासीः जाति और जनसंख्या	४
अध्याय ४—संसारकी सबसे प्राचीन सभ्यता	१२
अध्याय ५—संसारमें सबसे प्राचीन इतिहास	१४

## दूसरा प्रकरण

### आधुनिक चीनमें राजनैतिक परिवर्तन

अध्याय १—छिं राजवंश ( मांचू शासन ) का अन्त	२६
अध्याय २—महान् क्रान्ति और चीनी जनतंत्र	३१
अध्याय ३—जनतंत्रकी स्थापनाके बाद अराजकताका दौरदौरा	३८
अध्याय ४—चीनकी राजनीतिमें नवयुगका प्रारम्भ	४३
अध्याय ५—वर्तमान सरकारकी शासन प्रणाली और नीति	४८

## तीसरा प्रकरण

### चीनकी आर्थिक उन्नति

अध्याय १—कृषि	५२
अध्याय २—स्वावलम्बन और रुढ़ि	५८
अध्याय ३—पश्चिमी देशोंके साथ व्यापार	६१
अध्याय ४—प्राचीन आर्थिक संगठनका टूटना	६५
अध्याय ५—आर्थिक पुनरुद्धारके वर्तमान आन्दोलन	७७

## चौथा प्रकरण

### आधुनिक चीनकी सामाजिक प्रगति

अध्याय १—सामाजिक संगठन	७५
अध्याय २—चीनका परिवार और उसमें स्त्रियोंका स्थान	८५
अध्याय ३—आचार और उत्सव-त्योहार	८५
अध्याय ४—नव सांस्कृतिक आनंदोलन	९५
अध्याय ५—नवजीवन आनंदोलन	९७

## परिशिष्ट

( १ ) चीनके ऐतिहासिक युगों और राजवंशोंकी कालानुक्रमणिका

I gladly authorize my student and friend Sree Krishna kinkar Sinha, formerly research-scholar of Visva-Bharat Cheena-Bhavana and now Professor of Hindi of the Chinese National Oriental Languages College, Kunming China, to translate into Hindi my booklet Modern Chinese History, Which was first published by the Andhra University in 1938 and recently re-published by Kitabistan, Allahabad.

And I sincerely hope this translation in Hindi which is the Lingua-Franca of India will help most of my Indian brethren who do not read English to make a better understandig of China.

Visva-Bharati Cheena-Bhavana,  
Santiniketan  
June 17, 1944.



# चीनका आधुनिक इतिहास

## पहला प्रकरण

### पुराना चीन

#### अध्याय १

#### चीन देश और इस नामका अर्थ

प्राचीन काल में चीन देश को लोग अलग अलग नामों से पुकारते थे। इसका वर्तमान नाम न पहले कभी था और न यह उपयुक्त ही जान पड़ता है। चीनवाले अपने देश को चुङ्ग-हुआ या चुङ्ग-क्वो कहते हैं। चुङ्ग का अर्थ है मध्यस्थित और हुआ का फूल या गौरवशाली तथा क्वो का देश। इस प्रकार चीनवाले अपने देश को दुनिया के मध्य में स्थित, फूलों से भरा हुआ और महान् समझते हैं। नाम के सिलसिले में यह भी ध्यान में रख लेना चाहिए कि चीन की सभ्यता बहुत प्राचीन और उच्च है और प्राचीन काल से ही यहां के लोगों ने आसपास के असभ्य वर्षरों को जीतकर अपने अधीन में रखा था। इसलिये चीन के प्राचीन नाम में यद्यपि अतिशयोक्ति का भास होता है लेकिन ऐतिहासिक दृष्टि से उसमें तथ्य भी है।

सामंतशाही प्रणाली के विकास से छिन और हान् राजकुलों के समय चीन एकता के सूत्र में बंध गया था। ज्यों-ज्यों देश की जनसंख्या बढ़ती

## चीनका आधुनिक इतिहास

गई उसकी सीमा का भी विस्तार होता गया। एकदम करीब में रहनेवाले कवीले जीतकर देश में मिला लिए गए और जो कुछ दूर में थे वे करद राज्य बना लिए गए। इस प्रकार प्राचीन काल में न देश की सीमा ठीक तरह से निर्धारित थी न भिन्न-भिन्न तरह के मनुष्यों में फरक जान पड़ता था इसलिये चुङ्ग-हुआ या चुङ्ग-क्वो नाम कभी कभी ही व्यवहार में आता था। ऐतिहासिक घटनाएँ शासन करनेवाले राजकुलों के नाम से दर्ज की जाती थीं और राजकुलों का नाम जैसे छिन्, हान्, थाङ्ग ही देश के लिये व्यवहार में आने लगा था।

चाइना ( China ) नाम छिन् शब्द से निकला है। चुङ्ग राजकुल के समय ( ३० पू० ११२२ से २४९ ) देश के उत्तरी पश्चिमी भाग में, जो इन दिनों कानून्सु और प्रान्-शी का सूबा कहलाता है, छिन् नाम की एक सामंतशाही रियासत थी। प्रारम्भ में यह रियासत अन्य सामंतशाही रियासतों के बीचारे दर्जे की थी और 'छिन्-क्वो' कहलाती थी। धीरे-धीरे यह शक्ति-शाली होती गई और आस-पास के प्रदेशों को जीतकर इसने अपने अधीन कर लिया तथा सम्पूर्ण देश को एकता के सूत्र में बांधा। तब यह 'छिन्' शब्द ही राजवंश का द्योतक हो गया। उस समय मध्य एशिया में बहुत-से छोटे-छोटे राज्य थे जो सम्मिलित हुप से 'पश्चिमी प्रदेश' कहलाते थे। इस प्रदेश के लोगोंका सम्बन्ध केवल छिन् देशवालोंके साथ था इसलिये गलती से उन लोगोंने सारे देशको छिन् नाम से पुकारना प्रारम्भ कर दिया। चूंकि छिन् रियासत ने सारे देश को एक सूत्र में संगठित किया था और इस कुल की चारों ओर प्रतिष्ठा थी इसलिये 'छिन्' शब्द का प्रचार अधिक हुआ। पश्चिमी प्रदेश के लोगों द्वारा ही यह शब्द दक्षिण की ओर भारतवर्ष में और पश्चिम

## चीन देश और इस नामका अर्थ

की ओर यूनान तथा रोम तक फैल गया। गलत उच्चारण के कारण और कालक्रमसे बदलते-बदलते 'छिन्' शब्द 'चीन' और चाइन हो गया। धीरे-धीरे यह गलत नाम ही ठीक मान लिया गया और दुनियावाले इस देश को 'चाइन' नाम से पुकारने लगे। महाभारतमें 'चीन' शब्द का उल्लेख है; इससे ज्ञात होता है कि उस समय भारतवर्ष के लोगोंको चीन देश का पता था। यूरोपीय विद्वानों के बीच 'चाइन' शब्द की उत्पत्ति के सम्बंध में कई मत हैं जिनमें कोई भी सन्तोषजनक और तथ्यपूर्ण नहीं हैं। साथ-साथ उससे यह भी ज्ञात होता है कि उन विद्वानों को चीन के प्राचीन इतिहास की कितनी कम जानकारी है।

जापानवाले चीन को अभी भी 'महान् थाङ्ग' नाम से पुकारते हैं क्योंकि 'थाङ्ग' युग ( सन् ६१८-९०७ ई० ) की चीनी सभ्यता से वे लोग बड़े प्रभावित हुए थे। इस काल में सैकड़ों जापानी विद्यार्थी चीन में विद्याध्ययन करने आए जिनमें 'खुङ्ग-हाइ' या कउ-पउ ता-पी ( कावोदासी ) का नाम विशेष उल्लेखनोय है। इसने चीनी अक्षरों में थोड़ा-सा परिवर्तन कर चीनी शब्दों को जापानी उच्चारण में लिखने के लिये एक तरह की वर्णमाला बनाई जो 'खाना' नाम से प्रसिद्ध है। वह पच्चीस वर्षों तक चीन में रहा। कउ-पउ-ता-पी ( कावोदासी ) जापानी साहित्य का जन्मदाता माना जाता है। जापान ने चीन से केवल सभ्यता ही नहीं सीखी बल्कि वहां के बौद्धधर्म को भी अपनाया जो कुछ काल पहले भारत से जाकर चीन में फैला था। जापान की प्राचीन सभ्यता पूरी-पूरी थाङ्ग राजकुल के समय की चीनी सभ्यता की नकल है इसलिये यह आर्थर्य की बात नहीं है कि जापान अभी भी चीन को महान् थाङ्ग नाम से पुकारता है।

सन् १९११ ई० की जनक्रान्ति में मान्-चउ राजवुल के खात्मा होने के साथ-साथ राजकुलों द्वारा शासन करने की प्रणाली का भी चीन में सदा के लिये अन्त हो गया। प्रजातंत्र की स्थापना के समय से ही चीन का नाम 'चुङ्ग हुआ रिपब्लिक' रखा गया है और यही ठीक है कि अब वह इसी नाम से दुनिया में पुकारा जाय।

## अध्याय २

### देशः भूमि और प्राकृतिक विभाजन

आकार के ख्याल से संसार में ब्रिटिश साम्राज्य की गिनती पहली, सोवियत रूस की दूसरी और चीन की तीसरी है। पर ब्रिटिश साम्राज्य के बहुत-से भूभाग या तो अद्व्युत्तम् स्वतंत्र हैं या उपनिवेश। खास ग्रेट ब्रिटेन चीन के सबसे छोटे प्रान्त से भी छोटा है। सोवियत रूस बड़ा ही विस्तृत है और इसमें एक रूपता भी पाई जाती है। फिर भी इसका बहुत बड़ा भूभाग जो आर्टिक महासागर से लगा हुआ है, वरावर वर्फ से ढका रहता है और इस कारण आदमियों के रहने योग्य नहीं है। चीन ही एक ऐसा बड़ा देश है जहाँ की जलवायु समशीलोष्ण है और भूमि भी उपजाऊ है। अतएव चीन का 'देश' की अपेक्षा 'महादेश' कहना ही अधिक उपयुक्त होगा।

चीन एशिया महादेश के दक्षिण-पूर्व में, प्रशान्त महासागर के पश्चिमी किनारे पर वसा हुआ है। इसके पूर्व और दक्षिण-पूर्व में समुद्र है और वाकी हिस्से स्थल से जुड़े हुए हैं। चीन के राजनैतिक प्रभुत्व के दिनों में कोरिया त्यउ-छ्यउ, फारगूसा, अजाम, इयाम, वर्मा, भूतान, नैपाल आदि देश या तो चीनी साम्राज्य के सूबे थे या करद राज्य। आधुनिक युग का शक्तिशाली राष्ट्र जापान भी उस समय चीन का करद राज्य था और एक घार चीन के सम्राट् ने खुश होकर वहाँ के राजा को पदवी दे सम्मानित किया था। मान्चउ (मांचू) शासन काल के अन्तिम समय में बहुत सी बुराइयाँ देश में फैल गईं और इस कारण देश की सरकार कमज़ोर पड़ गई। इस परिस्थिति से

लाभ उठाकर पश्चिमी राष्ट्रों ने चीन की अच्छी अच्छी जगहों पर अधिकार कर आपसमें बांट लिया। सभी मातहत राज्य भी चीन के हाथ से निकल गए। इस समय चीन का क्षेत्रफल चालीस लाख वर्गमील से अधिक है जो सम्पूर्ण एशिया महादेश के क्षेत्रफल का चौथाई और सम्पूर्ण दुनिया का पन्द्रहवां भाग है तथा अकेला ही सम्पूर्ण वूरोप से बड़ा है।

भौगोलिक दृष्टि से चीन पांच भागों में विभक्त है। पहला खास चीन ( चाइना प्रौपर ) जिसका क्षेत्रफल १९९४६४४ वर्गमील है और १८ प्रान्तों में बंटा हुआ है। दूसरा भाग मंचूरिया या तीन पूर्वी प्रदेश हैं जिसका क्षेत्रफल ४२८९९८ वर्गमील है। इसके बाद तीसरा भाग मंगोलिया है जिसका क्षेत्रफल ९०७२३४ वर्गमील है। इसके दो भाग हैं—भीतरी मंगोलिया और बाहरी मंगोलिया। चौथा भाग शिन्-च्याङ्ग ( सिक्यांग ) या चीनी तुर्किस्तान है जिसका क्षेत्रफल ६३३८०२ वर्गमील है। पांचवां भाग तिब्बत है जिसका क्षेत्रफल ३४९४९९ वर्गमील है। सन् १९२७ ई० में नानकिंग ( नानकिंग ) शहर में राष्ट्रीय सरकार की स्थापना के बाद से सरहदी नीति के सुधार और नए तरह से प्रान्तों की सीमावन्दी करने पर जोर दिया गया है। पिछले दस वर्षों के अन्दर ही बहुत दूर तक नए तरीके से सीमावन्दी की गई है और आज चीन में २८ राजनैतिक प्रान्त हैं। इसके अलावा दो स्वायत्त शासनाधिकार प्राप्त प्रान्त भी हैं—तिब्बत और बाहरी मंगोलिया। सम्पूर्ण चीन का क्षेत्रफल ४३१४०९७ वर्गमील है।

यातायात के साधनों, उद्योग-धन्धों और व्यापार-वाणिज्य की उन्नति के कारण शहरों की समृद्धि और महत्व बढ़ गया है तथा वहां की आवादी भी बढ़ गई है। बहुत से व्यापारिक शहरों में खास शासन व्यवस्था की जहरत

## देश भूमि और प्राकृतिक विभाजन

थी और राष्ट्रीय सरकार ने इस प्रकार के कुछ शहरों को खास म्यूनिसिपलिटी विधियक और शासन प्रबन्ध के विशेष अधिकार दिए हैं। ये म्यूनिसिपलिटियां सभी व्यावहारिक कामों के लिये स्वतंत्ररूप से शासन करनेवाले प्रान्त सी हो गई हैं।

चीन में तीन प्रकार के विशेष क्षेत्र हैं जिन्हें अजीब राजनैतिक और कानूनी अधिकार प्राप्त हैं—(१) अन्तरराष्ट्रीय व्यापारिक बन्दरगाह (इन्टर-नेशनल ट्रॉडपोर्ट) (२) विदेशी रियायती क्षेत्र (फारेन कान्सेशन) (३) पट्टेवाले क्षेत्र (लीज्ड टैरिटरी)। तथाकथित अंतरराष्ट्रीय व्यापारिक बन्दरगाह समुद्रके किनारे तथा देशके भीतरी भागोंके प्रसिद्ध व्यापारिक केन्द्र हैं जो असल में विदेशी राष्ट्रोंके व्यापार के लिये खुले हुए हैं। स्वतंत्र व्यापार कौन नहीं पसन्द करेगा? इससे तो खासकर उन राष्ट्रोंको लाभ होता ही है जो इसमें भाग लेते हैं पर यह मानव-समाज के लिये भी हितकर है। लेकिन चीनी जनताको इन तथाकथित अंतरराष्ट्रीय बन्दरगाहोंसे कोई दिलचस्पी नहीं है। मान-चुउ शासनकालके अन्तिम दिनोंमें जब चीन कमजोर हो गया था ये बन्दरगाहें चीनकी मर्जीके विरुद्ध असम और अन्याय पूर्ण सन्धियों द्वारा दबाव डालकर खुलवाए गए हैं। यह कहना कि ये व्यापारिक बन्दरगाह, सन्धियों द्वारा खोले गए हैं, चीनके साथ कहुआ मजाक करना है। क्योंकि सन्धि दो समान और इच्छुक दलोंके बीच इमानदारी की शर्तों पर होती है। देशके एक सौ व्यापारिक केन्द्रोंमें कमसे कम ७० इसी तरह के बन्दरगाह हैं। तथाकथित विदेशी रियायती क्षेत्र भी सन्धि से खोले गए बन्दरगाहों (ट्रीटी पोर्ट) के समान ही हैं। इन क्षेत्रोंमें विदेशी राज्योंको राष्ट्र-सीमा सम्बन्धी विशेष अधिकार प्राप्त हैं। इन क्षेत्रोंमें रहने-

वाली विदेशी जातियां अपना दिवानी और फौजदारी फैसला स्वयं करती है— चीन की राष्ट्रीय सरकार उसमें दखल नहीं दे सकती। सन्धि से खोले कहे जानेवाले कुछ बन्दरगाहोंमें वीस वीस तक विदेशी रियायती क्षेत्र हैं। तथा कथित पट्टोंवाले क्षेत्र चीन का ही है जिसे विदेशी राष्ट्रोंने उससे संगीनके जोरपर लिखवा लिया है कहने मात्र को ही वे क्षेत्र पट्टे पर लिखाये गए हैं पर वास्तवमें उनपर विदेशियों ने पूरा अधिकार जमा लिया है। पट्टे की अवधि भी काफी लम्बी—९९ वर्षों की रखी गई है। कुछ क्षेत्र जैसे पोर्टबार्थर; और डारीनवे, जिन्हें जापानने पट्टे में लिखाया था, अवधि पूरा होनेपर भी चीन को नहीं लौटाए गए। इन खास खास क्षेत्रोंमें विदेशी शक्तियोंके प्रोत्साहनसे तरह तरहकी भयानक बुराइयां घुस गई हैं। ये स्थान अन्तरराष्ट्रीय धूतों और बदमाशों के सुरक्षित अड्डे हो रहे हैं। ये तथाकथित अन्तरराष्ट्रीय व्यापारिक बन्दरगाह और रियायती क्षेत्र चीन की खतंत्रता तथा एकता के बाधक और जनता की रुचि को ही केवल विषाक्त नहीं करते, बल्कि अन्तरराष्ट्रीय प्रेम और न्यायके सुन्दर अर्थयुक्त शब्दोंके खोखलेपन को भी जाहिर करते हैं। राष्ट्रीय सरकार इन असम सन्धियों, रियायती क्षेत्रों तथा अतिरिक्त अधिकारों को उठाने की कोशिश कर रही है। सरकार की इस चेष्टों के पीछे संसारके न्यायप्रिय आदमियों की सहानुभूति है तथा इसकी सफलता की पूरी आशा है। अधिकांश असम सन्धियों और अतिरिक्त अधिकार प्राप्त क्षेत्रों की अवधि समाप्त हो गई है तो भी उनमें बहुत से क्षेत्र अभीतक चीन को नहीं लौटाए गए हैं। इसलिए स्वभावतः ही चीनवाले असन्तुष्ट हैं और यह भविष्य में अशान्ति का कारण हो सकता है।

## निवासी : जाति और जनसंख्या

मोटे तौरसे चीनी जनता छः 'चु' या जातियों में विभक्त है—

(१) हान्-चु या हान् जाति (२) म्याव-चु या मिआँ जाति (३) मान्-चु या मांचू जाति (४) मज्ज-चु या मंगोल जाति (५) ह्वइ-चु या मुसलमान जाति और (६) चाङ्ग-चु या तिब्बती जाति। हान्-चु या हान् जाति समूचे देशमें फैली हुई है परन्तु अधिकतर खास चीन में हैं। यह सबसे प्राचीन, प्रधान और प्रसिद्ध जाति है। मिआँ जाति जो कई दुकड़ोंमें बँटी हुई है देश की बहुत ही प्राचीन जाति है। परन्तु इसकी संख्या बहुत कम है। यह जाति प्रगतिशील नहीं है और इसने प्रारम्भ से ही आजतक किसी प्रकार की प्रगति नहीं की है। पहले यह जाति सारे देशमें फैली हुई थी पर बाद में चीन के उत्तरी-पश्चिमी पहाड़ोंमें बस गई है। उनको छोड़कर जो हान्-जाति में एकदम से घुलमिल गई है, पूरी मिआँ जाति आदिम अवस्था में ही है। मान्-चु या मांचूजाति उपरोक्त जातियों की अपेक्षा नई है। यह पहले मंचूरिया में रहती थी। परन्तु अब पूरी जाति हान्-जाति से एकदम घुलमिल गई है। मंगोलजाति मंगोलिया की रहनेवाली है। यह जाति भी नई तथा अल्पसंख्यक है। हान्-जाति ने बहुत से मंगोलों को अपने में मिला लिया है। मुसलमान अधिकतर चीनी तुर्किस्तान या शिन्-च्यांग (सिक्यांग) प्रान्त में रहते हैं। असल में तो ये बाहर से आकर बसे हैं पर हान्-जाति में इन्हें घुलमिल गए हैं कि चीन की आदिम जाति की ही तरह से समझे जाते हैं। चाङ्ग-चु या तिब्बतियों की दशा मंगोलों की ही तरह है। ये लोग अधिकतर

तिक्ष्णत में ही रहते हैं और इनकी संख्या बहुत अधिक नहीं है। इस प्रकार यद्यपि चीनीजाति छः भागों में विभक्त है परन्तु ये विभाग नाममात्र के ही हैं और एक दूसरे से कोई प्रधान अन्तर नहीं रखते। इन सबों ने चीन को एक महान् राष्ट्र बनाने में क्रम या अधिक रूप से सहायता दी है।

चीनकी ठीक ठीक जनसंख्या बताना कठिन है। इसलिये नहीं कि देशमें मर्दुमशुमारी और सांख्यिक विवरण संग्रह (स्टेटिस्टिक्स) करनेकी संगठित व्यवस्था नहीं है वल्कि इसलिये कि देशके विस्तार और जनसंख्या की अधिकताके कारण ठीक ठीक संख्याका मिलना असम्भव हो जाता है। चीनी इतिहासके अनुसार ३० पू० की नवीशतीमें देशकी जनसंख्या २ करोड़ २० लाख थी जो इस्वी सनके प्रारम्भमें बढ़ कर ८ करोड़ हो गई। उसके बाद लोगोंने कर बढ़ जाने और सेनामें भर्ती कर लेनेके डरसे परिवारके लोगोंकी ठीक ठीक संख्या देना ही छोड़ दिया। जबसे देश भरमें नए सिलसिलेसे डाकघरों और चुंगी घरोंकी स्थापना की गई है इन विभागोंकी सांख्यिक विवरण तालिकासे देशकी जनसंख्याका लगभग ठीक अन्दाजा लगानेकी कोशिश की जा रही है। इस तरीकेसे यद्यपि देशकी अनुमानिक जनसंख्या का ही पता लगता है परन्तु यह फल जनसंख्या समस्या अध्ययन करने वाले विद्यार्थियों और सरकारी जांच पड़तालके लिये बड़ा लाभदायक है। सरकारके आध्यान्तरिक विभाग (मिनिस्टरी ऑफ इन्टिरीयर) के सन् १९३८ ई० की मर्दुमशुमारीके अनुसार चीनकी जनसंख्या ४७४७८७३८६ है। परन्तु इस आंकड़े और इसी वर्षके डाकघर और चुंगीघरसे प्राप्त आंकड़ोंमें कुछ अन्तर है।

मिश्री, वावुली, हिन्दू और चीनी—ये ही चार सबसे प्राचीन सम्प्र

जातियां हैं। इनमें मिश्री और बायुलीकी तो ऐतिहासिक ख्याति ही भर रह गई है। परन्तु चीनी और हिन्दू जाति अब भी संसारके सुधीवृन्दका ध्यान आकृष्ट कर रही हैं। यह अन्तर क्यों है? इन दोनों जातियोंके अन्दर जरूर कुछ खास खूबियां हैं जिनसे ये इतने हजार वर्षोंसे कायम रह सकी हैं। अच्छा तो चीनी जातिके ऊपर विचार किया जाय। चीनी जनताकी खास विशेषताएँ ये हैं—( १ ) अध्यवसाय ( २ ) परिस्थितिके अनुकूल अपनेको बदलना और ( ३ ) सामझस्य तथा एकताकी शक्ति। इनके अलावा तीन और विशेष गुण हैं—( १ ) शान्तिप्रियता ( २ ) नम्रता और ( ३ ) निष्कपटता। दूसरी जातिकी नाईं चीनी जातिमें भी कुछ दोष हैं। पर ये दोष इतने नगण्य हैं कि इनसे आसानीपूर्वक छुटकारा पाया जा सकता है। आधुनिक युगमें दुनियाके एक हिस्सेका दूसरे हिस्सेके साथ घनिष्ठ सम्बन्ध हो रहा है तथा आपसमें एक दूसरे पर अधिक निर्भर होते जा रहे हैं और इस कारणसे चीनी लोगोंने भी विदेशी सभ्यताकी वहुतसी चीजोंको अपनाना प्रारम्भ कर दिया है। आशा तो यही की जाती है कि चीनी लोग अपनी अच्छाइयोंको रखते हुए दूसरी जातिके सम्पर्कसे क्रमशः अपने दोषोंको मिटा देंगे। इसी पर चीनी कौमकी महानताका भविष्य निर्भर है।

---

## अध्याय ४

### संसारकी सबसे प्राचीन सभ्यता

पश्चिमी पंडित मिश्री और बाबुली सभ्यताओंको ही संसारकी प्राचीनतम सभ्यता विज्ञापित करते हैं। इससे पता चलता है कि वे लोग चीनके इतिहास तथा संस्कृतिसे कितने अनभिज्ञ हैं। मेरा दावा है कि चीनकी सभ्यता इन दोनोंसे प्राचीन है। जैसा मैं पहले कह आया हूँ मिश्री और बाबुली सभ्यता कभी की छुट हो चुकी हैं तथा कालान्तरमें उनके चिह्न भी बहुत कम बच पाए हैं। यूरोपीय विद्वान इन थोड़े प्रमाणों पर ही अपना मत स्थापित करते हैं। परन्तु चीनका प्राचीन इतिहास एकदम पूर्ण है और देशके अनगिनित ऐतिहासिक प्रमाण चीनकी सभ्यताका प्राचीन होना सिद्ध करते हैं।

प्राचीनकालके चीनी ऐतिहासिक प्रमाणोंसे जान पड़ता है कि यउ-छाव ( यउ=है, छाव=घोंसला—घर वाला ) ने सबसे पहले मकानका आविष्कार किया और लोगोंको सुरक्षित रूपसे उसमें रहना सिखाया। स्वइ-रन् ( स्वइ=अग्नि, रन्=मनुष्य—अग्निदेव ) ने लकड़ी घिस कर आगका आविष्कार किया और लोगोंको भोजन बनाना सिखाया। ये सभी आविष्कार दस हजार वर्षसे पहलेके हैं। फु-शी ( फु=भोजन बनाना, शी=मारना—भोजनके लिये मारने वाला ) ने जालसे मछली पकड़ना, फंदा डाल कर जान-वर फंसाना और सितार वजा कर गाना सिखाया इन्होंने विवाहके नियम बनाए और मानव समाजमें सर्व प्रथम विवाहकी प्रथा प्रचलित की। इन्होंने

आठ रेखा चित्रोंका आविष्कार किया जिनसे आगे चल कर चीनी अक्षरोंका निर्माण हुआ। इन्होंने समय नापनेकी विधि भी निकाली जो पञ्चांगकी आधार बनी। पन्-नुंग ( पन्=पवित्र देवता, नुंग=खेत—खेतके देवता ) ने कुदाल और हृलका आविष्कार किया तथा लोगोंको अन्न उपजाना सिखाया। इन्होंने एक तरहका बाजार कायम किया और लोगोंको अपनी चीजोंका क्रय-विक्रय करना सिखाया; बहुतसी जड़ी वृद्धियोंकी परीक्षा की तथा चिकित्सा विज्ञानकी नीब डाली और पञ्चांगमें भी सुधार किया। परन्तु यह ध्यान देनेकी बात है कि ये सभी चीजें आजसे करीब दस हजार वर्ष पहले हो चुकी थीं। उसके बाद भी बहुत बड़े बड़े महात्माओंने समय समय पर अपने आविष्कार और अनुसन्धानसे संसारको कृतार्थ किया है। करीब २७०० ई० पू० द्वाङ्ग-ति ( पीला सम्राट् ) देशका शासन करते थे। ये बड़े ही प्रतापी और योग्य सम्राट् थे। परन्तु इनका नाम इसलिये अमर हो गया है कि सभ्य जीवनकी बहुतसी ज़रूरी चीजोंका इन्होंने आविष्कार किया है। बहुतसे आविष्कारोंमेंसे निम्नलिखित विशेष उल्लेखनीय हैं—( १ ) दोषी और पोशाक पहनना ( १ ) गाढ़ी और नाव ( ३ ) ओखली और मूसल ( ४ ) धनुष और तीर ( ५ ) कम्पास ( ६ ) सुन्दा ( ७ ) कफ़ल। मौलिक आविष्कारोंके अलावे इन्होंने उस कालकी प्रचलित बहुतसी चीजोंमें सुधार किए। अपनी प्रतिभासे इन्होंने ज्योतिप शास्त्र, क़टुओंके निश्चय करनेकी प्रणाली, सौरभंडलके अध्ययन आदि विषयोंके भंडारको काफ़ी भरा।

मानव-सभ्यताका विकास लम्बी और निश्चित गतिसे हुआ है। आदमीने सबसे पहले रहने और खानेका प्रश्न हल किया तब करड़े और अन्य घरेलू

औजारोंका। वादमें ज्योतिष, ऋगु और समय निर्वाचित करनेकी प्रणाली, औषधि और यातायातके साधन, और फिर लिपि और लिखित भाषाका जन्म हुआ। इसके बाद लोगोंने सामाजिक शिष्टाचार, संगीत और शासन प्रणाली कायम की। सबसे अन्तमें आचार-विचार, नीतिकता, धर्म और दर्शन की उत्पत्ति हुई। पीले सम्राट्‌के समयमें ही उपरोक्त चीजोंका, जो सभ्य समाजके लिये अत्यन्त जरूरी है, चीनमें काफी विकास हो चुका था। धर्म, दर्शन, आचार-विचार तथा नीतिशास्त्र पांड़ और चउ वंशके राजत्वकालमें (ई० पू० २०००-१०००) उन्नतिके शिखर पर पहुँच गए थे। यह समय चीनकी सभ्यता तथा दुनियाकी प्रगतिके इतिहासमें स्वर्ण-युग था।

किसी सभ्यताके ऐतिहासिक अन्वेषणके लिये उस राष्ट्रकी लिपि एक प्रधान साधन है। चीनी लिपि फु-शीके द्वारा आविष्कृत हुई और पीले सम्राट्‌ने उसे पूर्ण किया। अनुश्रुतिके अनुसार पीले सम्राट्‌के इतिहास-मंत्री छांग-च्येने राजकीय आज्ञासे लिपिका निर्माण किया। इसने कोई खास लिपि स्वयं नहीं बनाई और न लिपि इसके समयमें ही बनी बल्कि इसने पहिलेकी लिपिको सुधार कर नए सिरेसे सजा कर रखा। बहुतसे विदेशी विद्वान अनुभवके अभावमें चीनी भाषा सीखना अत्यन्त ही कठिन बताते हैं। बहुतसे विद्वान इस भाषामें हिज्जेकी प्रणाली नहीं रहनेके कारण, इसकी लिपि को चित्रात्मक कहते हैं। चीनी भाषा सीखना एकदम कठिन नहीं है। बहुतसी भिन्न भिन्न लिपियोंका तुलनात्मक अध्ययन करनेके बाद मैं स्वयं अनुभव करता हूँ कि संसारकी बहुतसी भाषाओंसे चीनी भाषा सरल तथा युक्ति-संगत है। चीनी लिपिको चित्रात्मक कहना भी कुछ ही अवृत्तिमें सत्य है। किसी लिपिके पूर्ण होनेके लिये हप, घनि और अर्ध इन तीन चीजोंका

होना आवश्यक है। कोई भी लिपि जिसमें इन तीन चीजोंमें से एक का भी अभाव है, अपूर्ण है। यथार्थमें संसारमें ऐसी कोई लिपि नहीं है जो शुद्ध चित्रात्मक या व्याख्यात्मक हो। चीनी लिपिकी बनावट तथा प्रयोग छः प्रेकारका होता है जो छः लिखावट कहलाती है। हम लोग छः लिस्टावटोंमें से जिस एक लिखावटको “साहस्र रूप” कहते हैं उसीको देख कर विदेशी विद्वान् चीनी लिपिको चित्रात्मक बताते हैं। प्राचीन कालसे ही चीनी लिपिकी प्रणाली नहीं बदली है तथा सम्पूर्ण यूरोपसे अधिक क्षेत्रफल वाले चीनमें एक ही लिपि तथा लिखित भाषा है। चीनकी एकता बनाए रखनेमें एक लिपिके होनेसे बड़ी मदद मिली है।

किसी देशके भूतकालकी अवस्था जाननेके लिये प्राचीन ऐतिहासिक वृत्तान्त भी एक अत्यन्त प्रधान साधन है। लिपि निर्माणके समयसे ही चीनका लिखित ऐतिहासिक वृत्त पाया जाता है। पीले सम्राट् के दरबारमें शुहसे ही इतिहास मंत्री रहते थे। एक सिंहासनकी बाई और रहता था और सम्राट् द्वारा दी गई आज्ञाओं और मंत्रियों तथा प्रार्थियोंके वक्तव्योंको लिखता था। दूसरा जो दाहिनी ओर रहता था तारीखबार उस कालकी घटित घटनाओंको दर्ज करता था। दुर्भाग्यवश इस लिखित सामग्रीकी बहुतसी चीजें छिन्-प-हाङ्ग-ति की काली कारतूतोंके कारण, जिसे पुस्तकें जलनेमें विशेष आनन्द आता था, अप्राप्य हो गईं तथा कुछ तो कालान्तरमें यों भी नष्ट हो गईं। हमलोग तो पोथियोंके नाम ही जानते हैं क्योंकि अधिकतर पोथियां लुप्त हो गईं हैं। कुछ पुरानी पोथियां अब भी हैं जैसे फु-शीके समयका इ—न्निछ् या परिवर्तनोंके नियम, पाछ्-पु जिसका लिखना सम्राट् धांग और यु के समयमें प्रारम्भ हुआ था और इ० पू० २३५७-

२२०८ के बीच समाप्त हुआ, और ष-चिंड्‌या पद्यके नियम जिसमें ( कानपूसिंयस ) ने थाढ़् और चउ राजकुलके समय ( ई० पू०-१५००-५०० ) के गीतोंको संकलित किया है। वेदको छोड़कर संसारमें इनसे प्राचीन और कोई ग्रन्थ नहीं हैं। इन ग्रन्थोंके अतिरिक्त कुछ दूसरी पुस्तकें भी हैं जिनमें अनगिनत प्राचीनकालके ग्राम्य-गीत संगृहित हैं। यहाँ में नमूनेके तौर पर दो ग्राम्य गीतोंको उद्धृत करता हूँ। पहला लगभग २३००-२२०० ई० पू० के सम्राट्‌थाढ़्-यान्के समयका है और दूसरा लगभग उसी कालका सम्राट्‌यू-षुन्‌द्वारा रचित है।

( १ ) सूर्यके उदय होने पर मैं उठ जाता हूँ

और सूर्यके अस्त होने पर आराम करता हूँ,  
मैं पानी पीनेके लिये कुंआ खोदता हूँ  
और भोजनके लिये जमीन जोतता हूँ  
सम्राट्‌ ( ति ) की शक्ति उसके ही पास रहे,

लेकिन मुझे उससे क्या लेना देना है।

( २ ) ऐ भाग्यवान बादल, फैला दो

अपनी गरिमा ऊपर से ऊपर;

ऐ सूर्य और चन्द्र, सदा दिनको

चमकीला और सुन्दर बनाते रहो।

आधुनिक संसार वैज्ञानिक आविष्कारोंके कारण गौरवमय संमझा जाता है परन्तु इसका प्रारम्भ चीनसे ही हुआ है। सान्-ताइ या तीन राजकुलों (लगभग २०००-१००० ई० पू०) के प्रथम चरणसे ही चीनमें लु-इ या छः कलाओं और लु-कुण्ड्‌या छः कामोंकी पढ़ाई होती थी। छः कामोंके नाम

ये हैं—थु-कुड़—वास्तुकला ( मेमारी ) चिन्-कुड़—धातु कला, प-कुड़—राजगीरी, सु-कुड़—बढ़ई गीरी, षउ-कुड़—प्राणि या जन्तुविज्ञान और छाव्-कुड़—वनस्पति या उद्दिद्विज्ञान । छः कलाएं ये हैं—लि-शिष्ठचार यूए—संगीत, पो-तीरन्दाजी, यू—रथचर्या, षु—लिखना और षु-गणित । हर कलाकी कई शाखाएं थीं—शिष्ठचार, तीरन्दाजी और रथचर्याकी पांच पांच, संगीत और लिखनेकी छः छः और गणितकी नव शाखाएं थीं । राजनैतिक सिद्धान्तों, शासनप्रणालीके संगठन, सैनिक, विज्ञान और युद्धके दाव पेचोंकी शिक्षा विस्तारसे दी जाती थी । उपरोक्त सभी विद्याओंका अध्ययन अध्यापन बड़े वैज्ञानिक और सिलसिलेवार ढंगसे होता था । मेरा विश्वास है कि आधुनिक विज्ञानका वास्तविक प्रारम्भ यहाँसे होता है । विज्ञान के आविष्कारोंमेंसे चार प्रसिद्ध आविष्कारोंका श्रेय चीनको है...जैसे कम्पास कागज मुद्रणकला और वारूद । वास्तवमें ये ही चीजें वैज्ञानिक युगकी अग्रगामिणी हैं । लेकिन यह ध्यान देने योग्य बात है कि वारूदका योग्य चीनमें केवल आतिशवाजी और आमोद-प्रमोदमें ही किया जाता था—यूरोप की तरह जनसंहार और धंसकारी कामोंके लिये नहीं । इसीमें चीन और पथिमकी सभ्यताके मौलिक अन्तरका पता चलता है ।

मेरी रायमें चीनी सभ्यताके निम्नलिखित चार प्रधान गुण हैं :—

(१) यह सभ्यता रचनात्मक मौलिक और चीनी भूमि की ही उपज थी किसी से मंगनी या नकल की हुई नहीं ।

(२) इस सभ्यता का स्थायी रह सकना भी एक बड़ा गुण है । जैसा पहिले कहा गया है मिश्र और बाबुल की सभ्यता कालके गालमें समा गई परन्तु चीनी सभ्यता अबतक कायम है और प्रगति पर ही है ।

(३) तीसरा गुण, इस सभ्यता का व्यापक होना है। उदाहरण के लिये लिपि और भाषा को ही लीजिए—सम्पूर्ण चीन में, जिसका क्षेत्रफल यूरोप से भी अधिक है, सदा से एक ही तरह की भाषा और लिपि रही है।

(४) अन्तिम गुण इस सभ्यता का मानवोचित गुणों से भरपूर और सर्वहितकारिणी होना है। इसके लिये जैसा कि ऊपर कहा गया है, बाहुदका उदाहरण सर्वश्रेष्ठ है। जो चीज़ चीनमें केवल आमोद-प्रमोद के लिये व्यवहार की जाती थी दूसरे देशोंमें वही ध्वंस करने का सबसे ज़्यादस्त साधन बनगई।

इन सभी गुणोंको ध्यानमें रखते हुए मैं दावे के साथ कहता हूँ कि भारतवर्ष को छोड़कर भूत या वर्तमान किसी कालमें चीनी सभ्यता सब देशोंकी सभ्यता से बढ़कर रही है। मिश्र और बाबुल की सभ्यताएँ बहुत दिनोंतक नहीं टिकीं, यूनान तथा रोम की सभ्यताएँ इतनी व्यापक नहीं थीं और यूरोप की आधुनिक सभ्यता के सम्बन्ध में कुछ कहना समय से बहुत पहले की बात होगी।

## अध्याय ५

### संसारमें सबसे प्राचीन इतिहास

चीन में और सभी सभ्य देशोंकी अपेक्षा अधिक लिखित प्राचीन ऐतिहासिक वृत्त पाया जाता है। इसलिये चीन के भूतकाल का इतिहास आसानी से जाना जा सकता है।

अनुश्रुति के अनुसार फान-कु चीन के जन्मदाता या आदि पुरुष माने जाते हैं। इन्होंने ही विश्व की रचना की और संसार भर पर शासन किया। इनके सात हाथ और आठ पैर थे। फान-कु के बाद सन्-हाङ्ग या तीन पौराणिक सम्राटों का वर्णन आता है जिनके नाम क्रमशः थिएन्-हाङ्ग-सर्ग के सम्राट्, ति-हाङ्ग-पृथ्वी के सम्राट् और रन्-हाङ्ग मानव सम्राट् थे। सान्-हाङ्ग के बाद प-चि-दश युगों का और इनके बाद उ-ति-पांच शासन कंतर्थों का वर्णन है। अभी भी कुछ ग्रन्थ वर्तमान हैं जिनमें उस समय की घटनाओं का वर्णन है और हर राजा का बहुत लम्बे समय तक शासन करने की बातों का उल्लेख है। ये बातें सत्य हो सकती हैं फिर भी वर्णित घटनाएँ विश्वसनीय नहीं जान पड़तीं। पीले सम्राट् के समय से चीन का विश्वस्त इतिहास मिलता है।

पीले सम्राट् के पहले चीन केवल कबीलों का देश था। ये कबीले भूमि पर प्रभुत्व जमाने के लिये आपस में लड़ा करते थे। न उस समय कोई सामाजिक व्यवस्था धी न उच्च कोटि की सम्मता ही। पीले सम्राट् ने २६९७ ई० पू० के लगभग सारे देश को एक सूत्रमें वांधकर चीनी सम्राज्य

की नींव डाली। उसी समय सामाजिक व्यवस्था तथा शासन प्रबन्ध कायम हुआ और हर दिशा में उन्नति होने लगी। असल में हमलोगों को पीले सम्राट् को चीनी राष्ट्र का पिता और नागरिक समाज का संस्थापक मानना चाहिए। इसलिये ही चीनी जनता अपने को पीले सम्राट् का बंशज कहती है और चीन का ऐतिहासिक संवत् इनके राजत्वकाल के प्रथम वर्ष से प्रारम्भ होता है।

यद्यपि पीले सम्राट् ने अपने सैनिक पराक्रम से राजगद्दी प्राप्त की थी परन्तु इन्होंने या इनके उत्तराधिकारियोंने तल्खार की अपेक्षा अपने गुणों से ही सम्राज्य पर शासन किया। कई पीढ़ियों के बाद पीले सम्राट् के अन्तिम उत्तराधिकारी ति-च को अयोग्य तथा गुणहीन होने के कारण जनता ने गद्दी से उतार दिया और उसके स्थान पर यावु को सम्राट् बनाया। यावुने पूरे सौ वर्ष तक शासन किया। उसके बाद उन्होंने अपनी इच्छा से राजगद्दी छोड़ दी और तब पुनः सम्राट् बनाए गए। पुनः ने ४८ वर्षों तक राज्य किया और यू को सम्राट् बनाकर अपनी इच्छा से ही राजगद्दी त्याग दी। इन सम्राटों के गुण और योग्यता की उपमा “सूर्य और चन्द्रमा” से दी जाती है। इन लोगोंने देश का शासन अपने महान् व्यक्तित्व के बल से किया और अन्त में स्वेच्छा से शासनाधिकार अपने ही समान योग्य उत्तराधिकारियों के हाथों में सौंप दिया। महात्मा ख्वान्-च ( कानफूसियस ) और मन्-च ( मेनसिलस ) ने इन दो सम्राटों को आदर्श शासक और उनकी शासन प्रणाली को अनुकरणीय बताया है। इन लोगोंका राजत्वकाल ‘पाण्-पाण्—स्वेच्छा से पद त्याग करने का समय—कहलाता है जो चीन के इतिहास का बड़ा ही गौरवमय युग है।

यू सम्राट् यावु और पुनः का बूझा मंत्री था। यू का सब से प्रधान काम

यह है कि उसने चीन की नौ बड़ी बड़ी नदियों के मुंह को चौड़ा करवाकर उनकी धाराओं के वहाव को समुद्र तक पहुँचाकर भयंकर बाढ़ से होनेवाली क्षति से देश को बचाया। सर्वसम्मति से ये ही सम्राट् युन् के उत्तराधिकारी चुने गए। आठ वर्षोंतक शासन करने के बाद यु ने भी बुड़ापा के कारण तथा अपने से पहले के सम्राटों की परम्परा रखने के लिये स्वेच्छा से गद्दी छोड़कर पो-इ नामक मंत्री को सम्राट् बनाना चाहा। लेकिन जनता की इच्छा थी कि यू का लड़का छ ही सम्राट् बनाया जाय। उसी समय से सिंहासन पर पैत्रिक अधिकार की प्रथा चली। यू का वंश चीन के इतिहास में ‘श्या’ (शिया) वंश कहलाता है। इस वंश का राज्य ४३९ वर्षों (२२०५-ई पू०) तक रहा जिसके बारह पीढ़ियों में सन्त्रह सम्राट् हुए। इस वंश का अन्तिम राजा ‘च्य’ था जिसे उसके अत्याचार के कारण छूँग-थांग नामक सरदार ने गद्दी से उतार दिया और खयं सम्राट् बन बैठा। छूँड़-थाड़ का वंश पाड़ नाम से पुकारा जाता है। इस वंश का राज्य भी १६ पीढ़ियों तक रहा तथा इसमें अट्टाइस सम्राट् हुए जिन्होंने ६४४ वर्षों (१७६६-११२२ ई० पू०) तक शासन किया। इस वंश के अन्तिम सम्राट् चूउ की भी वही दशा हुई जो ‘च्य’ की हुई थी। अयोग्य और अत्याचारी होने के कारण फा नामक सरदार ने इसे गद्दी से उतार दिया और खयं गद्दी पर बैठकर चूउ राजवंश की स्थापना की। चीन के इतिहास में कान्ति का यह दूसरा उदाहरण है। चूउ राजकुल का राज्य चीन के इतिहास के सभी राजकुलों से अधिक समय तक रहा। इस कुल के ३३ पीढ़ी में ३७ सम्राटों ने ८६७ वर्षों (११२२-२४६६० पू०) तक राज्य किया।

चूउ काल चीनी इतिहास का सर्वं युग है। जब हमलोग चूउ-लि

नामक पुस्तक पढ़ते हैं जिसमें चूड राजकाल के राजकीय नियमों और शासन प्रणाली का वर्णन है, तो अपने पूर्वजों की योग्यता और शक्ति की भूरिभूरि प्रशंसा किए बिना नहीं रह सकते। सभ्यता और संस्कृति के हर पहलू में उस समय आश्वर्यजनक उत्तरि हुई। इस युग में कितने ही वडेर महात्मा और सन्त हुए। महात्मा ख्वान्-च ( कानफ्यूसियस ) और लाव्-च, ( लाव-त्सु ) भी इसी काल में हुए तथा मोच, मन्-च ( मेनसिउस ), च्वाङ्-च, शुन्-च आदि भी। उस समय दर्शनशास्त्र के कमसे कम दस सम्प्रदाय थे। वह युग खतंत्र रूपसे विचार करने और अध्ययन करने का था। चीन की संस्कृति इस कालमें काफी प्रस्फुटित हुई।

इस युग के दो सामाजिक आन्दोलन भी ध्यान देने योग्य हैं—एक तो सामंतशाही प्रणाली की प्रगति और दूसरा चिछ्-थियन प्रणाली का परिवर्त्तन।

सामंतशाही का प्रारम्भ तो पीले सप्राट् के समय से ही हुआ था। इया और षाढ् राजवंशों के समय में इसकी प्रगति धीमी रही। परन्तु चूड युग में यह अपनी पूर्णता को पहुँच गई। सम्पूर्ण देश नौ चूड—प्रान्तों-में विभक्त था और प्रत्येक चूड कई षाढ्—सामंत रियासतों में बँटा था। क्षेत्रफल के अनुसार पाँच प्रकार की सामंत रियासतें थीं। पहला केष्ट् या छ्यूक की रियासत जिसका क्षेत्रफल ५०० वर्गली होता है। दूसरा हउ या मार्क्विस की रियासत जिसका क्षेत्रफल ४०० वर्गली होता था। तीसरा पो .या अर्ल की रियासत—क्षेत्रफल ३०० वर्गली, चौथा च्र या विस्काउन्ट की रियासत—क्षेत्रफल २०० वर्गली और पाँचवाँ नान् या वैरेन की रियासत जिसका क्षेत्रफल १०० वर्गली था। उपरोक्त पाँच प्रकार की रियासतोंका सामूहिक नाम च्रु-हउ या 'सामंत राजकुमार' था। केन्द्रीय

सरकार की निजी देख-रेखवाला प्रदेश हाड़-चि या राजकीय रियासत कहलाता था। प्रतिवर्ष 'सामंत राजकुमारों' को अपनी अपनी रियासतों के शासन प्रबन्ध सम्बन्धी व्यौरेवार रिपोर्ट केन्द्रीय सरकार को देनी होती थी। केन्द्रीय सरकार हर तीसरे वर्ष इन रियासतों की अच्छी तरह जाँच पड़ताल करती थी। चीन की सामंतशाही पश्चिमी देशों की सामंतशाही प्रणाली की तरह न थी बल्कि उसका मौलिक आधार जनतंत्रात्मक था।

चिङ्ग-थिएन प्रणाली ब्रह्म युग की भूमि सम्बन्धी बँटवारे की नीति थी। कुल भूमि राष्ट्र की मानी जाती थी जो सम्पूर्ण देश की जनसंख्या में वरावर वरावर वांट दी जाती थी। प्रतिवर्ग-ली नौ भागों में बांटी जाती थी और हर भाग में १०० 'मु' जमीन रहती थी। इन १०० मु जमीन में से आठ परिवारों को १०० मु प्रति परिवार के हिसाब से अपने निजी कामके लिये दे दी जाती थी और बचा हुआ १०० मु जो कुल जमीन के बीचमें रहती थी सार्वजनिक कामोंके लिये रखी जाती थी, जिसे आसपास के किसान वारी वारी से जोतते और बोते थे। उस सार्वजनिक जमीन की उपज सरकार को राजकीय खर्च चलाने के लिये दी जाती थी। किसानों को अपनी निजी जमीन की अपेक्षा सार्वजनिक जमीन के जोतने-बोने में अधिक ध्यान देना पड़ता था। असल में यह एक प्रकार की समाजवादी प्रथा थी जो पश्चिमी देशों से सर्वथा भिन्न थी। इस प्रथा को चलाने के लिये कभी खून बहाने की ज़रूरत नहीं पड़ी थी।

सामंतशाही प्रणाली काफी लम्बे समय तक चली। अन्त में भिन्न-भिन्न सामंतोंके बीच हीनेवाली कलह के कारण इसका अन्त हो गया। ब्रह्मयुग के अन्तिम समय में सारे देश में भिन्न-भिन्न उर्ध्वासतों थीं जिनमें छिन्-

सबसे शक्तिशाली थी। इस रियासत के राजा ब्रह्मने सभी रियासतों पर विजय प्राप्तकर ब्रह्मवंश के अन्तिम राजा को गढ़ी से उत्तर दिया और वह स्वयं राजा बन बैठा। इनका वंश छिन् कहलाता है। इन्होंने सामंतशाही प्रणाली को रद्द कर दिया और चीन के इतिहास में एक दूसरी ही अवस्था ला दी। सम्पूर्ण देशको एक सूत्र में संगठितकर इन्होंने दक्षिण में स्थित अनाम और पूर्व में स्थित जापान को भी जीत लिया। इन्होंने अपने विस्तृत साम्राज्य को ४० च्युन् या ग्रान्टों में विभक्त किया। सिकन्दर की नाईं ये भी अपने को विश्वविजेता समझते थे। इन्हें आशा थी कि इनका वंश सदा ही चीन पर शासन करता रहेगा परन्तु चीनी इतिहास में सबसे कम समयतक इन्होंने के वंशका राज्य रहा। क्योंकि इनके वंश का द्वितीय सम्राट् इनका लड़का 'र-ष' अपने अत्याचार के कारण गढ़ी से उत्तर दिया गया था। सम्राट् ब्रह्म वरावर सैनिक कामोंकी ओरही लगा रहता था और इन्होंने सांस्कृतिक उन्नति की बातें एकदमसे भुला दी थीं। इनकी आज्ञा से कितनी किताबें जला दी गईं तथा कितने ही विद्वान् जीवित दफना दिए गए। इस प्रकार की हरकतों से तंग आकर अन्त में साधारण जनश्रेणी के ल्यु-पाड़् नामक व्यक्ति ने कान्तिकारियों का संगठन कर विद्रोह का झंडा खड़ा किया। बाद में यह स्वयं हान्-कावू-चु नाम से सम्राट् बन बैठा और हान् राजवंश की स्थापना की चीन के इतिहास की यह सबसे पहली सार्वजनिक क्रान्ति थी।

हान्-कुल का राज्य ४०३ वर्षों तक रहकर सन् २१९ ई० में समाप्त हो गया। उस समय से लेकर सन् १९११ ई० की जनक्रान्ति तक; जबसे चीन में राजतंत्रको खत्मकर जनतंत्र की स्थापना की गई, कितने ही राजवंशोंने देश पर शासन किया। उनमें से बाहरी दुनिया थाड़् और चुंग के नामों से

उनके समय के कला सम्बन्धी कामों—खासकर चित्रों और चीनी मिट्टी के वर्तनों के कारण, अधिक परिचित है।

—\*—

## दूसरा प्रकरण

### आधुनिक चीनमें राजनैतिक परिवर्तन

अध्याय १

#### छिंग राजवंश ( मांचू शासन ) का अन्त

चीनका आधुनिक इतिहास चीनमें जनतंत्र कायम होनेके बादसे प्रारम्भ होता है। परन्तु जनतंत्रके महत्वको समझनेके लिये इस कालकी राजनैतिक और सामाजिक दशाओंका जानना जरूरी है जिनके कारण जनक्रान्ति पैदा हुई थी।

जनक्रान्तिके पहले चीनमें छिंग राजकुलका राज्य था। इस कुलकी स्थापना मांचू जातिके लोगोंने सन् १६४४ ई० में की थी जो सन् १९११ ई० तक रहा। इस कुलमें दस राजे हुए। छिंग कुलके उत्कर्ष कालमें चीनकी काफी उन्नति हुई। इस कुलके शासन कालके प्रारम्भिक दिनोंमें, अनाम, श्याम, वर्मा, भूतान और नैपाल सभी चीनके करद राज्य थे। सम्राट् खाड़ शी-के राजत्वकालमें रूसके राजा पीटर महानने चीनी सम्राट् की कृपा प्राप्त करनेके लिये अमूल्य उपहार भेजा था तथा बादमें मी समय समय पर भेजता रहा। सन् १७९३ ई० में चीनके सम्राट् छ्यान्-लुष्ठ के दरबारमें व्रिटेनके राजाका उपहार लेकर वृटिश राजदूत लार्ड मेकार्टनी आया था। मेकार्टनीने दरबारमें उपस्थित होकर घुटने टेक बादशाहका अंभिवादन किया। सम्राट् छ्यान्-लुष्ठने अंगरेजी राजाके पास जो पत्र भेजा था उससे उस कालके चीनकी शक्ति और उसके महत्वका पता चलता है। पत्र यों था—

“आपके मंत्रीने आपका भेजा हुआ उपहार और पत्र मुझे दिया । हमें यह जान कर खुशी हुई कि यद्यपि दूरीके कारण हम दोनोंके साम्राज्य बहुत अलग अलग हैं फिर भी आप हमारे प्रति वफादार हैं । आपका राजदूत हमसे मिल चुका है और हमने अपने मंत्रियोंको आदेश दिया है कि वे लोग उनका तथा उनके साथियोंका अच्छी तरह स्वागत करें ।”

“आपकी इस वातको मैं स्वीकार नहीं कर सकता कि आपके कुछ आदमी यहां आकर आपके व्यापारकी देखभाल करें क्योंकि यह दैवी राज्य के नियमके प्रतिकूल पड़ता है ।”

“हमारा दैवी राज्य चार समुद्रोंसे घिरा हुआ है और हमारी एकमात्र इच्छा अपनेको सदा प्रजाकी देखभालमें ही लगानेकी रहती है । दुर्लभ और अमूल्य उपहारोंका हमारी नजरोंमें कुछ भी मूल्य नहीं हैं जिसे कि आपका राजदूत यहां देख चुका है ।

“असलमें हमारा दैवी राज्य सभी चीजोंसे सम्पन्न है तथा इसकी सीमाके अन्दर किसी चीजकी कमी नहीं है । इसलिये वाहरी असभ्य लोगों द्वारा बनाई गई चीजोंकी यहां एकदम जहरत नहीं है ।

“हमारे प्रति अपनी वफादारी और राजभक्ति बनाए रखिए । इसीमें आपके देशकी शान्ति और भलाई है ।”

यद्यपि चीन उस समय अपनी प्रभुताके उच्च शिखर पर था परन्तु उसके पतनके भी चिह्न दृष्टिगोचर होने लगे थे । चीनमें छिं वंशकी स्थापना करनेके पहले तक मांचू दक्षिण-पूर्वमें रहने वाली एक असभ्य जाति थी । लेकिन हाथमें शक्ति आनेके बाद इस डरसे कि उनकी गद्दी छिन न जाय उन लोगोंने एक तरफ़ तो अपने जानते प्रजाकी भलाईके लिये कोई काम करनेको

उठा नहीं रखा और दूसरी तरफ अपनी शक्तिको भी अधिक से अधिक बढ़ाया। लेकिन एक शताब्दीके बाद छिड़् राजाओंमें अकर्मण्यता आ गई और राजके कर्मचारी धूसखोर और पतित हो गए। राज्य भरमें अयोग्य और धूसखोर अफसरोंका बोलबाला हो गया। इसका सबसे बड़ा उदाहरण उस कालका प्रधान मंत्री हो-खुन है जिसने बीस वर्षोंके राज्यकी नौकरीमें ८० करोड़ चीनी अशाफीकी सम्पत्ति जमा कर ली थी। उस समय राज्यकी वार्षिक आमदनी केवल ७० लाख अशाफीयों की थी। अन्तमें सरकारने उसकी सारी सम्पत्ति जब्त कर ली और उसे फांसी की सजा दी। लेकिन इस कर्वाईके बाद भी परिस्थितिमें कुछ सुधार नहीं हुआ। अफसरोंके अन्दर धूस लेनेकी शर्मनाक प्रथा बनी ही रही।

इस पतनकी अवस्थाको देशमें जगह जगह होने वाले विद्रोहने और भी भयंकर बना दिया। विद्रोह तो देशमें कई जगह उठ खड़ा हुआ। पो-लिआन-चिआव—सच्छ कुमुदिनी संस्था—ने धार्मिक क्रान्ति प्रारम्भ कर दी जिसमें थिएन-लि-चिआव—स्वर्गीय हेतु संस्था—ने भी सहयोग दिया। इसके अलावा काई-ब्रडमें मिर्झा जातिने, शिन-च्याष्ट् (सिक्यांग) में मुसलमानोंने और दक्षिण-पूर्व समुद्र तटके सामुद्रिक डाकुओंने भी विद्रोह कर दिया। इसके बाद ईसाइयोंकी थाइ-पिछ् क्रान्ति हुई इसका नेता हुइ-इयउ-छयुआन्, कवाष्-तुष् प्रान्तके हुआ जिलेका रहने वाला था। इसने स्वतंत्रता और समानता के नारेके धीरे देशकी राजनैतिक अवस्थामें सुधार करने और आर्थिक तथा सामाजिक दशाओंके पुनः संगठन करनेकी कोशिश की। इसने 'तीन लक्ष्य' नामकी संस्था कायम की और उसके द्वारा वह प्रचार करने लगा कि जहोवा स्वर्गके पिता हैं और ईसामसीह बड़े भाइ तथा

वह स्वयं छोटा भाई है। प्रारम्भमें उसे बड़ी सफलता मिली। कुछ ही वर्षोंमें पन्द्रह प्रान्तोंने उसका आधिपत्य स्वीकार कर लिया। उसने थाइ-फिङ्-थिएन-क्यों—महा शान्तिका स्वर्गीय राज्य नामक राजकुलकी स्थापना की और नान्-चिङ् ( नानकिंग ) को अपनी राजधानी बनाया। लेकिन अन्तमें उसकी क्रान्ति असफल रही। उसने चीनी सभ्यता और समाजके सम्पूर्ण ठाँचेको एकबार ही बदल देना चाहा था। नतीजा यह हुआ कि वह लोगों की सहानुभूति खो वैठा और यही उसकी असफलताका कारण हुआ। इस प्रकार छिं-कुलका राज्य अपनी घटती हुई शक्ति और ख्यातिके साथ कुछ दिनों तक और बना रहा।

देशकी भीतरी क्रान्तियोंके साथ साथ बाहरसे भी विदेशियोंके क्रूर आक्रमण होने लगे। ताव्-क्वाङ्के राजत्व काल ( सन् १८४० ई० ) में चीनने ब्रिटेनके विरुद्ध अर्हीमकी लड़ाई ( ओपियम वार ) द्वेष दी जिसमें उसे ही हार खानी पड़ी। नान्-चिङ् ( नानकिंग ) की सन्धि द्वारा ब्रिटेनको चीनके पांच बन्दरगाह क्वाङ् ब्रउ, पा-मन् ( आमो ), फु-ब्रउ-निं-फो और पां-हाइ ( शंघाई ) में व्यापार करनेकी रियायत और अतिरिक्त अधिकार मिले। खाड्-काड् ( हाँगकांग ) भी उन्हें दे दिया गया तथा एक बहुत बड़ी रकम भी हर्जनिके रूपमें चीनको चुकानी पड़ी। चीनके साथ हुई कितनी ही असम और अन्यायपूर्ण सन्धियोंमें यह पहलो सन्धि थी। सन् १८६० ई० में अंगरेजों और फ्रांसीसियोंकी संयुक्त सेनाने पई-निं ( पेकिंग ) पर गोलाबारी की तथा शहरको भरपूर लूटा और पिअन्-चिन और पल-चिङ् ( पेकिंग ) नामक दो सन्धियां करनेके लिये चीनको बाध्य किया। चीनसे बहुत बड़ी रकम हर्जाना कहकर बसूल की गई और पुनः

कई बन्दरगाहोंले गोने अपने व्यापारके लिये खुलवा लिए । सन् १८९५ ई० में क्वांडश्युके राजत्वकालमें जापानने चीन पर चढ़ाई की । चीन हार गया और उसे हजनिमें एक बहुत बड़ी रकम और फारमूसा द्वीप जापानको दे देना पड़ा तथा कई बन्दरगाह भी उनके व्यापारके लिये चीनको खोल देने पड़े । चीनकी करद रियासत कोरिया केवल नाम मात्रको स्वतंत्र रहा । असलमें वह जापान साम्राज्यका एक प्रान्तसा हो गया । सन् १९०० ई० में वक्सर विद्रोह हुआ और चीनको पुनः ब्रिटेन, रूस, जापान, जर्मनी, फ्रांस, अमेरिका, आस्ट्रिया और इटलीकी सम्मिलित सेनासे हार खानी पड़ी । इस प्रकार छ्रूँ राजकुलकी हालत दिन प्रतिदिन खराब ही होती गई और यही सन् १९११ ई० की महान् क्रान्तिकी नींव हुई ।

---

## अध्याय २

### महान् क्रान्ति और चीनी गणतंत्र

इस महान् क्रान्तिके वर्णनके पहले, क्रान्तिके नेता डा० सुन्-इ-श्यान् ( डा० सन यात सेन ) के विषयमें जान लेना जरूरी है ।

डा० सनका जन्म क्वाछू-तुछु प्रान्तके चुछु पालू जिलेमें सन १८६६ ई० में हुआ था । वचपनसे ही उन्हें थाइ-पिछु क्रान्तिके नेता हुछु श्यउ छ्यूआनकी कहानी सुनकर बड़ी प्रसन्नता होती थी और वे अपने मनमें सौचा करते थे कि बढ़कर में भी हुछु श्यउ छ्यूआनकी तरह ही होजँगा । जब वे बालिग हुए तो माँचू राज्यकी बुराइयों तथा देशके अपमानको देख कर उनका खून खौल उठा और उसी समयसे क्रान्तिकारी प्रचार करने लगे । सरकार तथा जनता दोनों ही इन्हें एक खतरनाक क्रान्तिकारी नेता समझने लगी । हूवाछू-काछू ( हांगकांग ) कालेजसे डाकटरी उपाधि प्राप्त करनेके बाद प्रत्यक्ष में तो इन्होंने क्वांग-ब्रउ और चिट-त्वांग ( मेकौ ) शहरोंमें दवाखाना खोल दिया परन्तु भीतर ही भीतर ये क्रान्तिका प्रचार करने लगे । थोड़े समयमें ही बहुतसे लोगों तथा कुछ राजनैतिक दलोंकी सहानुभूति इन्होंने प्राप्त कर ली । और सन् १८९४ में शिष्ठ च्रुछु हूवई नामक क्रान्तिकारियोंका एक केन्द्रीय दल स्थापित किया । सन् १८९५ ई० में चीन जापानसे हार गया और चीनके इस अपमानको वहांकी जनताके सामने रखकर इन्होंने पहली बार क्वांग-ब्रउ ( केन्टन ) में क्रान्तिका सूत्रपात किया । लेकिन सारा कार्यक्रम सरकारकी कानों तक पहले ही पहुँच चुका था इसलिये इन्हें

इस काममें सफलता नहीं मिली। अन्तमें इन्हें देश छोड़कर भागना पड़ा। जापान और अमेरिका होते हुए यूरोप पहुँचे। पर जहां कहीं भी गए वहांकी प्रवासी चीनी जनताके बीच अपने सिद्धान्तका प्रचार करते रहे। चीनके छिंग सरकारकी आंखोंका कांटा तो ये पहले ही सिद्ध हो चुके थे। इसलिये सन् १८९६ ई० में लंडन स्थित चीनी दूतावासके कुछ प्रतिनिधियों ने चुपचाप इन्हें धोखेसे पकड़ लिया और छिपा रखा। अपने शिक्षक मिस्टर जेम्स कान्टलीके प्रश्नसे ब्रिटिश सरकारने चीनी दूतावासके अधिकारियों पर दबाव डाला और तब किसी तरह इन्हें छुटकारा मिला। अपने मित्रोंके अनुरोध पर इन्होंने “मेरी हालकी गिरफ्तारी” नामक एक किताब लिखी इस किताबकी विक्री इतनी अधिक हुई कि इसीने इन्हें संसार-प्रसिद्ध बना दिया।

पहले डा० सन्ने केवल मांचू राजकुलको समाप्त कर उसके स्थान पर प्रजातंत्र कायम करनेकी बात सोची थी। परन्तु अपने विदेशी प्रवास कालमें इन्होंने आर्थिक और सामाजिक समस्याओंका गहरा अध्ययन किया और इस नतीजे पर आए कि जब तक देशकी आर्थिक और सामाजिक हालतोंमें सुधार नहीं होता तबतक सफल कान्तिकी आशा करना व्यर्थ है। उसके बादसे इनकी नीति ‘सान्-मिन्’ च्चु-इ’ या जनताके तीन सिद्धान्त, जिसमें सामाजिक राजनीतिक और आर्थिक न्याय पर जोर दिया गया है, अपने जीवन चरित्रमें इन्होंने लिखा हैं—

“धोखेवाजोंके पंजेसे छूटनेके बाद मैं दो वर्ष तक यूरोपमें रहा। इस बीच मैंने यूरोपकी समस्याओं तथा रीति-रिवाजोंका अच्छी तरह निरीक्षण ( अध्ययन ) किया। इङ्लैंड और यूरोप सभी जगहोंके गरीबों तथा अमीरों

के समर्कमें आनेके बाद मैं इस नतीजे पर पहुँचा कि वहाँके लोग खुशहाल नहीं हैं—यद्यपि उनलोगों के यहाँ अपार धन राशि है तथा जन-तन्त्रात्मक शासन प्रणाली भी, जिसकी वे लोग वरावर डॉग हाँका करते हैं। सभी जगह मुझे गरीबों और अमीरोंके बीच भीषण संघर्ष चलता हुआ दिखाई पड़ा। मैंने भविष्यमें होनेवाले इस तरह की भयंकर परिस्थितिसे अपने देशको बचानेका संकल्प कर लिया और अपने कार्यक्रममें राष्ट्रीयता और जनतंत्रके सिद्धान्तोंके साथ साथ आर्थिक सिद्धान्तका भी समन्वय किया।'

डा० सन् के 'जनताके तीन सिद्धान्त' यों हैं—

- ( १ ) मिन-चु-च्चु-इ—जनताकी स्वाधीनताके सिद्धान्त यानी राष्ट्रीयता।
- ( २ ) मिनछ्युआन-चु-इ—जनताके शासनका सिद्धान्त यानी जनतंत्र।
- ( ३ ) मिन-पछ-चु-इ—जनताकी जीविकाके सिद्धान्त यानी साम्यवाद।

जनताकी स्वाधीनताके सिद्धान्त या राष्ट्रीयतासे डा० सन्का अर्थ जातिगत समानता था। इसके दो अर्थ होते हैं; संकुचित अर्थमें यह चीन भरके अन्दर विना जाति भेदका विचार किए सर्वोंकी नागरिक स्वतंत्रता तथा समानताका वोधक है। विस्तृत अर्थमें यह अन्तरराष्ट्रीय जगतमें चीनका दर्जा और सभी राष्ट्रोंके समकक्ष मानता है। जनतंत्रके भी दो अर्थ हैं—पहला जनताके राजनीतिक अधिकार और दूसरा सरकारी अधिकारका विकेन्द्रीकरण। पहलेसे चार निश्चित कामोंका वोध होता है—( १ ) मत देनेका अधिकार ( २ ) प्रश्नावर्तनका अधिकार ( राइट आफ रिकाल ) ( ३ ) विधानमें परिवर्तन करनेका अधिकार ( ४ ) कानून पास होनेके पहले सम्पूर्ण नियंत्रिक समुदायका उत्तर सम्मान देनेका अधिकार ( राइट आफ रेफ-

रेन्डम)। सएकारी अधिकार पाँच भागोंमें विभक्त है—( १ ) व्यवस्थापिका विभाग ( २ ) न्याय विभाग ( ३ ) शासन प्रबन्ध विभाग ( ४ ) राजकीय सर्वोच्च परीक्षा विभाग और ( ५ ) नियंत्रण विभाग। ये सभी वैधानिक अधिकार कहलाते हैं। जनता की जीविकाके सिद्धान्तका अर्थ विस्तृत साम्यवाद है। इसे सम्मिलित या व्यापक साम्यवाद भी कह सकते हैं।

डा० सन् ने जनता की जीविकाके सिद्धान्त विषयक द्विए गए अपने सबसे प्रथम व्याख्यान में, इसकी व्याख्या यों की है—“मिन् षष्ठ् का असली अर्थ ‘जनता की जीविका’ है। दूसरे शब्दोंमें—जीविका ही जनताका प्राण है जिसके ऊपर समाज और राष्ट्र आधारित है। करीब एक सदी से जिस समस्याको लेकर सारा यूरोप गङ्गवड़ीकी हालत में है उसे मैं अपने इस सिद्धान्तसे हल करूँगा। मेरा मतलब सामाजिक समस्यासे है। इसलिये जनताकी जीविका का सिद्धान्त साम्यवाद, समाजवाद, या “महान् संगठन का सिद्धान्त भी कहा जा सकता है।”

लेकिन डा० सन् जिस साम्यवादके हिमायती थे वह न तो कार्ल मार्क्स का सामाजिक दर्शन था न सोवियत रूसमें लागू की गई सामाजिक प्रणाली। डा० सन् अक्सर कार्ल मार्क्सको सामाजिक रोगका ऐसा हकीम कहते थे जिसे सामाजिक शरीर विज्ञानका कुछ भी ज्ञान न हो। इसलिए कार्ल मार्क्स का सिद्धान्त केवल हकीमोंके ही काम का है। जनताकी जीविकाका सिद्धान्त कार्लमार्क्सके सिद्धान्तकी सभी प्रधान कमीको भी दूर करता है इस सिद्धान्तमें सामाजिक भसलोंके हल करनेके दो उपाय बताए गए हैं—एक तो पूँजी पर नियंत्रण और दूसरा जमीन का समान वँटवारा। सर्वोंको खेतीके लिये

जमीन और करनेके लिये काम रहेगा परन्तु कोई भी जर्मांदार या पूँजीपति नहीं हो सकेगा। देशके खनिज पदार्थ पर राष्ट्रका अधिकार रहेगा। जिससे देशका पुनर्निर्माण कार्य बड़े पैमाने पर किया जा सकेगा ताकि सभी आदमी उससे वरावर आनन्द और लाभ उठा सकेंगे। जीविकाका सिद्धान्त चीनकी खास दशा और परिस्थितिके अनुसार साम्यवादका चीनी संस्करण है।

जनताके तीन सिद्धान्त की रूपरेखा अच्छी तरह तैयारकर डा० सन् इसके प्रचारके लिये यूरोपसे जापान आए। प्रवासी चीनी जनता में इसका प्रचार करनेके लिये तथा दूसरे राष्ट्रों की सहानुभूति प्राप्त करनेके लिये वे संसारके सभी भागोंमें गए। सन् १९०५ ई० में वे पुनः यूरोप पहुँचे। इन्होंने प्रवासी चीनी प्रतिनिधियोंको लेकर ब्रुसेल्स में सर्व प्रधम अपनी क्रान्तिकारी समिति की स्थापना की। उसके बाद इस समिति की बैठ बल्लिन, पेरिस और टोकियो में हुई। समितिका नाम 'चुछू-क्वो-को-मिए-धुछू-मछू-हइ' या चीनी क्रान्तिकारी संघ रखा गया। इस समितिके सदस्य, जिनका आदर्श बड़ाही ऊँचा था, देशमें चारोंओर फैले हुए थे। अपने प्रयत्नमें लगातार असफल होने पर भी वे लोग हताश नहीं होते थे वल्कि उनका जोश और अधिक बढ़ता था। साथ साथ वे लोग अपने कार्य करने की प्रणाली को भी अधिक व्यवस्थित करते जाते थे।

सबसे अन्तिम पर सबसे बड़ी असफलता क्रान्तिकारियों को क्वाछू-ब्रउ ( केन्टन ) में २९ मार्च, सन् १९११ ई० को हुई। इसमें ७२ बहादुर शहीद हुए। इन सभी बहादुरों की समाधि केन्टन के पास ही है जिसे 'पीले फूल की समाधि' कहते हैं। आज यह जगह चीनी जनता का तीर्थस्थान हो गया है। परन्तु यह असफलता पौ फट्टने के पहले के अंधकार

के समान था। उसी वर्ष १० अक्तूबर को हु-फ़ह प्रान्तके उ-छाउँ शहरमें एकाएक क्रान्ति भड़क उठी। एक सहीने के अन्दर ही दस प्रान्तों पर क्रान्तिकारियोंने अपना अधिपत्य जमा लिया। उस समय तक डा० सन् विदेश में ही थे। अपने अनुयायियों के अनुरोध पर वे तुरत चीन लौट आए। उन्होंने पाउँ-हाइ ( संघाई ) में सभी अधिकृत प्रान्तोंके प्रतिनिधियों की एक सभा बुलाई। उस सभामें यह तय हुआ कि नान्-चिङ ( नानकिंग ) में एक अल्पकालीन सरकार कायम कीजाय और डा० सन् चीनी प्रजातंत्रके अस्थायी सभापति बनाए गए। जनवरी सन् १९१२ ई० की पहली तारीख से नान्-चिङ ( नानकिंग ) में चीनी जनतंत्र का वाकायदा काम प्रारम्भ हो गया। चान्द्रवर्ष की परिपाटी चलाई गई तथा सन् १९१२ ई० में चीनी क्रान्तिका पहला वर्ष मनाया गया। एक मंत्रिमण्डल की भी स्थापना हुई जिसमें जेनरल हाउँ-शिङ्, डा० उ-थिङ्-फाउँ और डा० छाइ खान्-फ़ह पूर्णति प्रधान प्रधान लोग थे। मंत्रिमण्डल कायम होने के बाद एक पार्लियामेंट बुलाई गई जिसमें सभी प्रान्तोंके प्रतिनिधि थे। सभापतिने ११ मार्च को ५६ धाराओंके एक अल्प-कालीन विधान की घोषणा की। उस विधान की मुख्य तीन धाराएँ थीं।

( १ ) सारे देशकी जनता द्वारा संगठित चीनकी सरकार जनतंत्रात्मक है।

( २ ) सर्वोपरि राजसत्ता पर चीन में रहनेवाले हर व्यक्ति का अधिकार है।

( ३ ) जाति, वर्ग धर्म निर्विशेष सभी नागरिक समान हैं।

नान्-चिङ ( नानकिंग ) में अल्पकालीन सरकार कायम होने के पहिले, एकवार पुनः मार्चू राजवंशने अपनी सत्ता बनाए रखनेकी अन्तिम कोशिश की। इस बार मार्चू वंशने वैधानिक प्रगाली का सहारा लिया तथा हान्-प-खाइ

नामक देनरल को, जो राज्य द्वारा वर्खास्त करदिया गया था, राज्य की रक्षा का भार लेने तथा शासन व्यवस्था को पुनः संगठित करने के लिये निमंत्रित किया। ट्रान्, राज्य का प्रधान मंत्री तथा दक्षिणी प्रजातंत्र से लड़नेवाली नैजिका प्रधान सेनापति बनाया गया। वह स्वभावतः महत्वाकांक्षी तथा द्यावाज़ था। एक तरफ उसने स्थिति की भयंकरता का डर दिखा राजाको गद्दी त्याग देनेके लिये कहा तथा दूसरी ओर उसने डा० सन् को यह कहकर धोखा दिया कि अगर वह प्रजातंत्र का सभापति बना दिया जाय तो उनकी मदद करेगा। डा० सन् स्वभावतः ही उदार थे। उन्होंने उसकी बात मान ली। फरवरी २२, सन् १९१२ ई० को माँचू वंशका अन्तिम गजा श्युयान्-युछउर्फ फु-ई ने, जो अभी लड़का ही था, गद्दी त्याग दी तथा वह नव स्थापित प्रजातंत्र सरकारकी देखरेखमें रखा गया। दूसरे दिन सुबह ही अर्धत २३ फरवरी, सन् १९१२ ई० को डा० सन् ने अपनी प्रतिज्ञानुसार प्रजातंत्र सरकार के सभापतित्व से त्यागपत्र दे दिया। और ट्रान् प्रजातंत्र सरकार का प्रधान बनाया गया। डा० सन् का एक ही उद्देश्य था—माँचू राज्य को समाप्त कर उसकी जगह पर जनतंत्रात्मक शासन प्रणाली कायम करना। उन्हें व्यक्तिगत स्वार्थ कुछ भी नहीं था। इसलिये ट्रान् को सभापति बनाने के लिये बिना हिचकिचाहट के उन्होंने अपने पदसे त्यागपत्र दे दिया। उसी वर्षकी जनवरी में अस्थायी सभापतिका आसन ग्रहण करते समय उन्होंने कहा था कि “माँचू राज्य के समाप्त होने के बाद ही मैं सभापति के पदसे इस्तीफा दे दूँगा। उन्होंने अपनी प्रतिज्ञा का ठीक ठीक पालन किया। माँचू राज्य तो समाप्त हो गया परन्तु साथ ही साथ चीनके दृष्टिशास्त्र का दूसरा विनियन अस्थाय प्रारम्भ हुआ।

अध्याय ३ ।

## प्रजातंत्रकी स्थापनाके बाद अराजकता का दौर दौरा ।

किसी भी वडे आन्दोलन की पूर्ण सफलता के लिये काफी कीमत चुकानी पड़ती है । भाग्य को कोई धोखा नहीं दे सकता । क्रान्ति की सफलता की कीमत चाहे उसके पहले या उसके बाद कभी न कभी चुकानी ही पड़ती है । यद्यपि तैयारी वर्षों से हो रही थी, परन्तु अन्त समय में विना लड़ाई के चीन की क्रान्ति सफल हो गई । राजतंत्र, प्रजातंत्रमें विना एक वूँद खून वहाए ही परिणत हो गया । शायद यही क्रान्ति की सबसे बड़ी कमी रही और इसीलिए इसके बाद जरूरत से भी अधिक कीमत चुकानी पड़ी ।

डा० सन्-यात-सेन के कार्यक्रम के अनुसार देशके राजनैतिक संगठन को तीन अवस्थाओं से पार करना था । पहला राजनैतिक सत्तापर सैनिक अधिकार । सैन्यशक्ति द्वारा सरकार की स्थापना हो जाने तथा उसके स्वीकार करलिए जाने पर दूसरी अवस्था शुरू होती है और वह है राजनैतिक संरक्षण अर्थात् चुने हुए व्यक्तियोंके हाथों में शासन प्रबन्ध का भार देना इस अवस्था में सरकार देश की जनता की राजनैतिक शक्तिके ट्रस्टी स्वरूप रहती है । तीसरी अवस्था है वैधानिक शासन का । इस काल में देश की जनता द्वारा चुने गए प्रतिनिधि शासन भार ग्रहण करते हैं तथा उसे चलाते हैं ।

कोई भी प्रजातंत्र इन तीन अवस्थाओं को पार किए विना ठोस नहीं होता है । क्योंकि विना इसके लोगों के अन्दर की राजतंत्रात्मक भावना को

पूरी तरह नहीं मिटाया जा सकता। दुर्भाग्य से चीन की क्रान्ति जितनी जल्दी सफल हुई उतनी ठोस नहीं थी और यही भविष्य के लिये भयानक सावित हुई। 'चीन की क्रान्ति का इतिहास' नामक पुस्तक में डा० सन् ने लिखा है :—

"यह दुःख की बात है कि चीन की क्रान्ति जनतंत्र निर्माण की तीन अवस्थाओं सैनिक संघर्ष, राजनैतिक संरक्षण और वैधानिक शासन से नहीं गुजरी। उसके बाद देशकी हालतमें गड़बड़ी का एकमात्र कारण उस काल के कुछ प्रधान क्रान्तिकारी नेताओंकी लापरवाही थी।

ट्वान् की चालाकी और हठसे चीन की राजधानी नान-चिंग (नानकिंग) से जिसे दक्षिणी क्रान्तिकारी नेताओंने कायम किया था, हटाकर पइ-चिंग (पेकिंग) लाइ गई। प्रजातंत्रका अस्थायी सभापति होने के बाद ही ट्वान् ने प्रजातंत्र के प्रति अपनी भक्ति बनाए रखने की शपथ ली और निर्वाचित राष्ट्रीय पालियामेंट की स्थापना की। निर्वाचित राष्ट्रीय पालियामेंटने जैसे ही उसे स्थायी सभापति चुना, वह उन सभी अस्थायी विधान की बातोंको तोड़ने लगा जिनसे उसके स्वार्थ में बाधा पहुँचती थी। कुछ क्रान्तिकारी नेताओंसे वह अपना वैर साधने लगा तथा उसकी आज्ञा से बहुतों को फाँसी दे दी गई। यह स्पष्ट था कि ट्वान् प्रजातंत्र का हिमायती नहीं था बल्कि अपने स्वार्थ साधन के लिये देशमें उठी नई लहर से नाजायज फायदा उठा रहा था। नवजात प्रजातंत्र के ऊपर होनेवाले इस भयंकर घतरे को देखकर डा० सनने चुण्ड-हुआ-को-मिण्टाण - चीनी क्रान्तिकारी दल नामक एक नई पार्टी कायम की और ट्वान् को उसकी भयंकर कार्रवाल्योंके लिये चेतावनी दी। ट्वान् अपने अभिमानमें चूर था और सोनता था कि वह

जो चाहेगा करा लेगा । सन् १९१५ ई० के नवम्बर में उसने जनतंत्रात्मक विधानको स्थगित कर राजतत्रकी घोषण की तथा अपनेको चीनका सम्राट् घोषित किया । १ ली जनवरी सन् १९१६ ई० को उसने अपने राज्याभिषेक की तिथि निश्चित की । प्रजातंत्र स्थगित होनेकी बात जैसे ही सारे देशको ज्ञात हुई वैसे ही दक्षिणी-पश्चिमी प्रान्तोंमें छाइ-जो और लिलिए च्युन्के नेतृत्वमें विद्रोहकी आग भड़क उठी और उसकी ज्वाला सारे देशमें फैलगई । परन्तु इसी बीच ट्वान्की मृत्यु हो गई और उसके राज्याभिषेक का सुनहला स्वप्न भी उसीके साथ चला गया ।

ट्वान् की मृत्युके बाद डा० सन् देशमें पूर्ण जनतंत्रात्मक शासनप्रणाली चालू करना चाहते थे लेकिन जनतामें अभी इतना साहस नहीं था, इसलिये उन्हें सफलता नहीं मिली । ट्वान्का भूत अबभी कुछ लोगोंपर सवार था और माँचू राज्यकी पुनर्स्थापनाके लिये वरावर कोशिश हो रही थी । परन्तु ये सभी कोशिशें असफल रहीं । लेकिन इसी समय राजनैतिक आकाशमें राहु-केतुके समान “वार-लाडों”-सेना अधिनायकों—का उदय हुआ । ये स्वार्थी लोग सभी जगह उठ खड़े हुए—खासकर उत्तरी प्रान्तों में । उन लोगोंके दिलमें खदेश प्रेमका जरा भी भाव नहीं था । केवल अपना स्वार्थ ही भरा था । उन लोगोंके घट्यन्त्र और निरन्तर लड़ाईके कारण देशकी बड़ी दुर्गति हुई । अपनी अपनी जगह उनलोगोंने अलग अलग रियासत कायम कर ली । बहुत वर्षों तक दक्षिणी प्रान्तोंने पह-चिड़ ( पेकिंग ) सरकार, जिसे उत्तरी सैनिक पड़यन्त्रकारियोंने स्थापित किया था, के साथ विरोध जारी रखा । देशके बहुत भागोंमें गृह-युद्ध शुरू हो गया । और अब हालत ऐसी हो गई थी कि जानपड़ता था कि देश अन्धकारके गर्तमें सदा के लिये चला जाएगा ।

## प्रजातत्रकी स्थापनाके बाद अराजकता का होगा

जब देशके अन्दर आपसी मतभेद होता है तो विदेशियोंकी चर्चा आती है। हमलोगोंका एक अविवेकी और महत्वाकांक्षी पड़ोसी जापान है। यूरोपीय महायुद्ध और ट्रान्-प-खाइ के देश के प्रति विश्वासघातसे फायदा उठाकर जापानने चीनपर चढ़ाई करदी और च्वान्-च्चउकी खाड़ी ( कावचौदे ), एक जर्मनीके पट्टेका क्षेत्र और च्चावृ-चि ( काव-ची ) रेलवे पर जबरदस्ती कब्जा कर लिया। जापानने ट्रान्-प-खाइ की सरकारको अपने तथाकथित इक्कीस भागोंके आधारपर सन्धि करनेके लिये वाध्य किया। उन इक्कीस भागोंका स्वीकार करना, चीनको सदाके लिये गुलामीके बंधनमें बांधना था। लेकिन ट्रान्-को तो केवल अपना स्वार्थ सिद्ध करना था। उसने सोचा था कि जापानकी मददसे वह चीनके सम्राट् होनेका अपना स्वप्न पूरा कर सकेगा। इसी कारणसे उसने सन्धि-पत्र पर ता० ९ मई, सन् १९१५ ई० को हस्ताक्षर कर दिया। सचमुचमें ट्रान्-से मातृभूमि के साथ बड़ा ही विश्वासघात किया। सारा देश इस अपमानसे बौखला उठा तथा दूसरे राष्ट्रोंका भी ध्यान चीनकी ओर आकृष्ट हुआ। संयुक्तराष्ट्र अमेरिकाने सरकारी तौरपर जापानको इस नीति का विरोध किया। यद्यपि सन्धिकी एक भी वात कार्यान्वित नहीं हुई परन्तु चीनकी जनता आजभी ९ मई सन् १९१५ को चीनके लिये वैदेजजतीका दिन मानती है।

जापानने जो नमूना पेश किया था भला उससे परिवर्तनके दौर लुटेरे देश क्यों चूकने लगे। वे तो चीनके अन्दर मालामाल होना चाहते थे। देशकी गङ्गवड़ीसे अपना फायदा उठानेके लिये वे परिवर्ती गाढ़ चीनके विभिन्न सेनानायकोंको एक दूसरेके विरुद्ध भड़काने लगे तथा अस्तशस्तसे भी उनकी मदद करने लगे। उसी समय अमेरिकाके प्रेसिडेन्ट रूटिंगने इस ओर ध्यान

दिया। उन्होंने वाशिंगटन शहरमें १ ली जुलाई सन १९२१ ई० को वेलजियम, फ्रांस, ग्रेटब्रटेन, इटली, जापान, हालैंड, संयुक्त राष्ट्र अमेरिका और चीन इन नौ राष्ट्रोंका एक 'प्रशान्त सम्मेलन' बुलाया। अन्तमें चीनके सम्बन्धमें सम्मेलनने एक बात तय की तथा इन नौ राष्ट्रोंने "नौशक्ति सन्धिपत्र" पर हस्ताक्षर किया। इन "नौ शक्तिसंधिपत्र" की कुछ जरूरी बातें यों थीं।

( १ ) चीनकी स्वाधीनता, सर्वोपरिराजसत्ता और शासन तथा सीमा सम्बन्धी अखण्डता स्वीकार कीगई।

( २ ) चीनमें स्थायी और सुदृढ़ सरकार की स्थापना करनेमें सहयोग प्रदान करना।

( ३ ) चीनकी सीमाके भीतर सभी राष्ट्रोंके व्यापारिक हितमें समानताके सिद्धान्तको मानना।

यद्यपि देखनेमें यह सन्धि चीनके लिये लाभप्रद जान पड़ती है परन्तु वास्तवमें यह एकमात्र विदेशी शक्तियोंके व्यापारिक हितोंसे संरक्षणसे सम्बन्ध रखती है। लेकिन चीनके सामने दूसरा उपाय नहीं था और उसे शिर झुका कर सब कुछ स्वीकार करना पड़ा।

अब देशवासियोंको पूरा विश्वास हो गया कि जवतक सेना अधिनायकों का खात्मा नहीं होता है, देशमें शान्ति स्थापित नहीं होगी, न प्रजातंत्र ही कायम हो सकेगा और बिना सुदृढ़ क्रान्तिकारी केन्द्रीय शासनकी स्थापना के विदेशियोंसे मुकाबला नहीं किया जा सकेगा। चीनी प्रजातंत्र के पिता डा० सन्-यात्सेनने परिस्थिति फिरसे कावूमें कर ली और दूसरी जबरदस्त क्रान्तिके लिये पुनः लोगोंका नेतृत्व करना आरम्भ किया।

## अध्याय ४

### चीनकी राजनीतिमें नवयुगका प्रारम्भ

हम पहले ही कह आए हैं कि डा० सन् ने सन् १८९४ ई० में राजनीति में प्रवेश करनेके प्रारम्भिक दिनोंमें ही होनोलुलुमें शिष्ट-चुण्ह-हवइ नामक एक क्रान्तिकारी समिति कायम की थी। सन् १९०४ में उस समितिका विस्तार कर चुण्ह-क्वो-को-मिण्ह-चुण्ह-मण्ह-हवइ—चीनी क्रान्तिकारी संघ—नाम रखा गया। इस संघकी बहुतसी बैठकें यूरोप आदि देशोंमें हुई और अन्तमें इसका प्रधान दफ्तर जापानकी राजधानी टोकियोमें लाया गया। इसी संघके आन्दोलन तथा उद्योगसे माँचू राजका खात्मा हुआ और चीनी प्रजातंत्र की स्थापना हुई। ट्वानूके विश्वासघात करने पर डा० सन् ने सन् १९१४ ई० में पुनः टोकियोमें चुण्ह-हुआ-को-मिण्ह-ताण् नामक एक क्रान्तिकारी दलका संगठन किया था जिसका उद्देश्य चीनको ट्वानूके पंजेसे छुड़ाना था। ट्वानूके मरनेके बाद उत्तरी सेना अधिनायकोंके आपसी गृह-युद्धने चीनको हालत एकदमसे बदतर कर दी थी। इन सेना अधिनायकोंकी शक्ति तोड़ने तथा चीनमें क्रान्तिकारी शक्ति पैदा करनेके लिये डा० सन् ने पुनः एक क्रान्तिकारी दल कायम किया जिसका नाम चुण्ह-क्वो-क्वोनिन्-ताण्—चीनी शास्त्रीय दल था। डा० सन् का विश्वास ठीक था कि क्रान्तिके समय उन चरित्रहीन और अनुशासनहीन पुराने जेनरलोंके हाथोंमें सेनाका भार देना बहुत बड़ा खतरा भोल लेना है। इसलिये जल्द ही च्यांग-चिए-प ( चांग-काइ-शेक ) की अभ्यक्षतामें एक हांग-फु नामक एक सेनिक विद्यालय को स्थापना की

ताकि प्रजातंत्रके लिये नौजवानोंकी ट्रेनिंग हो। इसीमें भावी सफलताका बोज निहित था।

‘बोमिनताङ्’ का, जो पार्टीका संक्षिप्त नाम है, प्रधान दफ्तर क्वाङ्-चूउ (केन्टन) में रखा गया। सभी क्रान्तिकारी विचारवाले चाहे वे राष्ट्रवादी हों चाहे साम्यवादी या अराजकवादी, इसके भंडेके नीचे आ गए और वडे ही कड़े अनुशासन द्वारा उनका संगठन किया गया। पुनर्संगठित दलका सम्पूर्ण कार्यक्रम सन् १९२३ ई० में प्रकाशित किया गया और उसी समयमें डा० सन् की अध्यक्षतामें एक सैनिक सरकारकी स्थापना क्वाङ्-चूउ (केन्टन) में हुई। डा० सन्के हाथोंमें अधिनायकतंत्रका अधिकार दे दिया गया तथा सभी सदस्योंने उनके सिद्धान्त और आज्ञा माननेकी शपथ ली। इसी बीच उत्तरी सरकारके विरुद्ध लड़नेके लिये काफी सेना तैयार की गई। पर अचानक एक दूसरी ही घटना घटी। सेना अधिनायक उ-पड़-फु के अधीन फङ्-यू-च्याङ् नामक एक इंसाइ जेनरल था। इसने देशको गृह-युद्धोंसे बचानेकी आशासे उनके विरुद्ध विद्रोह कर दिया। इसकी इच्छा थी कि उत्तरका एक राजनैतिक नेता तुआन्-चि-रुई राज शासनका मुखिया हो। इसीलिये उसने डा० सन् को राष्ट्रीय समस्याओं पर विचार करनेके लिये पइ-चिङ् (पेकिंग) आनेको निमंत्रित किया। उत्तरके सैनिक नेताओंको अपनी पिछली कारवाइयों पर पश्चाताप करते देख डा० सन्, पइ-चिङ् (पेकिंग) जानेको राजी हो गए तथा जापान होकर वहाँ गए भी। जानेके पहले उन्होंने एक घोपणा की जिसमें तीन चातों पर काफी जोर दिया— पहला, सभी असम सन्धियोंको रद्द करना; दूसरा, सैनिकोंके हाथसे शासन भार लेकर जनताके हाथोंमें देना; और तीसरा, ‘जनताके तीन सिद्धान्त’ की नीति पर राष्ट्रका संगठन करना।

पइ-चिछू ( पेर्किंग ) जाते समय जब वे जापान गए तो वहाँ की जनताके अनुरोध पर उन्होंने एक व्याख्यान इस विषय पर दिया कि किस प्रकार एशियाई राष्ट्रोंका एक संगठन कायम किया जा सकता है। उनके इस व्याख्यानका चारों ओर बड़ा स्वागत हुआ। लगातार दिन रात काम करते रहनेसे डा० सन्‌का स्वास्थ्य बहुत ही गिर गया था। जब वे पइ-चिछू ( पेर्किंग ) में ही थे, चीनी जनताके अभाग्यसे अचानक ता० १२ मार्च सन्‌ १९२५ ई० में उनकी मृत्यु हो गई। उनकी असामयिक मृत्युसे चीनी प्रजातंत्रको बड़ा ही धक्का लगा और देश पुनः एक बार गड़बड़ीकी हालतमें हो गया।

डा० सन्‌ की अन्तिम इच्छानुसार उनकी मृत्युके बाद 'क्योमिनताल्' ने बाण-चिछू-बइ की अध्यक्षतामें बवाण-चूड ( केन्टन ) में एक राष्ट्रीय सरकारकी स्थापना की। जनवरी सन्‌ १९२६ ई० में सम्पूर्ण चीनके प्रतिनिधियोंकी बैठक चहाँ ही युलाई गई जिसमें जेनरल च्याल्-चिए-प ( च्याल्-काई-शेक ) उत्तरी सेना अधिनायकोंसे लड़नेके लिये जेनरलिस्मो चुने गए। इसी वर्ष की जुलाई में चद्वाई आरम्भ कर दी गई और कुछ ही महीनों में याल्-चि-च्याल् ( यांगटिसिक्युयांग नदी ) के दक्षिणके सभी प्रान्त जेनरलिस्मों के अधीन हो गए। अप्रैल, सन्‌ १९२७ ई० में गांटीय सरकारकी राजधानी क्वाट्-च्रड ( केन्टन ) से नान्-चिल् ( नान्किंग ) लाई गई। नान्किंग बहुत प्रचीनकालसे ही देशकी राजधानी था। सन्‌ १९२८ ई० तक सागा देश राष्ट्रीय सरकारके अन्दर था गया। चीनके इतिहासमें यह सैनिक विजय अद्वितीय है। डा० सन्‌ के निदानके अनुमान जनतंत्र कायम होने की प्रथम अवस्थाका अन्त सेना-अधिनायकोंके अन्त होनेके साथ ही होता है। और इसके बाद दूसरी अवस्था क्योमिनताल् के अधीन प्रारम्भ होती है।

जिस समय क्वोमिनताङ् की तरफसे नाशल च्याङ्-चिएप ( च्याङ्-काई-शेक ) सेना-अधिनायकों से लड़ रहे थे उस समय उनके मार्गमें दो वायाएँ थीं । पहली तो जापान की चीन पर लोलुप गृद्ध-विद्धि और दूसरी मास्कोके तृतीय इन्टरनेशनलकी वगवर डेङ्खानी ।

चीनकी आन्तरिक गड़बड़ीके कारण ही विदेशियोंको वहां पर पंजाफैलानेका हमेशा मौका मिलता रहा है । राष्ट्रीय सरकारकी सैनिक विजयसे चीन एकताके सूत्रमें वंधता दिखाई पड़ने लगा । परन्तु यह एकता जापान की चीन सम्बन्धी अभिलापाओंको चूर करनेवाली थी । इसलिये जापानने अधिक दिन ठहरना ठीक नहीं समझा और तुरतही विना किसी कारणके पान्-तुङ् सूत्रे पर चढ़ाई कर दी और उसकी राजधानी चिन्नान् पर कब्जा कर लिया । जापानी इससे भी आगे बढ़कर जेनरसलिस्मोंकी सैनिक विजयको रोकना चाहते थे पर इसमें उन्हें सफलता नहीं मिली । इससे जापानियोंको और भी ईर्षा हुई । सन् १९३१ ई० में जब कि याङ्-चू-च्याङ् में भयंकर बाह आई थी, उससे फायदा उठाकर जापानियोंने चीनके तीन पूर्वी सूत्रों पर आक्रमण कर दिया और रुअ-हो ( जेहोल ) पर कब्जा कर मान्-चूउ-क्वो ( मांचूको ) नामक गुड़िया गियासत की स्थापना की । जो कुछ हो जापानियों की चढ़ाई से चीनको एक बड़ा फायदा पहुँचा — जापानकी बढ़ती से चीनके लोगोंमें उसके प्रतिरोध करनेकी शक्ति और बढ़ी तथा सारा ही देश राष्ट्रीयता की भावनासे झोतप्रोत हो गया ।

परन्तु समाजवादियोंका विरोध दूसरे ही तरह का था । हर बुद्धिमान व्यक्ति क्वोमिनताङ् और समाजवादियोंके अन्दरकी फूटके लिये पश्चाताप करेगा । बहुतसे समाजवादी बड़े ही योग्य और बहादुर व्यक्ति थे । पहले उन लोगोंने

डा० सन् द्वारा स्थापित क्वोमिनताढ़् के सिङ्गान्तोंको मानना सहर्ष स्वीकार किया था तथा इस बातकी शपथ ली थी कि वे लोग डा० सन् का समर्थन करेंगे। परन्तु बादमें पता चला कि यह उनलोगोंका केवल कौशल और चातुरी थी। क्वोमिनताढ़् के द्वारा उनलोगोंने अपना स्वार्थ साधन किया और अन्तमें क्वोमिनताढ़् और समाजवादियोंके बीच सर्वधर्ष की नौबत आ गई। सन् १९२७ ही में पार्टीके नेताओंने सभी समाजवादियोंको क्वोमिनताढ़् से निकाल दिया। तब उनलोगोंने चीनी समाजवादी दलकी स्थापना का और शक्ति संचय करनेके लिये राष्ट्रवादियोंसे सर्वधर्ष करने लगे। उसके बाद समाजवादियोंने च्याढ़-शि (क्यांगसी) के सूचेमें चीनी सोवियत सरकार की स्थापना की और अद्भुत वर्ग-संघर्ष चलाने लगे जिसका प्रधान सद्वान्त अपने से भिन्न मतावलम्बियोंको कत्ल करना था। थोड़े दिनोंके बाद ही क्वोमिनताढ़् की तरफसे (क्यांगसी)के सोवियत सरकारके विरुद्ध सैनिक चढ़ाई की गई और अपार सैनिक शक्तिके द्वारा समाजवादी लोग पूरी तरह दबा दिए गए। लेकिन राष्ट्रीय सरकारने समाजवादियोंके साथ बड़ी ही उदारताका व्यवहार किया। वहुतसे समाजवादियोंको अपने भूतपूर्व कार्य की गलती महसून हुई और वे लोग पुनः क्वोमिनताढ़् में शामिल हो गए। इस प्रकारकी एकता से ही चिंदेशियोंकी चढ़ाई तथा व्यापारिक लूटसे देशकी रक्षा की जा सकती है।

इन कठिनाह्योंके रहते हुए भी उत्तरी चीन-अधिनायकोंके विरुद्ध छेड़ी गई सैनिक चढ़ाईमें काफी सफलता मिली। लाज समूर्ण देश राष्ट्रीय सरकारके वर्धीन हैं और चीनी जातिका विद्वास भाजन हो रहा है। अगर समाजवादियोंकी ओरसे गढ़वाली न पैदा की गई होती और जापानका अवसरण न हुआ होता तो चीनका भविष्य और भी अधिक उज्ज्वल होता।

## अध्याय ५

### वर्तमान सरकारकी शासन-प्रणाली और नीति

यह पहले ही बताया जा चुका है कि जिस समय उत्तरी सेना-अधिनायकोंके विरुद्ध सैनिक चढ़ाई की गई थी उसी समय राष्ट्रीय सरकारकी राजधानी क्वाढ़्चूड़ ( केन्टन ) से नान् चिड़ ( नानकिंग ) लाई गई थी। पार्टीमें कुछ ज़रूरी सुधारके बाद प्रजातंत्र स्थापनाकी दूसरी अवस्था अर्थात् देशके कुछ त्रुने हुए व्यक्तियोंके हाथोंमें शासन-प्रबन्ध देने पर विचार किया गया। मई, सन् १९३१ ई० में राष्ट्रीय पंचायत नान्-चिड़ ( नानकिंग ) में बुलाई गई और उसमें एक अस्थायी शासन-विधान तैयार किया गया। यह विधान डा० सन् के राष्ट्रीय पुनर्निर्माणके सिद्धान्तके ऊपर पूर्णतः आधारित था। पंचायतने राष्ट्रीय सरकारके संगठनके विधानमें भी संशोधन किया ताकि उससे और अस्थायी विधानसे सामंजस्य स्थापित हो सके। संशोधित विधानके अनुसार शासनकार्य केन्द्रीय सरकार और विभिन्न स्थानीय सरकारों—इन दो भागोंमें विभक्त किया गया। केन्द्रीय सरकारका सभापति देशका सबसे बड़ा और विशिष्ट गुणोंसे युक्त व्यक्ति ही होता है। यद्यपि वह कुछ समयके लिए शासनका प्रधान रहता है पर उसके ऊपर प्रत्यक्ष स्पसे कोई राजनीतिक जिम्मेदारी नहीं रहती है। राष्ट्रीय सरकारके अधीन पाँच यूआन् ( विशेष विभाग ) हैं जो एक तरहसे चीज़के सर्वथेष्ठ विभाग हैं। पाँच यूआन् ये हैं—  
 (१) शासन प्रबन्ध यूआन् (२) व्यवस्थापिका यूआन् (३) न्याय यूआन् (४) सर्वोच्च राजकीय परीक्षा यूआन् और (५) नियंत्रण यूआन्। हर यूआनमें सभापति, उपसभापति और कुछ मंत्री लोग होते हैं। शासन-प्रबन्ध यूआनमें

दूसरे यूआन् की अपेक्षा अधिक मंत्री हैं तथा इस यूआन् को ज्यादा अधिकार भी है। शासन प्रबन्ध यूआन् कुछ हद तक यूरोपीय देशोंके मंत्री-मण्डल से मिलता जुलता है परन्तु यह समानता बहुत अधिक नहीं है। ये पांच स्वतंत्र यूआन् डा० सन् के बतलाए हुए सिद्धान्तोंपर संगठित हैं जो सम्मिलित रूपसे नहीं बल्कि अलग अलग चीन की राष्ट्रीय महासभा क्वोमिनताड़ के प्रति जिम्मेवार हैं। इन पांच यूआनों के अलावा कुछ स्वतंत्र सरकारी विभाग खास खास कामोंके लिये हैं जैसे—राष्ट्रीय पुनर्निर्माण कमीसन्, राष्ट्रीय सैनिक परिषद्, राष्ट्रीय आर्थिक-परिषद्, एकेडेमिया सिनीका (अन्वेषण और अध्ययन की सबसे ऊँची संरक्षा) इत्यादि। स्वानीय सरकार का तात्पर्य प्रान्तीय सरकार, खास खास म्युनिसिपैलिटियाँ जिन्हें विशेषाधिकार प्राप्त हैं, साधारण म्युनिसिपैलिटी और जिले की सरकार से है। प्रान्तीय सरकारें और खास खास म्युनिसिपैलिटियाँ सीधे शासन-प्रबन्ध यूआन् के अन्दर हैं तथा साधारण म्युनिसिपैलिटियाँ और जिले की सरकारें प्रान्तीय सरकार के अधीन हैं। हर प्रान्तीय सरकार में एक सभापति और कुछ सरकारी अफिसर होते हैं। प्रान्तीय सरकारके आधीन सचिवालय (सिकेटेरियेट), मालमहकमा, राजस्वविभाग, शिक्षा विभाग पुनर्निर्माण तथा शान्ति रक्षक-दल विभाग हैं। विशेषाधिकार प्राप्त म्युनिसिपैलिटियों और साधारण म्युनिसिपैलिटियोंमें एक एक मेयर और प्रबन्ध के लिये उनके अधीन कई विभाग हैं। जिलेका प्रबन्ध नजिस्ट्रैट के अधीन है।

राष्ट्रीय सरकार के अध्यक्ष और पांचों यूआनोंके सभापति और उप सभापति को क्वोमिनताड़ की कार्यकारिणी नियंत्रित नहीं है। मिस्टर लिन्-सन् राष्ट्रीय सरकार के अध्यक्ष थे। इन दिनों राष्ट्रीय सरकार और शासन

प्रबन्ध यूआन् के सभापति जेनरलिस्मों च्याढ़्-चिए प ( च्याढ़् काई-शैक ), व्यवस्थापिका युआन् के मिस्टर सुन-खो ( सुन-फु ), न्याय युआन् के मिस्टर च्यु-च्वृ, राजकीय सर्वोच्च परीक्षा यूआन् के मिस्टर ताइ-चि-धावृ और नियंत्रण यूआन् के मिस्टर यू-पउ-रन् हैं। राज्य के मंत्री लोगों तथा प्रधान प्रधान अफसरोंकी नियुक्ति शासन-प्रबन्ध यूआन् की सिफारिश पर राष्ट्रीय सरकार करती है।

यह सर्व चिदित है कि राष्ट्रीय सरकार का संगठन क्वो-मिन-ताड़् के दल सिद्धान्तों ( पार्टीमिसिप्लस ) पर आधारित है। इसलिये पार्टी की कार्यकारिणी समिति को मंत्रिमण्डल पर पूरा अधिकार है। क्वोमिनताड़् का संगठन करीब करीब भारतीय कांग्रेस के संगठन सा ही है। सबसे ऊपर पार्टी की केन्द्रीय समिति है जिसके अधीन प्रान्तीय समितियां हैं। प्रान्तीय समितियों के अन्दर जिले की समितियां और जिले की समितियों के अन्दर स्थानीय समितियां हैं। इन स्थानीय समितियोंके अन्दर फिर कई शाखाएँ हैं। पार्टी का एक विशेष विभाग प्रवासी चीनियों से सम्बन्ध रखता है।

पार्टी की किसी भी शाखा में चाहे वह केन्द्रीय हो या स्थानीय अन्तिम फैसले का अधिकार उसी शाखा की जेनरल मिटिंग को है। कार्यकारिणी समिति और निरीक्षण समिति के साधारण सदस्यों और विशेष सदस्यों के चुनने का अधिकार पार्टी मिटिंग को है। क्वोमिनताड़् की सबसे बड़ी अधिकारी संस्था केन्द्रीय कार्यकारिणी समिति और देखभाल की अधिकार रखनेवाली सबसे बड़ी संस्था केन्द्रीय निरीक्षण समिति है। पार्टीके कामों को चलाने के लिये केन्द्रीय कार्यकारिणी समिति के सदस्यों के बीच से चुने हुए कुछ सदस्यों की एक स्थायी समिति ( स्टैन्डीङ कमेटी ) एक केन्द्रीय

राजनैतिक परिपद् भी है जो केवल राजनैतिक कामोंकी देखभाल करती है। स्थायी समितिके सभापति जेनरल च्याड्-चिए-प ( च्याड्-काइ-शेक ) है जो इन दिनों सम्पूर्ण राष्ट्र के फौजी तथा गैर फौजी मामलों के एक तरहसे अधिनायक हैं। केन्द्रीय राजनैतिक परिपद् के सभापति मिस्टर वाड्-चिल् वह हैं जो डा० सन् के सभी राजनैतिक कार्रवाइयों में हमेशा साथ थे। बहुत सी प्रथान राजनैतिक बातें जो डा० सन् के जीवन कालमें ही प्रकाशित हुई थीं, कहा जाता है कि मिस्टर वाड्-चिल् वडने ही लिखा था।

चीन सरकार की वर्तमान राजनीति डा० सन् के सिद्धान्तों पर आधारित है और वे हैं—देश की शक्ति, स्वतंत्रता, राज और शासन को अखण्डता को काथम रखना, विदेशी शक्तियों के हस्ताक्षेप से देशको बचाना तथा उन सभी असम सन्धियों को रद्द कराना जो माँचु वंशके राजत्वकालमें की गई थीं। अब तक सभी असम सन्धियों तथा विदेशी नागरिकों के अतिरिक्त अधिकार रद्द किये जा चुके हैं तथा मालों पर चुंगी लगाने का स्वतंत्र अधिकार प्राप्त किया गया है।

स्थष्ट कहें तो इन दिनों उसका पछोसी जापान ही चीनका एकमात्र दुश्मन है। अप्रत्यक्ष रूपसे जापान ने देशको बड़ा लाभ पहुँचाया है। उसके लगातार अक्रमणने देशभर में उसके विरुद्ध लड़ने की एक अजीब एकता उत्पन्न करदी है। सभ्य संसार के लोगोंने जापान के हमले की निन्दा की है। बहुत जल्द ही जापान इस बात को महसूस करेगा कि चालीस करोड़ जनता की सम्मिलित घृणा के सामने उसका स्थापित किया गुड़िया सम्राज्य नहीं ठिक सकता।

# तीसरा प्रकरण

## चीनकी आर्थिक उन्नति

अध्याय १

—कृपि—

सभ्यता के आदिकाल से लेकर आजतक चीन एक वृष्टि प्रधान देश रहा है। आज से दस हजार वर्ष पहले सम्राट् पन-नुइने लोगों को खेतीवारी करना सिखाया था और करीब ४६०० वर्ष पहले पीले सम्राट् ने रेशमका उद्योग धन्धा चालू किया था।

प्राचीन कालमें गुजर वसर के लिये खेती ही एक साधन थी। यह एक प्रथा थी कि पुरुषों को खेती करनी चाहिए और स्त्रियों को कपड़ा बुनना चाहिए। चीन देशकी एक कहावत है—“अगर एक पुरुष खेती नहीं करता है तो एक आदमी कहीं जहर भूखा रहेगा।” प्राचीनकालमें कृपिके अलावा और सभी उद्योग धन्धे जीविका के गौण साधन समझे जाते थे। यहाँतक कि जो लोग प-ताइ-फु—आफिसोंमें काम करनेवाले—होते थे, वे भी अवकाश के समय खेतों की देखभाल करते थे। चीन के प्राचीन पद्य-साहित्य में इस वातके सैकड़ों उदाहरण मिलते हैं कि उस समय किस प्रकार जमीन के साथ लोगों का प्रेम और सम्बन्ध था। महात्मा मन्-च (मेनसिडस) ने लिखा है—“वसंत क्रतु में राजा स्वयं खेतोंकी जुताई-बुनाई के कामोंकी जांच करते थे और अगर वीज आदि में कमी रहती थी तो उसे पूरा करते थे। पतमङ्ग आने पर फसल कटाई की जांच करते थे और कम पैदा

होने पर उसकी कमी को पूरा करते थे। चीन के एक बड़े राजनीतिज्ञ व्यान्-चूने ने लिखा है—“राष्ट्रकी सम्पत्ति का एकमात्र साधन कृषि है, इसलिये प्राचीनकालके राजा लोग कृषकों का बड़ा आदर सम्मान करते थे।” व्यान्-चूने ने तो यहांतक कह डाला है कि विद्या का प्रचार अधिक नहीं करना चाहिये क्योंकि इससे देश में बहुत विद्वान हो जाते हैं जो अपने शारीरिक गरिशम से अपना भरण पोषण नहीं कर सकते और दूसरों के ऊपर निर्भर रहते हैं।

जबकि चीन में राजतंत्र था, हर वर्ष वसन्त क्रतु में एक उत्सव मनाया जाता था जिसमें राजा अपनी प्रजा के सामने अपने हाथों से हल जोतते थे। यह उत्सव पइ-फिड् ( पेपिंग—पेंकिंग का नया नाम ) के कृषि मन्दिर में मनाया जाता था। चीनी भाषा इस मन्दिर को श्यान्-नुब् कहते हैं। लेकिन इन दिनों चीनवालों की जिन्दगी में बड़ा ही परिवर्तन हो रहा है और वहां की कृषि में बड़ी अवनति है। हाल की मर्दुमशुमारी रिपोर्ट्से ज्ञात होता है कि आज भी चीन की आवादीके ७५ फो सदी मनुष्यों की मुख्य जीविका कृषि है और कृषि ही राष्ट्रीय सम्पत्तिका मेरुदंड समझा जाता है।

कृषिमें भूमिके स्वामित्वका प्रश्न सबसे प्रधान है। उस समय जब कि लोग खानावदोशीकी हालतमें रहते थे, जमीन पर पूरे कवीलेका अधिकार था। जब लोग खानावदोशीकी हालतको छोड़कर वसने लगे तथा खेती करने लगे तबसे भूमि पर पूरे कवीलेका ही अधिकार रहा। चीनी पद्य साहित्यके एक ग्रंथ ब्रउ-सुछ् इस पद्यसे कि—

“ईश्वरके दिए हुए गेहूँ और चीजेको  
मनुष्योंने सम्पूर्ण पृथ्वी पर फैला दिया”

यह सिद्ध होता है कि जमीन पर पूरी जातिका अधिकार था। धीरे धीरे वे कवीले एक पूरी कौमके हृष्में बदल गए। जमीनके स्थानिकों धारणामें भी परिवर्तन हुआ, फिर भी जमीन राष्ट्रीय सम्पत्ति ही मानी जाती थी। उपरोक्त व्रन्थमें ही पुनः एक पद्धति है—

आसमानके नीचे की सब जमीन राजा की हैं

पृथ्वीके सब मनुष्य राजाकी प्रजा हैं।

राजाका मतलब यहाँ किसी खास व्यक्ति या उसके व्यक्तिगत अधिकार से नहीं है बल्कि उस पद्धते, उस राज्यसे या अच्छी तरह कहा जाए तो सम्पूर्ण जातिसे है। अर्थात् अभी तक भूमि पूरी जातिकी समझी जाती थी। सरकार लोगोंके बीच जमीन बांट देती थी तथा उन लोगोंसे कर लेती थी। सरकारकी तरफसे बांटिये दी गई जमीन पर प्रजाका अधिकार होता था। वे लोग उसे जोत कोड़ कर अपना निवाह करते थे। जमीनका बैठवारा चिड़्-धिएन प्रणालीसे होता था जिसका उल्लेख प्रथम प्रकरणके अध्याय पांच में हो चुका है। परन्तु राजा ही जब अपनेको राष्ट्र समझते लगा तथा राजा और राष्ट्र एक ही है, इस भावनाका जन्म हुआ तो कठिनाई बढ़ गई। थोड़े ही समयमें राजा जमीनको अपनी निजी सम्पत्ति समझते लगा तथा जमीनको अपनी इच्छानुसार अपने प्रिय उमरावोंमें बांटने लगा। उमराव लोगोंने भी अपने पासकी फालतू जमीन ( अपने कामके योग्य जमीन अपने पास रखनेके बाद वच्ची हुई जमीन ) अपने सगे सम्बन्धियोंको दे दिया। इस प्रकार भूमि जो पहले सार्वजनिक सम्पत्ति थी कालान्तरमें राजाकी निजी सम्पत्ति हो गई। धीरे धीरे आपसमें निजी अधिकारके हृष्में जमीनकी खरीद विक्री भी लोगोंने शुरू कर दी। परन्तु चौनको जमीन पर निजी

स्वामित्व प्रणालीकी अपनी कुछ खास विशेषता यह है कि यद्यपि जमीन पर लोगोंका व्यक्तिगत अधिकार है फिर भी ऐसी जमीन काफ़ी है जो सार्वजनिक है। दूसरी विशेषता यह है कि निजी तौर पर जमीनकी खरीद विको होने पर भी, ऐसा कभी नहीं हुआ कि कुछ लोगोंके हाथोंमें ही कुल जमीन आ गई हो। अर्थात् चीनमें कभी जमींदारी प्रथा नहीं रही। इस विषय पर एकत्र किए गए हालके आंकड़ोंसे ज्ञात होता है कि पूरी जन संख्याके केवल नौ प्रतिशत आदमियोंके पास ५० मु से १०० मु तक और पाँच प्रतिशतके पास १०० मु से अधिक जमीन है। अधिकांश लोगोंके पास कुछ न कुछ जमीन अवश्य है। ऐसे आदमियोंकी संख्या बहुत थोड़ी है जिनके पास कुछ भी जमीन नहीं है। दूसरे देशोंमें विना घर जमीन वाले आदमियोंकी समस्या बड़ी विकट हो गई है। परन्तु चीनमें इस प्रकारकी हालत नहीं है। इन दिनों राष्ट्रीय सरकार डा० सुन-हं-श्यान ( डा० सन-यात-सेन ) की भूमि सम्बन्धी नीतिके अनुसार जमीनकी समस्यायोंकी जाँच कर रही है और भूमिके स्वामित्वके सम्बन्धमें करीब करीब समाजवादी प्रणाली कायम करनेकी कोशिश कर रही है।

चीनका क्षेत्रफल बहुत बड़ा है और वहाँकी भूमि प्राकृतिक पदार्थोंसे भरी हुर्द है। यह देश बहुत प्राचीन कालसे ही कृषि प्रधान है इसलिये सब दिनोंसे राष्ट्रीय सम्पत्तिका मुख्य साधन कृषि ही रही है। धान, गेहूँ, जौ, बाजरा, सोयाबीन और भी बहुत तरहके अनाज, तरह तरह की तरकारियाँ, सन, जूट, चाय, ईख आदि चीनकी प्रधान उपज हैं।

देशमें जानवरोंकी भरमार है। यद्यपि इसकी गणना नहीं की गई है परन्तु घेरेलू जानवर राष्ट्रीय सम्पत्तिका एक मुख्य अंग समझा जाता है।

जंगलोंमें रोएँ दार जानवर काफी पाए जाते हैं तथा वड़ी संख्यामें मारे भी जाते हैं। उनका रोआँ खासकर पश्चिमी देशोंमें भेजा जाता है। जंगलोंमें लकड़ी काफी मिलती है। चीनमें तोन प्रसिद्ध जंगली भू भाग है—तीन पूर्वी प्रदेश फु-चिआन् ( फुकियान ) प्रदेश और हुन्नान् प्रदेश। इनमें तीन पूर्वी प्रदेशका जंगल क्षेत्रफल तथा जंगली सम्पत्ति दोनों ख़ालसे सबसे बड़ा है। फु-चिआन् ( फुकियान ) का जंगल खास कर कपूरके वृक्षके लिये प्रसिद्ध है तथा व्यापारकी दृष्टिसे बड़ा लाभदायक है। मछलियाँ भी चीनमें काफी पाइ जाती हैं। समुद्र और देशके जलाशयोंसे बहुत मछलियाँ पकड़ी जाती हैं। चीनमें मछली पकड़नेका सामुद्रिक धाट २८३५०० वर्गमीलमें फैला हुआ है। और सालाना करीब १५३४७२३०० डालरकी मछली पकड़ी जाती है।

चीनकी भूमि खनिज पदार्थोंसे भरी हुई है। उद्योग धन्धे और व्यापारके लिये जितने भी तरहके खनिज पदार्थ हैं, चीनमें सभी काफी परिमाणमें पाए जाते हैं जैसे कोयला, लोहा, मैंगनीज, टंगस्टन, एनटीमनी, सोना, चाँदी, पेट्रोल और पारा आदि। डा० वड्वन्ह हावू नामक एक भूगर्भवेत्ताने हिसाब लगाकर बताया है कि चीनमें २,५०,००,००,००,००० टन कोयला पृथ्वीके नीचे पड़ा हुआ है। वर्तमानकाल ( सन् १९३८ई० ) में जितना कोयला निकाला जाता है उस हिसाबसे यह खजाना १०,००० वर्षोंके लिये काफी है। लोहा भी ११३२८०१५७० टन है लेकिन यह अधिकतर मंचूरियामें पाया जाता है। अगर मंचूरिया सब दिनके लिये चीनके हाथसे निकल गया तो सचमुच ही चीनकी सीमाके अन्दर कुछ भी लोहा नहीं रह जाएगा। टंगस्टन नामक धातु जो संसारमें बहुत कम पाया

जाता है, चीनमें वहुत अधिक परिमाणमें है। सन् १९३३ ई० में सारी दुनियामें कुल १४००० टन टंगस्टन निकाला गया जिसमें ६००० टन केवल चीनसे ही निकाला गया था। एनटीमनी नामक धातुके लिये चीन संसार भरमें प्रसिद्ध है। चीनमें जितने खनिज पदार्थ हैं, अगर उनका उपयोग किया जाय तो दुनियाके सबसे धनी देशोंमें पुनः इसकी गिनती होने लगेगी।

यद्यपि चीन प्रधानतः कृषि प्रधान देश हो रहा है किर भी रेशमी कपड़े और चीनी मिट्टीके वर्तन बनानेके उद्योग धन्वेमें वहुत दिनों तक संसारमें इसका आधिपत्य रहा। पहले पहल चीनका रेशमी कपड़ा रोम राज्यके समय यूरोप पहुँचा। लगभग २०० ई० पू० से लेकर कितनी ही शताब्दियों तक इसका यूरोपके बाजारमें बोलबाला रहा। सत्रहवीं और अठारहवीं शताब्दियों तक भी यूरोपमें चीनका रेशमी कपड़ा शोक की सांमग्री समझा जाता था। चीन अपने कलात्मक चीनी मिट्टीके वर्तनके लिये सदासे ही संसारमें प्रसिद्ध है। चीनके मिड्डल राजकुलज्जे समय (सन् १३६८-१६४४ ई०) चीनी मिट्टीसे भिज भिज तरहके वर्तन बनानेकी कला अपनी पराकाष्ठा पर पहुँच गई थी। उस समय तक यूरोपके साथ व्यापार करनेका सामुद्रिक मार्ग खुल चुका था इसलिये चीनी मिट्टीके नाजुक और भारी वर्तनोंका दूर दूर तक ले जाना भी आसान हो गया था।

## अध्याय २

### स्वावलम्बन और रुढ़ि

प्रारम्भ से ही चीन आर्थिक दृष्टिसे स्वावलम्बी रहा है। यह केवल डींग ही नहीं था जबकि चीन के सम्राट् छ्यान-लुँग् ने इंगलैण्ड के राजदूत मेकार्टनी को कहा था उसके दैवी राज्यमें सभी चीजें प्रचुरमात्रामें पाईजाती हैं और चीन को 'वाहरी असभ्य लोगों' की बनाई चीजों की कतई जरूरत नहीं है। लेकिन सम्राट् छ्यान-लुँग् को यह बात मालूम थी कि वाहरी असभ्य लोगों को चीन की बनी चीजों की जरूरत है। खासकर चाय, चीनी मिट्टीके वर्तन और रेशमी कपड़े की। इसलिये इन चीजोंके विदेशी व्यापारियोंके लिये चिउ-त्वङ् (मेकौ) का बन्दरगाह खोल दिया गया था। लेकिन चीन को विदेशी चीजों की जरूरत एकदम नहीं थी।

यह बात नहीं थी कि चीन सारे देशकी पैदावार मिलाकर आर्थिक दृष्टि से स्वावलम्बी था बल्कि हर प्रान्त अपनी जरूरतकी चीजें अपने रक्खेके अन्दर ही पैदा कर लेता था। उदाहरण के लिये हुनान प्रदेश को लीजिए। इस प्रदेश में खाद्यसामग्री समुच्चे सूखे में होनेवाली खपतसे कहीं अधिक पैदा होती है। इसलिये उन चीजोंका निर्यात भी खूब होता है। हुनान का प्रदेश केवल अपवाद नहीं है। यही हालत प्रायः सभी प्रदेशों की थी। इसी कारण सेना अधिनायक आपसमें एक दूसरेके प्रान्तको दखल करते थे ताकि उन्हें अपनी जरूरतके लिये इच्छित सम्पत्ति हाथ लगे।

इतना ही नहीं आर्थिक दृष्टिसे ग्राम भी स्वतंत्र हैं। खानेकी चीजें वस्तीमें ही पैदा हो जाती हैं, कपड़े भी लोग घरमें बुन लेते हैं तथा और

भी साधारण ज़रूरत की चीजें स्थानीय उपजसे ही मिल जाती हैं। मशीन की बनी चीजोंका रखना आधुनिक युगमें एक फैशन समझा जाता है। परन्तु चीनकी साधारण जनताको इन चीजोंकी बहुत कम ज़रूरत पड़ती है। इन ग्रामोंमें अकसर मेला लगा करता है तथा वहाँ काफी संख्यामें लोग एकत्रित होते हैं। ये मेले आसपासकी वस्तियोंके लिये 'विशिष्ट क्लब' से होते हैं।

महात्मा मन्-च्र ( मनसिउस ) ने चीनके पुराने समयके ग्रामीण जीवन के सम्बन्धमें लिखा है :—

"लोग वस्तीके बाहर कभी ही पैर देते हैं और अपने जिलेके बाहर तो कभी नहीं जाते हैं। खेतके आसपासके लोग एक दूसरेकी खेतीमें, रखवाली करनेमें तथा बीमारीमें मदद देते हैं। इस प्रकार आपसमें एकता तथा प्रेम के साथ लोगोंका रहना होता है।

महात्मा लाव्-च्र ( लाव-त्सु ) ने भी वडे ही सरल शब्दोंमें ग्रामीण जीवनका वर्णन किया है। :—

"गांवमें भोजन मीठा लगता है, कपड़े सुन्दर होते हैं, मकान सुरक्षित रहता है और जिन्दगी आरामसे कटती है। एक गांव दूसरे गांवके अल्यन्त पास वसा हुआ है—यहाँ तक कि एक दूसरे को अच्छी तरह देख सकते हैं। एक वस्तीके लोग दूसरी वस्तीके कुत्तोंका भूकना और मुर्गीकी बांग सुन सकते हैं। लेकिन तौभी लोग अपनी वस्तीके खेतके बाहर कभी भी नहीं जाते।"

उपरोक्त उद्धरणमें कुछ भी अतिशयोक्ति नहीं है। आज भी ऐसे लोग मौजूद हैं जो अपने घरके बाहर पांच मीलसे अधिक नहीं गए हैं। उनलोगों को किसी बाहरी चीजकी ज़रूरत ही नहीं है।

वस्तीकी बात तो अलग रही हर परिवार हर बातमें स्वावलम्बी होनेकी

कोशिश करता था। पुस्त्र खेतीवाड़ीके काममें लगे रहते थे और स्त्रियां घर का काम समालती थीं तथा फुरसतके समय कपड़े बुनती थीं। सुअर, मुर्गा, चुर्गी और गाय तो हर परिवार अवश्य पालता था। नजदीकके तालाब और नदियोंसे मछलियाँ काफी मिल जाती थीं। अवकाशके समय परिवारके सभी व्यक्ति कोई दस्तकारी या कुछ दूसरा काम करते थे।

देशका आर्थिक जीवन स्वावलम्बी होनेके कारण लोगोंमें स्वभावतः दकियानूसीपन आ गया था। परन्तु लोगोंकी जिन्दगीका ध्येय सदा ही ऊँचा रहता था। लोगोंके कानोंमें महात्मा छ्वान-ञ्च (कानफ्यूसियस) के निम्नलिखित वाक्य वरावर गूंजते रहते थे :—

जमीनके प्राकृतिक धनमें काफी उन्नति करनी चाहिए और उसका खूब उपयोग करना चाहिए। लेकिन अपने स्वार्थके लिये नहीं—सार्वजनिक भलाई के लिये। शरीर और बुद्धिसे काफी काम लेना चाहिए, परन्तु अपने स्वार्थ साधनमें नहीं—समाजको भलाईके लिये।”

सर्वोच्च उद्देश्य यह है कि जीवनमें संयम और संतोषकी वृत्ति हो तथा जिन्दगी परिश्रम और मितव्ययितासे गुजरे। चीनके जीवनका आदर्श भारतके उच्च जीवन व्यतीत करनेके आदर्शसे समानता रखता है केवल वाहरी दशाओंमें ही नहीं बल्कि आन्तरिक वातोंमें भी।

अध्याय ३

## पश्चिमी देशोंके साथ व्यापार

अपर जिन बातोंका उल्लेख किया गया है चीनमें आज वैसी हालत नहीं है। विदेशी व्यापारके शुरू होते ही, खासकर पश्चिमी देशोंके साथ व्यापार करनेके समय से, हालतमें बुनियादी परिवर्तन हो गया है। देशकी आर्थिक दशाका ज्ञान प्राप्त करनेके लिये चीनके अन्तरराष्ट्रीय व्यापारका सारांश जान लेना ठीक होगा।

असलमें विदेशी व्यापार अफ़ीमकी लड्डाई समाप्त होनेके बादसे प्रारम्भ होता है। यह मानव सम्बन्ध और सभ्यताके इतिहासका बड़ा ही दुखान्त अध्याय है। सचमुचमें अफ़ीमकी लड्डाई चीनका घृणित मानमर्दन था परन्तु नैतिक दृष्टिसे पश्चिमवालोंके, चीनकी अपेक्षा, अधिक पतनका परिचायक था। अफ़ीमकी लड्डाईकी संक्षिप्त कहानी यों है :

चीनमें सबसे पहले पुर्तगालके व्यापारियोंने अफ़ीम लाई। उस समय अफ़ीम बहुत कम पश्चिममें तथा दक्षिणके लिये लाई जाती थी। राजकीय घोषणा-पत्रसे ज्ञात होता है कि सन् १७२९ ई० में उस समयकी चीनी सरकारने अफ़ीमके व्यापार पर कड़ा नियंत्रण का दिया था ताकि सालभरमें २०० पेटीसे अधिक अफ़ीम नहीं लाई जासके सन् १७३३ ई० में ईस्ट इण्डिया कम्पनीने बगाल, विहार और उड़ीसासे पैदा होनेवाली अफ़ीमको चीन में भेजनेके लिए एक सनद प्राप्त की। उसके बाद संग्रेज व्यापारी चीनके सबसे दक्षिणी प्रान्त क्वङ्ग-च्चउ (केन्टुन) में बड़े ही अधिक पश्चिममें अफ़ीम भेजने लगे। ईस्ट इण्डिया कम्पनीके किसी भी प्रबल और कृपासे

सन् १७८९ ई० तक अफ़ीमका आयात बढ़कर वार्षिक ४०५४ पेट्रो तक आ गया तथा चीनके सभी बाजारोंमें अफ़ीम फैल गई। अफ़ीमका आयात दिन प्रतिदिन बढ़ता ही गया और सन् १८३५ ई० और सन् १८३९ ई० के बीच उपरोक्त संख्या बढ़कर सालाना तीस हजार पेट्रो तक हो गई। इस विनाशकारी द्रव्यके कारण लोगोंके पसीनेकी कमाईका करीब करीब एक लाख टेल ( चीनी सिक्का ) देशसे बाहर जाने लगा। लेकिन इससे भी अधिक भयानक क्षति जो चीनकी हुई वह थी देशके एक छोरसे दूसरे छोर तक अफ़ीम खानेवाले करोड़ों आदमियोंका शारीरिक और नैतिक पतन। चीनके लम्बे इतिहासमें कितनी ही बार सारे देश और उसके निवासियोंको नाना प्रकार की कठिनाइयों और बुगाड़ियोंका शिकार होना पड़ा है लेकिन वह अफ़ीम खानेकी आदत सबसे भयानक और बुरी रही है। इसने बस्तुतः समाज और सभ्यतकी जड़ पर ही कुठाराघात कर दिया है।

इस भयानक परिस्थितिसे सरकार की भी आंखें खुल गईं और सन् १८३८ ई० में लिन् चे-श्यु नामक वड़ा ही योग्य सरकारी अफ़सर इस भयंकर व्यापारको समूल नष्ट करनेके लिये काढ़-चउ ( केन्टन ) का गवर्नर नियुक्त किया गया। यद्यपि इसके पहले भी अफ़ीम की रोकथामके लिये सरकारकी ओरसे कार्रवाई की गई थी परन्तु उसका फल कुछ नहीं हुआ था। लिन् ने अपना काम वड़ी तत्परतासे प्रारम्भ किया और क्वाढ़-चउ ( केन्टन ) के विदेशी व्यापारियों तथा जहाजी आफिसरोंने बाध्य होकर प्रतिज्ञा की कि वे लोग अब चीनमें अफ़ीम नहीं लाएंगे। व्यापारी तथा जहाजी लोग प्रतिज्ञा पालन करते हैं या नहीं इसकी जांचके लिये लिन् ने उनलोगोंसे यह भी इकरार कराया कि चीनी आवकारी विभागके अफ़सरोंको वे लोग अपनी

जहाज मुलाहिजा करने देंगे । शर्त यह रही कि अगर किसी जहाज पर अफ्रीम निकली तो जहाज जत कर लिया जायगा तथा कानून भंग करनेवालेको फाँसी की सजा मिलेगी । उसके बाद लिन् ने क्वाढ़-ब्रउ ( केन्टन ) के अंगरेजी व्यापारियोंको २०२९१ पेटी अफ्रीम सरकारके हवाले करनेको वाध्य किया । सभी अफ्रीम खुले बाजारमें जला दी गई । सन् १८४० ई० में चीन और अंगरेजोंके बीच हुई अफ्रीम की लड़ाईका यही तात्कालिक कारण हुआ । यह लड़ाई लगातार तीन वर्षों तक चलती रही ।

पहले पहल तो युद्धका पासा अंगरेजोंके विरुद्ध पड़ रहा था क्योंकि क्वाढ़ ब्रउ ( केन्टन ) का किला बड़ा ही मजबूत था । साथ साथ अंगरेजों को उत्तरी सोचें पर अधिक शक्ति केन्द्रित करनी पड़ती थी । परन्तु मांचू सरकारकी हालत पहले से ही खराब हो गही थी इसलिये अंगरेजोंका सामना अच्छी तरह नहीं कर सकी और अन्तमें चीनको आत्म-समर्पण करना पड़ा । नान्-चण् ( नान्किंग ) में दोनों देशोंके बीच सन्धि हुई । इस सन्धिके अनुसार चीनने ९०००००० लाख पौंड अफ्रीमके व्यापारको हजारिना, १ करोड़ २० लाख पौंड युद्धका अतिरिक्त खर्च और हांड़काल ( हांगकांग ) का टापू अंगरेजोंको दिया तथा चीनके बहुतसे प्रमिद्ध व्यापारी-वन्दगाह भी उन लोगों के लिये खोल दिए गए । सन्धिमन्त्रमें अफ्रीम राष्ट्रन्धी बात की जिक्र तक नहीं की गई उसके रोक थाम की बात तो दूर रही ।

राष्ट्रीय सरकारकी स्थापनाके बाद अफ्रीमके विरुद्ध जिहाद प्रारम्भ कर दिया गया है परन्तु अभी तक भी इनके खानेकी आदत पूर्ण रूपसे नहीं गई है । यह चीनके लिये बड़ी शर्म की बात है परन्तु इनका श्रेय अधिकतर पश्चिमवालोंको ही है ।

अफ्रीम युद्धके पहिले विदेशी व्यापार केवल क्वाउन्ट्रउ ( केन्टन ) और चिउ-ल्वड़ ( मेकौ ) इन दो बन्दरगाहोंसे ही हो सकता था । अबतक अफ्रीमको छोड़कर चीनमें विदेशोंसे केवल छोटी घड़ी, बड़ी घड़ी आदि ही आती थी और चीनसे विदेशमें रेशम, चाय चीनी मिट्टीके वर्तन आदि जाते थे । अफ्रीम युद्धके समाप्त होते ही बहुतसे विदेशी राष्ट्रोंके व्यापारी चीनमें आए और निर्वल माँचू सरकार एकके बाद एक बन्दरगाह उनलोगोंके व्यापार के लिये खोलती गई । सन् १९११ ई० में जब माँचू सरकारका खात्मा हुआ उस समय एक सौ चीनके बन्दरगाह विदेशी व्यापारियोंके लिये खुले हुए थे जो 'सन्धिसे खोले गए बन्दरगाह' ( ट्रीटी पोर्ट ) कहलाते थे । मशीनकी वनी सस्ती चीजोंसे चीनकी सभी वाजारें पट गईं तथा देशका गृह-उद्योग दिनोंदिन नष्ट होता गया । इस वारेमें भी चीन और भारतकी दशा एकसी है । यूरोपीय राष्ट्रोंके हाथोंसे व्यापारिक शोषण भारतके ही समान चीनका भी हुआ है । ये दोनों राष्ट्र पीड़ित दो बहनके समान हैं ।

सन् १८६४ ई० में चीनके विदेशी आयात मालका मूल्य कुल ५१२९३५७८ हाइ-क्वान् टेल था और यह आयात बढ़ते बढ़ते सन् १९३१ ई० में १४३३४८९१९४ टेल तक के मूल्यका हो गया । इन्हीं दो वर्षोंमें चीनके निर्यात मालका सूल्य क्रमशः ५४००६५०९ टेल और ९०९४७५५२५ टेल था । यह अन्तरराष्ट्रीय व्यापार नहीं है बल्कि एक राष्ट्रका दूसरे राष्ट्र द्वारा गला घोट कर मारना है । विदेशियोंने चीनमें असंख्य पूँजी लगाई है । बहुतसे खान आज भी उन्हींके हाथोंमें हैं तथा चलन ( करेन्सी ) भी बहुत दिनों तक विदेशियों द्वारा ही नियंत्रित होती थी ।

## अध्याय ४

### प्राचीन आर्थिक संगठनका टूटना

विदेशी व्यापारके प्रारम्भ होते ही चीन बालोंकी जिन्दगीमें बहुत बड़े बड़े परिवर्तन हुए, जो यों हैं—

( १ ) 'सन्धिसे खोले गये बन्दरगाहों' ( ट्रिटीपोर्ट ) में धन सिमिट सिमिट कर इकट्ठा होने लगा। ग्रामकी अवनति होने लगी तथा बन्दरगाह और शहर जहाँ विदेशी लोग बहुत संख्यामें वसे थे, राजनैतिक और सामाजिक दृष्टिसे उन्नति करने लगे। इससे पहले चीनके शहरोंका महत्व व्यापारिक दृष्टिसे कुछ भी नहीं था। ये केवल विद्या और संस्कृतिके केन्द्र थे। सौ वर्ष भी नहीं हुआ होगा जब कि पाण्डु-हाइ ( शंघाई ) थोड़ी आवादीवाला एक छोटासा गांव था। नान-चिंग ( नानकिंग ) की सन्धिके अनुसार पाण्डु-हाइ ( शंघाई ) का बन्दरगाह विदेशियोंके व्यापारके लिये खोल दिया गया और उसके बाद ही इसकी उन्नति भी शीघ्रतासे होने लगी। आज इस शहरकी आवादी ३०००००० लाख है तथा यह व्यापार, उद्योगधनधे और यातायात का केन्द्र हो रहा है। इस शहरमें बहुतसे विदेशी रियायती-क्षेत्र और दस राजदूत-निवास-भवन ( काउन्सलेट ) हैं। यहाँ विदेशियोंकी घनी आवादी भी है। पश्चिमी राष्ट्रोंने चीनकी आर्थिक जिन्दगीमें अधिकतर पंजा पाण्डु-हाइ ( शंघाई ) के रास्ते ही जमाया है। पाण्डु-हाइ ( शंघाई ) की सी ही हालत चीनके और भी कितने बन्दरगाहों की है।

अब गांवोंकी प्रधानता नहीं रही। बड़ी संख्यामें लोग गांवोंसे आकर शहरोंमें वस रहे हैं। परन्तु चीन एक छृष्टिप्रधान देश है। गांवोंकी अवनति

समूचे राष्ट्र के लिये हानिकारक है। शहरोंमें विदेशीपन आ गया है। और वे वास्तविकतासे दूर होते जा रहे हैं।

( २ ) अब पूँजीवाद और परिमित दायित्व व्यापारिक कम्पनियों ( लिमिटेड लाइविलिटी ट्रॉडिंग कम्पनी ) के विषयमें ध्यान दीजिए। ये दोनों चीजें चीनमें वाहनसे आई हैं। किसी भी समाज में, किसी भी कालमें, किसी न किसी हमें, आदमी आदमीके बीच, परिवार परिवारके बीच, वर्ग वर्गके बीच धनके बँटवारेकी असमानता जहर रहेगी। चीनी सम्भताके स्वर्ण युगमें भी यह चीज थी। लेकिन पश्चिमी पूँजीवादी वर्गके समान कोई वर्ग चीनमें कभी नहीं था।

चीनका व्यापार सदा छोटे छोटे व्यापारियोंके हाथ था। यहां पर परिमित व्यापारी कम्पनी और बड़े बड़े उद्योग धनधे चालकर धनके एकत्रीकरण और ठग धन्धा करनेकी चेष्टा कभी नहीं की गई थी। एक तरहसे हर किसान व्यापारी था। सौदागर लोग चीज़ पैदा करनेवाले और खरीदनेवालों के बीच दलालका काम करते थे। ये लोग समाजमें घृणाकी दृष्टिसे देखे जाते थे। उसके बाद चीनमें विदेशी व्यापारियोंका पदार्पण हुआ जो अपने साथ अपार धनराशि, मशीन और अजीब तरहकी व्यापारिक नीति भी लेते आए। चीनके सभी छोटे छोटे व्यापारी इन विदेशी व्यापारियोंके पेटमें समा गए। धीरे धीरे चीनवालोंने भी विदेशी व्यापारके तरीके सीखे तथा उन्हें भी इस काममें सफलता मिली। चीनवालोंने भी पुतलीघरों और कम्पनी स्थापित करना आदि सीखा तथा वर्तमान पूँजीवादके रास्ते पर अनिदित और लड़खड़ाते पगसे ठुमुक ठुमुक कर चलना प्रारम्भ किया।

( ३ ) पूँजीवादके आगमनके साथ ही साथ चीनमें मशीनकी स्थापना

की गई तथा बड़े पैमाने पर चीजें बनने लगीं। पहले ही कहा जा चुका है कि पुराने समयमें भी चीन उद्योग-धन्धेकी दृष्टिसे काफी तरक्की पर था—वे ग्रामीण उद्योग-धन्धे थे। उस समय पुतलीघर और मशीनका नाम भी नहीं था। ये चीजें विदेशी व्यापारियोंकी कृपासे चीनमें आई हैं।

पहले तो विदेशी व्यापारी अपने अपने दैशोंकी बनी चीज़ें लाए। परन्तु पीछे इन लोगोंने चीनमें ही पुतलोघरोंका निर्माण किया और चीजें बनाने लगे। कच्चा माल आसानीसे और सुभीते दरमें इन्हें मिल जाता था। मज़दूरी बहुत कम थी इसलिये चीनके बाजारका शोषण करनेके लिये इन लोगोंने कोई उपाय उठा नहीं रखा। विदेशियोंने अपने देशसे केवल पूँजी लाई और अपने संगठन करने की शक्तिके जोर पर वाकी काम चीनी लोगों द्वारा ही कराया।

परन्तु शोध ही इन विदेशी शौपकोंसे चीनवालोंने सबक सीखा और यहांके लोगोंने भी पुतलीघरोंका निर्माण करना ग्राम्भ कर दिया। हालकी जणनासे ज्ञात होता है कि इस समय देशमें विविध उद्योग धन्धेके १७९५ पुतलीघर हैं।

( ४ ) सबसे अन्तिम परन्तु सबसे प्रधान प्रभाव जो अन्तरराष्ट्रीय व्यापारके द्वारा चीन पर पड़ा वह है विदेशी बैंकोंकी स्थापना और विदेशियों द्वारा चलन ( करेन्सी ) का नियंत्रित होना । अतिरिक्त धन जना करने

और विनियमयके लिये प्राचीनकालसे ही चीनमें देशी बैंक क्षम्यम थे। परन्तु ये बैंक स्थानीय संस्थाके रूपमें थे और उनका न कोई खास महत्व था और न उनके पास किसी तरहकी शक्ति थी। विदेशी व्यापारके साथ साथ चीनमें कितने ही विदेशी बैंकोंकी स्थापना हुई। इन बैंकोंने चीन सरकारसे नोट चालू करनेके कानूनी अधिकार प्राप्त कर लिए और इस प्रकार राष्ट्रीय चलन (करन्ती) पर अधिकार जमा लिया। इस दिशामें भी चीनवालोंने विदेशियोंका अनुकरण किया और थोड़े समयमें विदेशी तरीकों पर चीनवालोंके भी कितने बैंक चालू हो गए। हालके लिए गए बांकोंसे पता चलता है कि इस समय देशमें १०६ चीनी बैंक और २४ विदेशी बैंक हैं। परन्तु आज भी चीनी बैंक विदेशी बैंकके समान नहीं हो पाए हैं।

माँचू-राजवृल्के अन्तिम दिनोंमें उन घूसखोर आफिसरोंने, जिन्हें अपनी सम्पत्तिके जास कर लेनेका डर था, अपनी घूसखोरीकी कलाई पूंजी विदेशी बैंकोंमें जमा कर दी थी। परन्तु भाग्य बड़ा प्रबल होता है। गत घूरोपीय युद्धके समय उन सभी विदेशी बैंकोंका दिवाल निकल गया और उन घूसखोर आदमियोंकी सम्पत्ति भी जैसे आई थी वैसे ही सब दिनोंके लिये चली गई।

प्रजातंत्र स्थापनके बाद भी सेना-अधिनायकों और उन आदमियोंने, जिन्होंने नैतिक तरीकेसे सम्पत्ति नहीं कमाई थी, अपने धनको अपने बालबद्धोंके लिये विदेशी बैंकोंमें जमा कर दिया है। सन् १९२५ई० में इन बैंकोंने कुल जमा ४३४७४०६८१७ डालर का था। आजकल तो यह रकम बढ़कर और भी अधिक हो गई होगी। अप्रलेख रूपसे ये बैंक देशकी राजनीति पर दुरी तरह असर डालते रहते हैं। ये बैंक एक तरफ तो राष्ट्रीय सरकारको काफ़ी जमानत और बड़े सूद पर रुपये देते हैं और दूसरी

ओर सेना-अधिनायकोंको आपसमें तथा केन्द्रीय सरकारके विरुद्ध लड़नेके लिये ज़रूरत पड़ने पर कर्ज़ा देते हैं। चीनके गृह-युद्धोंका बहुत दिन तक जारी रहनेका यह भी एक प्रधान कारण था।

ये सभी बातें किसी भी राष्ट्रकी जिन्दगीको उल्ट पुल्ट करनेके लिये काफी हैं। चीनमें तो इनका और भी बुरा असर पड़ा है। जान पड़ता है कि चीनकी सभी कढ़ियाँ दृट दृट कर अलग हो गई हैं।

विदेशी वाशिन्डोंसे भरपूर शहरोंके सामने गंवांकी कोई हस्ती ही नहीं रही। आज चीनवालेंका पेशा केवल कृषि नहीं है। प्राचीनकालके ग्रामीण शिल्पी और व्यापारियोंकी जगह आज चारों ओर बड़े बड़े धनी और औद्योगिक वर्ग, नये नये वैंक और पुतलीघर दिखाई पड़ते हैं। ऐसा जान पड़ता है मानो प्राचीन चीन अपने भूतकालके कर्तव्यसे लज्जित होकर जल्दी जल्दी नया वस्त्र धारण कर रहा है।

## अध्याय ५

### ९ आर्थिक पुनरुद्धार के वर्तमान आनंदोलन

चीनके प्राचीन आर्थिक, सामाजिक और राजनैतिक सभी प्रकार के ढांचे आज वह चुके हैं। अनेक कठिनाईयों के बीच आज चीन के लोगोंको नई जिन्दगी का मुकाबला करना पड़ता है। इन कुछ वर्षों के बीच ही एक नये चीन का निर्माण हुआ है। भूतकाल की अपेक्षा आज चीन की अधिक उन्नति हुई है, इसका पता तो भविध में चलेगा। परन्तु आधुनिक युगकी सभी समस्याएं समाज के नेताओं और राष्ट्रीय सरकार के मन्त्रियों के सामने हैं जिनको उन्हें सुलझाना है। देशके विस्तृत भूभाग और आवादी के कारण समस्याएं और भी जटिल हो गई हैं।

आज देश अनुभवी लोगों द्वारा शासित हो रहा है और वे लोग आर्थिक समस्या की प्रधानता को अच्छी तरह समझते हैं। डॉ सन् ने भूमिविपयक समस्या पर बहुत ध्यान दिया था और उन्होंने अपने अन्तिम कार्यक्रम में जीवन की भौतिक समस्याओं पर चड़ा ही जोर दिया है।

सन् १९३१ ई० में राष्ट्रीय आर्थिक परिषद् की स्थापना इसलिए हुई कि वह देशके आर्थिक पुनर्निर्माण कार्यके लिये एक व्यौरेवार कार्यक्रम तैयार करे तथा निर्माण-कार्यका पूरा नियंत्रण अपने हाथ में ले। गत वर्षोंसे परिषद् ने बड़ी तत्परता के साथ इन कामों को किया है और इस दिशा में काफी उन्नति की है।

राष्ट्रके आर्थिक पुनरुद्धार में राष्ट्रीय सरकार को बड़ी सफलता मिली है। प्रजातंत्र को स्थापना के पहिले चीनकी आर्थिक अवस्था वरावर ही-

गढ़बड़ी की हालत में रहती थी। राष्ट्रीय आयव्यय ( बजट ) कभी भी प्रकाशित नहीं होता था और राज्य के प्रधान अफसर अपनी निजी आमदनी और राष्ट्रीय आय को अलग मानने की जहरत नहीं समझते थे।

सन् १९३० ई० में पहली बार राष्ट्रीय आयव्ययका बजट प्रकाशित हुआ और राष्ट्रीय राजस्वके लिये एक कन्ट्रोलर जेनरल की नियुक्ति हुई। तबसे हर वर्ष राज्यके आय-व्यय का बजट प्रकाशित होता है। पहले केन्द्रीय सरकार और प्रान्तीय सरकारके आर्थिक अधिकार का वंटवारा नहीं था। इस कारण बड़ी दिक्कत होती थी। यह समस्या भी सफलतापूर्वक हल की गई। कुछ मदोंसे प्राप्त आय स्थानीय सरकार की होती है और कुछ केन्द्रीय सरकार की।

गैर कानूनी कर जो प्रजासे वरावर लिया जाता था एकदमसे उठा दिया गया। अब वे दिन भी लद गए जबकि कोई सेना-अधिनायक किसी जिले पर चढ़ दौड़ते थे और दस बीस वर्षोंका कर अगस्ती ही वसूल कर लेते थे। प्रान्तकी प्रधान आय मालगुजारी है। सन् १९३० ई० में मालगुजारी नये ढंगसे तय की गई और प्रजाके लिये तीन खास संरक्षणके कानून बने। पहला, मालगुजारी किसी भी हालत में अगोड़ नहीं वसूल की जाएगी। दूसरा, किसी खास हालत में अगर दूसरे प्रकारके कर लगाने की जहरत हुई तो वह रकम मालगुजारी से अधिक कभी भी नहीं होगी। तीसरा, मालगुजारी और दूसरे प्रकारका कर ( जो जहरत पड़ने पर कभी लगाई जाएगी )। दोनों की मिली रकम खेतके सालाना पैदावार के एक प्रतिशत से अधिक नहीं होगी। कर लगाने और वसूल करने की प्रणाली में सुधार होने से राष्ट्रीय आय काफी बढ़ गया। सन् १९२८ ई० में सरकारी

आय कुल २६००००००० डालर था जो सन् १९३३ ई० में बढ़कर ६६००००००० डालर हो गया।

दूसरा वडा सुधार जो राष्ट्रीय सरकार ने किया वह है सुदूर सम्बन्धी सुधार। पहले चीनमें दो तरह की चलन (करेन्सी) थी। चांदीका डालर और बैंकों में लेनदेन चांदीके टेल (प्राचीन चीनी सिक्का) द्वारा हो सकता था। इन दो प्रकार की चलन के विनिमय का अनुपात कभी कभी वडा विषम हो जाता था और लेनदेन में वडी गड़वडी हो जाती थी। साधारणतः आदमी को विनिमयमें वडा घाटा उठाना पड़ता था तथा इस प्रकार की लेनदेन में बराबर ही लोगों के दिलमें संशय बना रहता था।

सरकारने इस मसलेको हल करनेके लिये सबसे पहले बैंकोंका पुनः संगठन किया। केन्द्रीय बैंकका (सेन्ट्रल बैंक) जो पहले से भी सरकारी बैंक था, पूरी तरह सुधार किया गया तथा उसकी पूँजी काफी वडा दी गई। सरकार ने बैंक आफ कम्युनिकेशन और बैंक आफ चाइना को भी अपने हाथोंमें लेलिया। तथा उसके हिस्से की पूँजी (शेयर पूँजी-शेअर कैपिटल) भी वडा दी। केन्द्रीय बैंक को कानूनी आव्य सिक्का (लीगल टेंडर) निकालनेका एकाधिकार दिया गया। बैंक आफ कम्युनिकेशन को खासकर उद्योग-धन्धे की दिशा में काम करनेका अधिकार मिला और बैंक आफ चाइना को अन्तरराष्ट्रीय बैंक बना दिया गया। इसके बाद सिक्के में सुधार किया गया। सभी पुराने सिक्के वापस कर लिये गए। उसकी जगह नया प्रामाणिक डालर चालू किया गया। आज चीन की चलन (करेन्सी) बहुत ही स्थिर है।

इसके बाद सरकार का सबसे वडा काम यातायात के साधन का सुधार

हैं। चीन में अच्छी सङ्कें नहीं होने के कारण सभी कामोंमें बड़ी दिक्षत पह़ती थी। रेलवे कम्पनियाँ और देशकी नदियों में चलनेवाले स्टीमर की कम्पनियाँ विदेशी पूँजीपतियों के नियंत्रण में थीं। उन्हें और चीजों की अपेक्षा चीन के शासन करने से अधिक मतलब था। राष्ट्रीय सरकार की स्थापना होते ही सरकार ने देशके भीतरी यातायात के सभी साधन रेल, सङ्क, नदी में बड़ी ही तरफ़ी की। सन् १९२१ ई० में चीन में फैली हुई सङ्कों की लम्बाई कुल ११८५ कीलोमीटर थी जो क्रमशः बढ़कर सन् १९३१ ई० में ९८१६१ कीलोमीटर और सन् १९३६ ई० में १५९५५ कीलोमीटर और सन् १९३६ ई० में १५८५०० कालोमीटर हो गई। रेलकी लाइन विछाने की दिशा में भी काफी प्रगति हुई है परन्तु सङ्कों की नाईं नहीं। जहाज और वायुयान संचालन का कार्य भी तेजी से हो रहा है। वर्तमान चीन जापान युद्ध में चीनी उड़ाकों का काम वायुयान संचालन की प्रगति का प्रमाण है।

गांवों की दशा सुधारने की ओर सरकार का ध्यान प्रारम्भ से ही रहा है। सरकार की ओर से “चलो पुनः खेतों की ओर” नारेवाला आनंदोलन प्रारम्भ किया गया है। सारे देश में काफी बड़ी संख्या में घड़े घड़े कृषि-कालेजों की स्थापना की गई है तथा प्राइमरी और माध्यमिक हाई स्कूलों का जाल साविच्छा हुआ है जो खासकर ग्रामीण जनता की भलाई के लिये ही है। बहुत सी पाठशालाएं निःशुल्क हैं तथा ग्रामीण जनता के ही संरक्षण में हैं।

देश की आर्थिक उन्नति की दिशा में सहकारी बैंकों से बड़ी मदद मिली है। प्रथम सन् १९२४ ई० में कुल २४ सहकारी समितियाँ कायम हुईं परन्तु आज सारे देशमें लगभग २६२२४ समितियाँ चल रही हैं।

भौतिक दृष्टि से अंगरेजों देखा जाय तो राष्ट्रीय सरकार ने देश की आधिक दशा सुधारने के लिये आश्वर्यजनक काम किया है। देश का नियांत्रण बढ़ रहा है और आयात में धीरे-धीरे कमी हो रही है। यद्यपि अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार का सन्तुलन अभीतक चीन के विपरीत ही है परन्तु धीरे-धीरे चीन इस कमी को पूरा कर रहा है। सन् १९३५ ई० के जनवरी से जून तक नियांत्रण से आयात २८९३०७००० डालर अधिक था परन्तु यही सन् १९३६ ई० के उत्तरे ही समय में घटकर १२७०६९००० डालर हो गया। आशा है कि भविष्य में चीन की सरकार गांवोंकी उन्नति की ओर इसी प्रकार ध्यान देती रहेगी क्योंकि असल चीन कई सौ हजार गांवों में बसा हुआ है।

—\*—

# चौथा प्रकरण

## आधुनिक चीनकी सामाजिक प्रगति

अध्याय १

### सामाजिक संगठन

बहुत प्राचीनकाल से ही सुन्-च्र, कवान्-च्र, हान्-च्र, पाण्-च्र तथा अन्य चीनी दार्शनिकों ने सामाजिक समस्याओं, मनुष्य के आपसी सम्बन्ध के मौलिक सिद्धान्तों और समाजशात्र आदि विषयों पर काफी प्रकाश डाला है। सुन्-च्र ने अपनी एक पुस्तक में लिखा है :—

“पानी और अग्नि में श्वास है पर जीवन नहीं; धास और पेड़ पौधे में जीवन है पर ज्ञान नहीं; पशु पक्षियों में ज्ञान है पर अच्छे बुरे का विचार नहीं लेकिन मनुष्य ही एक ऐसा जीव है जिसे श्वास, जीवन, ज्ञान और भले बुरे सभी चीजों के विचार करने की शक्ति है। मनुष्य ही संसार का सबसे उत्तम जीव है। मनुष्य की शारीरिक शक्ति जानवरों से कम है, उसकी चाल घोड़े से अधिक नहीं है। पर आदमी ही उन जानवरों को काढ़ू में कर अपने व्यवहार में लाता है। यह इसलिये सम्भव है कि मनुष्यों में एकता स्थापित करने की शक्ति है और जानवरों में इसका अभाव है परन्तु मनुष्यों में एकता होती कैसे है? कर्त्तव्यपरायणता की भावना ही मनुष्यों को एकता के सूत्र में बांधती है। मनुष्य के अन्दर की ईमानदारी की भावना ही उससे अच्छी तरह कार्य करती है। मनुष्यों के अन्दर कर्त्तव्य और ईमानदारी की भावना है इसलिये वह आपस में मेल रखता है और आपस-

में मेल रखनेसे ही वह एकताके सूत्रमें बंध जाते हैं। एकताके कारण उसको सामूहिक शक्ति बढ़ जाती है और शक्तिके कारण ही मनुष्य सब चीजों पर विजय प्राप्त करता है।”

दद्यपि उन्होंने अपने विचारोंको भद्रे ढंगसे रखा है और ये विचार वैशानिक दृष्टिसे ठीक नहीं माने जा सकते फिर भी सुन त्रूका कथन प्राणियोंकी जिन्दगीमें आदमीकी श्रेष्ठताका और मानव-शक्तिके मौलिक आवारकी व्याख्या करता है।

चीनके सामाजिक संगठनके प्रधान अंग ये हैं—

(१) कुलसंघ (२) राष्ट्रीय संघ (३) व्यावसायिक संघ।

चीनी लोग अपने पूर्वजोंके बड़े भक्त होते हैं और इसलिये उनका पारिवारिक सम्बन्ध बड़ा बड़ा होता है। चीनके सामाजिक संगठनमें कुलका स्थान सबसे प्रधान है। सभी चीनवाले अपनेको एक ही पूर्वजकी संतान मानते हैं।

कुल समाजकी एक विशेष ईकाई है। हरएक कुलके पास उस कुलके नामपर एक भव्य पारिवारिक मन्दिर या कुल-हाल होता है। हर कुलकी कई शाखाएं होती हैं और हर शाखाके पास एक ‘शाखा-मन्दिर या शाखा-हाल’ होता है। सावारणतः कुल-मन्दिर जिलेके सबसे प्रधान शहरमें होता है और शाखा-मन्दिर वस्तियोंमें, जहां कुलके शाखाके सदस्य रहते हैं। कुल-संघका प्रधान उस कुलका सबसे बृद्ध पुत्र होता है और कुल-मन्दिरके प्रबन्ध के लिये सम्पूर्ण संघका द्वारा कुछ सदस्य निर्वाचित किए जाते हैं। कुलके अधिष्ठाताके जन्मदिन पर और मौसिमी छुट्टियोंमें कुलके सभी सदस्य केन्द्रीय मन्दिरमें इकट्ठे होकर पूर्वजोंकी पूजा करते हैं। कुल-सम्बन्धी तथा और सभी

बातें भी इसी मन्दिरमें तय की जाती हैं। अगर कुलके सदस्योंके बीच कोई मुकदमा रहता है तो उसका भी फैसला वहाँ किया जाता है। सरकारी कचहरी में मुकदमे तभी जाते हैं जब कुलसंघमें उसका फैसला नहीं हो पाता है। हर कुलके पास वंशावली होती है जिसमें उस कुलसे सम्बन्ध रखनेवाली सभी प्रमुख घटनाएं, सदस्यों के जन्म और मृत्युकी तिथि सावधानीपूर्वक दर्ज की जाती है। यह एक तरहसे उस कुलका इतिहाससा होता है।

स्थानीय या प्रान्तीय भावनाएं चीनी लोगोंके हृदयमें बद्धमूल हो गई हैं। इसलिये वहुतसे स्थानीय सामाजिक संघ हैं जो राष्ट्रके जीवनमें अपना खास स्थान रखते हैं। वस्तियोंमें थु-तु-म्याव यानी स्थानीय मन्दिर, प-चाड़—यानी धार्मिक अन्नकोष्ठ, पु-ट्वान् यानी स्थानीय सार्वजनिक सभाएं होती हैं। नगरों, खासकर व्यावसायिक स्थानोंमें व्यवसायियोंका संगठन होता है जो ह्वै-क्वान् कहलाता है। यह मध्ययुगीन इंगलैंडके व्यापारिक संघ (ट्रेड-गिल्ड) के समान है।

स्थानीय मन्दिरमें सार्वजनिक पूजा होती है। गांवके अन्नकोष्ठमें खर्च करनेके बाद बचा हुआ अन्न रखा जाता है ताकि वह अकालके समय काम दे सके। भारतवर्षमें भी इस प्रकारके अन्नकोष्ठ पहले होते थे। स्थानीय सार्वजनिक सभाके अन्दर एक हाल होता है जहाँ सामाजिक या और अन्य तरहकी सभाएं होती हैं। किसी भी आपसी मुकदमे या झगड़ेका फैसला करनेका प्रयत्न पहले स्थानीय संस्थामें ही किया जाता है। किसी कारणसे अगर स्थानीय संस्था झगड़ा नहीं तय कर पाती है तभी वह सरकारी कचहरी में भेजा जाता है। प्रान्तीय सदर मुकाममें हर जिलेका अपना अपना एक भव्य जिला-हाल होता है जिसमें काफी सम्पत्ति होती है। उसी तरह केन्द्रीयी

राजधानीमें हर प्रान्तके अलग अलग प्रान्तीय-हाल होते हैं। जिला-हाल जिलेके प्रतिनिधियों और प्रान्तीय हाल प्रान्तके प्रतिनिधियोंके मिलने, सभा करने आदिका केन्द्रीय स्थान है।

व्यावसायिकोंका संगठन चीनमें बहुत प्राचीन और ठोस है। एक तरहके व्यवसायमें लगे हुए सभी प्रकारके कामोंकी इकाई 'हाड़' या वर्ग (लाइन) कहलाती है और उस व्यवसायमें लगे हुए सभी व्यक्ति युह-हाड़ यानी उसी वर्गके (आफदी सेम लाइन) आदमी कहलाते हैं। विभिन्न व्यवसायोंके कमसे कम ३६० हाड़ इस समय सारे देशमें फैले हुए हैं। हर हाड़का प्रधान दप्तर जिले या प्रान्तके सदर मुकामोंमें होता है। हर हाड़के पास काफी धन, उसका अपना विधान और हाड़का प्रबन्ध करनेके लिये उसकी अपनी निर्वाचित कार्यकारिणी समिति होती है। सालभरमें हाड़के जेनरल कमिटीकी दो बैठकें होती हैं—एक बसन्तमें और दूसरी पतमड़में। इन बैठकों में व्यावसायिक लोग व्यापार सम्बन्धी वातों और उद्योगधन्धेकी तरकीके उपाय पर विचार करते हैं। हर हाड़का अपना इष्ट देवता होता है जो उस व्यवसायका आविष्कारक और रक्षक माना जाता है। किसी खास निश्चित तिथिमें हाड़के सभी सदस्य इस्ट देवताको पूजा करते और भैंट चढ़ाते हैं।

इन तीन प्रकारके सामाजिक संगठनोंके अलावा (१) गुप्त संघ और समितियाँ (२) लोकोपकारी संघ तथा (३) धार्मिक संघ भी हैं। गुप्त समितियोंमें को-लाव-हृषि और छिड़-हुड़-पाड़ नायक समितियाँ गुण्डों और बदमाशोंका संगठन है। इन गुप्त समितियोंका बड़ा महत्व है। इन समितियों द्वारा कभी-कभी समाजको बड़ा लाभ और कभी कभी बड़ी हानि होती

है। पिछले दिनों इनमें से कई समितियाँ डाकुओं और लूटेरोंके साथ और कई क्रान्तिकारियोंके साथ मिल गई थीं।

दूसरे देशोंकी नाइं चीनका लोकोपकार संघ, अनाथाश्रम, विधवाश्रम, छोटी छोटी लड़कियोंके लिये आश्रय गृह, अपाहिजों और बूढ़ोंके लिये आश्रम खोलता है तथा अन्य मानवोपकारी कार्योंको करता है। अपने उद्देश्य और व्येष्यको लेकर और भी कितनी धार्मिक और अद्वधार्मिक संस्थाएँ काम कर रही हैं। चीनमें सबको पूर्ण धार्मिक स्वतंत्रता प्राप्त है और साम्प्रदायिक आपसी दंगे तथा भगड़ेका बहां नामोनिशान भी नहीं है।

चीनके सामाजिक संगठनकी सबसे बड़ी विशेषता यह है कि वहाँ जाति-प्रथा एकदम नहीं है। पहले चीनी लोग चार श्रेणियोंमें वंटे थे, अर्थात् (१) ष-विद्वान्, (२) चुड़-छपक (३) कुड़-दस्तकार (४) पाढ़-व्यापारी। सरकारका वर्ताव इन सभी लोगोंके साथ एक तरहका नहीं होता था। एक श्रेणीसे दूसरी श्रेणीमें जानेका मार्ग खुला था। जाति जन्मना नहीं होती थी व्यक्तिगत गुणों और भुक्तावके अनुसार लोग अपने लिये कोई पेशा अखिलयार कर उस श्रेणीमें जा सकते थे। एक श्रेणीका विवाह दूसरी श्रेणीके साथ खुले आम होता था। विद्वानोंका आदर सभी करते थे और समाजमें उनका स्थान सबसे ऊँचा था। व्यापारियोंका स्थान सबसे नीचा था। धनी होनेके बावजूद भी वे नीची निगाहसे ढेखे जाते थे क्योंकि वे लोग अपनी मिहनतसे कुछ नहीं पैदा करके जोंककी नाइं समाजसे चिपटे रटते थे।

## अध्याय २

### चीनका परिवार और उसमें स्त्रियों का स्थान

पहले ही कहा जा चुका है कि चीनी समाज में परिवारका बड़ा महत्व है। चीनके लोग मातृपिताकी भक्ति और प्यार, भाइचारे और मित्रता पर बड़ा जोर देते हैं। सबलोग एक साथ बड़े परिवारके रूपमें रहना पसन्द करते हैं।

चीनका आदर्श परिवार वह है जिसमें दादा दादी, माँ वाप, भाई भाभी, बेटा बेटी और पोता पोती एक साथ रहते हैं। इस तरहके परिवारको उ-ताइ-शुछ-थाछ् यानी पाँच पीढ़ियोंका एक साथ रहनेवाला परिवार कहते हैं। इस तरहके परिवार की प्रशंसा और सम्मान सरकार तथा समाज दोनों द्वारा की जाती है। चीनमें दस आदमियोंका परिवार तो साधारणसी बात है। बहुतसे परिवार ऐसे हैं जिनमें १०० से भी अधिक आदमी हैं। कुछ वर्ष पहले समाचारपत्रों में चीनके एक वृद्ध पंडित लि-चिछ-खुनका चित्र और उसकी व्यौरेवार जीवनी प्रकाशित हुई थी। लि-चिछ-खुनका जन्म सन् १६६० ई० में हुआ था, वे २५८ वर्ष जीवित रहे। उन्होंने १४ शादियाँ कीं और १८० बच्चे पैदा किए। यह एक सच्ची घटना है। जिसका सरकारी प्रमाण भी मौजूद है। हम पाण्ड-हाइ ( शंघाइ ) के एक ऐसे परिवार को जानते हैं जिसमें करीब १०० आदमी हैं। यह परिवार एक तरहका स्टेटस हो गया है। इसकी अपनी सभाएँ होती हैं, रक्षाके लिये अपनी पुलिस हैं तथा परिवारका अपना समाचारपत्र निकलता है। इस तरहके परिवारमें अवस्था, लिंग और पेशेके अनुसार बूढ़े, जवान, बच्चे, स्त्री पुरुष सभीका

## चीनका परिवार और उसमें स्त्रियोंका स्थान

अपना अपना फर्ज परिवारके प्रति होता है। इस तरहके परिवारमें व्यक्तिगत सम्पत्ति भी लोग रख सकते हैं परन्तु ज़रूरतके समय उनकी सम्पत्ति सम्मिलित पूँजीमें भी मिला ली जा सकती है।

इस तरहके बड़े परिवारकी खबरी यह है कि सभी आदमियोंके बीच स्नेह, एकता और पारस्परिक सहयोग की भावना खूब रहती है। परन्तु बड़े परिवार के इस तरीकेमें कुछ दोष भी हैं। पारिवारिक सहयोगके कारण छोटी उम्रके नवयुवकों को जीविकाकी चिन्ता नहीं रहती है और इसलिये वे आलसी हो जाते हैं। कोई काम नहीं रहनेके कारण आपसमें ही झगड़ा होने लगता है और कभी कभी तो यह झगड़ा बड़ा ही भयंकर रूप धारण कर लेता है। लेकिन पश्चिमी सभ्यताके सम्पर्क से अब परिवारका पुराना ढंग समाप्त हो रहा है। चीनके बहुत से विद्वान् जो अधिक पढ़नेकी इच्छासे यूरोप और अमेरिका जाते हैं, वे और चांज़ोंके साथ विलायती स्त्री भी अपने लिये लेते आते हैं। इन विलायती स्त्रियोंका चीनकी पारिवारिक प्रथाके साथ मेल नहीं खाता। जिस तरह विलायती व्यापारके कारण चीनका प्राचीन आर्थिक ढांचा ढह गया है उसी प्रकार विलायती स्त्रियोंकी कृपासे सम्मिलित परिवार की प्रणाली भी नष्ट हो रही है। अब ये सम्मिलित परिवार पुरानी स्थिति के रूपमें ही शेष रह गये हैं।

पहिले ही कहा जा चुका है कि चीनी समाजका केन्द्र परिवार है। और उसमें पत्नी ही प्रमुख है। चीनी जनताका प्राचीन समयसे यही खमाल रहा है कि परिवारके भीतरी मामलोंमें पुरुषोंको हस्तक्षेप नहीं करना चाहिये क्योंकि उसपर स्त्रियोंका अधिकार है। चीनके प्राचीन ग्रन्थ इ-चिए या ‘परिवर्तनके नियम’में लिखा है कि ‘स्त्रियोंका अधिकार घरके अन्दर है और

## चीनका आधुनिक इतिहास

पुरुषोंका घर से बाहर।” एक दूसरे ग्रन्थ ‘लि-चिङ्-धार्मिक अनुष्ठानमें भी एक जगह लिखा है—“पुरुषोंको भीतरी मामलोंमें और स्त्रियोंको बाहरी मामलोंमें दखल नहीं देना चाहिये।” इसलिये परिवारमें स्त्रियां सचमुच ही प्रभुत्वका केन्द्र हैं। लड़भगड़कर पश्चिमी देशोंकी स्त्रियोंने जितनी स्वतंत्रता और अधिकार प्राप्त किया है उसकी अपेक्षा चीनी स्त्रियोंको हमेशासे अधिक अधिकार प्राप्त है। चीनी स्त्रियां अपने पति पर पूरी तरह हुक्मत करती हैं। चीनके सभी पुरुष पत्नियोंके गुलाम हैं। बहुतसे पति जो बाहर शेरकी तरह दहाड़ते हैं, घरके अन्दर आते ही भीगी विली बन जाते हैं। एक चीनी कहावत है—“एक बहादुर आसानीसे हजारों सैनिकोंको नियन्त्रणमें रख सकता है परन्तु एक स्त्रीको संभालना आसान नहीं।” पिछले दिनों अप्रतिरोध आन्दोलन ( नान रेजिस्टेन्स मूवमेन्ट ) के नेता जेनरल चांग शुए-ल्याण् ने जिस समय शि-आन-फु ( श्यान-फु ) प्रदेशमें विद्रोह किया था, उनकी स्त्री यूरोपमें थी। विद्रोहकी खबर सुनकर वह दौड़ी हुई चीन आई और उसने कहा कि “पुरुषोंपर से स्त्रियोंका शासन अगर ढीला हुआ तो वह आफ़त मचाने लगता है।” इससे पता चलता है कि परिवारके अन्दर स्त्रियों का महत्व कितना बड़ा है।

इन सब बातोंके होते हुए भी समाजमें पुरुषोंकी अपेक्षा स्त्रियोंका स्थान नीचा ही है। चीनके प्राचीन वृत्तसे पता चलता है कि किसी समय समाजमें स्त्रियोंकी ही प्रधानता थी। सचमुच ही उस ज़मानेमें स्त्रियोंका स्थान पुरुषोंसे अवश्य ऊँचा रहा होगा। लेकिन अब वह जमाना लद्दुका। महात्माओं और दार्शनिकोंने समय समय पर कानून बनाकर स्त्रियोंके अधिकारों को सीमित कर दिया है और इस प्रकार समाजमें स्त्रियोंका स्थान पुरुषों से नीचा कर दिया है।

चीनी भाषाके एक प्राचीन धार्मिक प्रन्थ लि-चि—“सरकारी नियमोंके रेकर्ड”—के अनुसार स्त्रियोंके तीन कर्तव्य और चार गुण हैं जो क्रमशः सान्-छुड़ और सन्तो कहलाते हैं। तीन कर्तव्य ये हैं—( १ ) कुमारी अवस्थामें पिताके आश्रयमें रहे। ( २ ) विवाह होनेपर पतिके आश्रय में और ( ३ ) विधवा होनेपर पुत्रके आश्रयमें रहे। उनके चार गुण हैं—( १ ) सतीत्व और धर्मपरायणता (२) मधुर मित भाषण (३) नम्रता और सदाचरण (४) गृह-कार्यमें निपुणता यानी खाना बनाना, कपड़ा बुनना, सीना-पिरोना आदि।

बचपन से ही कड़े अनुशासन और शिक्षा में चीनी स्त्रियों का पालन-पोषण होता है। इसलिये वड़ी होनेपर वे वड़ी सदाचारिणी और नम्रता की मूर्ति होती हैं। समाज में आदर्श स्त्री को त्याछ-छि और श्यान् सु कहते हैं जिसका अर्थ क्रमशः अच्छी पत्नी और दयालु माता होता है।

चीनी स्त्रियों में पदे की प्रथा नहीं है और वे चिना घूंघट बाहर आ जा सकती हैं। परन्तु स्त्री-पुरुषों के आपसी व्यवहार में काफी शिष्टता बत्ती जाती है। पश्चिमी देशोंके समान स्त्री का पुरुषों के हाथमें हाथ मिलाकर सङ्क पर विचरण करने और नाच के नाम पर वैण्ड की थाप पर एक-दूसरे की कमर में हाथ डाले धिरकरने की प्रथा को चीनी लोग भद्दा समझते हैं और चुरी निगाह से देखते हैं। पश्चिम की नक़ल पर चीन के शुद्ध नवयुवक इन वातोंको करने लगे हैं परन्तु समाजमें उनकी इज़ज़त नहीं होती।

प्रजातन्र की स्थापना के बाद राष्ट्रीय सरकारने समाज में स्त्रियों और पुरुषोंका स्थान और अधिकार समान कर दिया है और स्त्रियोंकी दशा सुधारने की दिशामें बहुत काम किया है। सहशिक्षा की प्रथा बहुत कम है परन्तु बहुत

सी.लड़कियाँ कन्या पाठ्यालाओं और गर्ल्स् कालेजों में पढ़ती हैं। राष्ट्र के राजनैतिक कामों में स्त्रियाँ भी हाथ बँटाती हैं तथा राजनैतिक जुलूस और प्रदर्शनों में भी भाग लेती हैं। स्त्रियोंके लिये भी सरकारी नौकरियाँ खुली हुई हैं और राष्ट्रीय सरकार के विभिन्न प्रधान प्रधान विभागों में स्त्रियाँ भी काफी संख्या में सफलता-पूर्वक काम कर रही हैं।

---

## आचार-विचार और उत्सव-त्योहार

नैतिकता चीनी-समाज का आधार है। चीन का सारा सामाजिक संगठन इसी नैतिक संगठन है और सारे सामाजिक सम्बन्ध नैतिक सम्बन्ध हैं। नजदीकके हों या दूर के, बड़े हों या छोटे, सभी सम्बन्धियोंके बीच साफ़ साफ़ दर्जा बना है। उदाहरण के लिये भाई बहन के सम्बन्ध में बड़े भाई को श्युछु और बड़ी बहन को चु, छोटे भाई को ति और छोटी बहन को मइ कहते हैं। बड़े चाचा की पो और छोटे चाचा को पु, बड़ी चाची की पो-मु और छोटी चाची को पु-यु कहते हैं। फूफा को कु-फू और फूफू को कु, मामा को च्यु और मामी को च्यु-फु, मौसा वो इ-फु और मौसी को इ, चचेरे भाई को थाछ-श्युछु-ति और चचेरी बहिन को थाछ-च मइ कहते हैं। पश्चिमी देशों में सब भाई 'ब्रदर' और सभी बहिनें 'सिस्टर', सब चाचा 'अंकिल' और सब चाची 'आन्ट', सब भांजे और भतीजे 'नेफ़्यू' और सब भानजियां और भतीजियाँ 'नीस' के नाम से पुकारी जाती हैं, छोटे-बड़े नजदीकी और दूरके किसी प्रकार के सम्बन्ध का कुछ भी पता नहीं चलता।

चीनी समाज में नैतिक सम्बन्ध मूलतः निम्न विभागों में विभक्त हैं:—  
 -सान-काछ—तीन घंधन, लु-ची—छः व्यवस्था, उ-लुन—पांच सम्बन्ध और  
 -च्यु-चु—नौ पीढ़ियां। तीन घंधन हैं—(१) राजा और प्रजा का (२) माता-  
 पिता और संतान का और (३) पति और पत्नी का। छः व्यवस्थाएँ ये हैं—  
 (१) पिता और उनके भाई (२) भाई और बहिन (३) मुल (४) माता

और माता के भाई (५) गुरु और (६) मित्र। पांच सम्बन्ध ये हैं—  
 (१) माता पिता और संतान का (२) राजा और प्रजा का (३) पति और पत्नी का (४) भाई और बहिन का, और (५) मित्र का। तौ पीढ़ियों में—  
 चार पीढ़ियाँ ऊपर, जैसे माता-पिता, पितामह-पितामही, प्रपितामह प्रपितामही,  
 वृद्ध प्रपितामह और वृद्ध प्रपितामही और चार पीढ़ियाँ नीचे, पुत्र-पुत्री, पौत्र-  
 पौत्री, प्रपौत्र-प्रपौत्री, और उनकी संतान, की हैं। इनके अतिरिक्त आम वर्ताव  
 में और तीन तरह के सम्बन्ध पाए जाते हैं—(१) परिवार (२) सम्बन्धी  
 (३) मित्रके ।

चूँकि चीनी समाज का संगठन नीतिशास्त्र पर आधारित है इसलिए इसमें  
 सदाचार का बड़ा महत्व है। चूँकि सदाचार नीतिशास्त्र का मूल सिद्धान्त है  
 और विना इसके नैतिकता टिक नहीं सकती, इसलिये सदाचार और नैतिकता  
 दो शरीरके एक प्राण या दो प्राणोंके एक शरीरके समान हैं। चीनी महात्माओं  
 ने॥ वहुत पहिले से ही सदाचार के बहुत से नियम बना रखे हैं। इनमें सबसे  
 महत्वपूर्ण उ-छाङ्—पांच नैतिक नियम हैं—(१) रन्-उदारता (२) इ—  
 न्याय (३) लि—शिष्टाचार (४) च्र—वुद्धिमानी और (५) शिन्—  
 विश्वासपात्रता। दूसरा स-शिष्ट् या चार प्रकार के कर्तव्य हैं—(१) श्याव्—  
 मातृ-पितृ-भक्ति (२) थि-आतृ-प्रेम (३) च्रुङ्—राजभक्ति और (४) शिन्—  
 विश्वासपात्रता। तीसरा, स-वइ या चार सामाजिक स्तम्भ हैं—(१) लि—  
 शिष्टाचार (२) इ—न्याय, (३) ल्यान्—ईमानदारी (४) छ्—लज्जा की  
 भावना। इन सबों के अलावे और भी कितने नैतिक नियम हैं। कुछ दिन  
 यहिले चीनी प्रजातंत्र के जनक स्वर्गीय डा० सुन-इ-श्यान् (डा० सन्-यात्सेन)  
 ने संसार के सब बड़े-बड़े महात्माओं के उपदेशों के आधार पर एक नया

नैतिक नियम बनाया था जो पा-तो या आठ गुणों वाला नियम कहलाता है। वे आठ गुण ये हैं—(१) चुष्टि—अनुगमिता (२) स्थावृ—मातृपितृ-भक्ति (३) रन्—उदारता (४) अह-—प्रेम (५) शिन्—विश्वासपात्रता (६) इ—न्याय (७) हो—एकता और (८) फिष्टि—शान्ति। चीनकी जनता इन्हीं दिनों इन्हीं नियमों को राष्ट्रीय सदाचार का नियम मानकर पालन करती है।

चीन को देशवाले तथा विदेशी भी उत्सवों का देश कहते हैं। चीन के बराबर संसार के और किसी देश में उत्सव और ल्योहार नहीं मनाए जाते हैं। चीनके लोग तीन सौ धार्मिक क्रियायें और तीन हजार रीति-रस्म मानते हैं जिनके कारण लोगों को बड़ी परेशानी और कष्ट उठाना पड़ता है। शादी और मृतक कर्म के रीति-रिवाज की कुछ वातें यों हैं।

शादी जीवन की एक प्रधान घटना है इसलिये उसकी संस्कार विधि भी बहुत लम्बी होती है। शादी की इस लम्बी संस्कार विधि में सम्बन्ध ठीक करने के समय से शादी तक छः क्रियायें होती हैं—(१) ना-छाइ-वरदीक्षा (२) वन्-मिष्टि—लड़की का नाम पूछना ( लड़की का नाम तब तक नहीं पूछा जा सकता जब तक कि शादी की वात पक्की न हो गई हो ) : ३) ना-छि—भैंट चढ़ाना (तिलक) (४) छिछु-छि—शादी की तिथि पूछना अर्थात् किस महीने की किस तिथि को शादी होगी (५) ना-छिछु—गहने कपड़े की भैंट और आशीष देना (६) छिन्-इछु—स्वागत अर्थात् वर का वधु के घर जाकर उसे अपने यहां लिवाना। शादी के दिन वर और वधु की बड़ी इज्जत की जाती है। वधु बहुत सुसज्जित पालकी में बैठकर अपनी सुसुराल जाती है जिसे राजकीय पालकी या फूल की पालकी कहते हैं। बारात के जुलूस और बाजे गाजे के बीच पालकी चार से आठ कहारों द्वारा ढोई जाती है।

जब वारात वधू को लेकर वर के घर पहुंचती है तो सबसे पहले आकाश और पृथ्वी की पूजा की जाती है; फिर कुल-देवों की पूजा होती है और तब वर-वधू-आमने-सामने खड़े होकर एक दूसरे को अंदर से प्रणाम करते हैं। इसके बाद दोनों मुहायन्गृह में ले जाये जाते हैं, जहाँ दोनों को एक ही पलंग पर बैठना पड़ता है। दोनों के सामने दो लाल मोमबत्ती जला दी जाती है और दोनों को एक ही प्याले से शादी की मदिरा पीनी पड़ती है। इस समय सभी सम्बन्धी और मित्र आवीर्वाद देते और शुभ कामना प्रकट करते हैं। उसके बाद हँसी दिल्लगी शुरू होती है। वर-वधू इसके मारे परेशान हो जाते हैं तथा लज्जा से दोनों की आँखें और चेहरा लाल हो जाता है। दूसरे दिन सुबह नववधू का वर के माता पिता, बहिन, भाई, तथा परिवार के सब आदमियों तथा उपस्थित सम्बंधियों और मित्रों से परिचय कराया जाता है। शादीके अवसर पर वर और वधू दोनों पक्षवालों को कम से कम एक या दो दिन भोज देना पड़ता है। एक महीने तक वधू समुराल में अतिथिकी तरह रहती है, ग्रति-दिन सुन्दर सुन्दर वस्त्रों और अलंकारों से अपना शृंगार करती है और वर के सम्बंधियों तथा मित्रों द्वारा दी गई दावतों में ही अपना समय विताती है। एक मास बाद वधू तीन दिन के लिये अपने मां, बाप के घर जाती है और उसके बाद पुनः समुराल में आकर गृहिणी बन कर म सँभालने लगती है।

प्राचीन काल में लड़के-लड़की की शादी मां-बाप द्वारा अथवा घटक द्वारा तय की जाती थी, लड़का लड़कीसे सम्मति तक भी न ली जाती थी। पर आधुनिक कालमें लड़के और लड़कियां इस मामलेमें मां बापसे स्वतंत्र होकर अपनी पसन्दके अनुसार शादी करने लगे हैं। शादी-विवाहके

रस्म भी बदल गये हैं। हाल ही पाछू-हाइ ( शंघाई ) तथा अन्य बड़े-बड़े शहरोंमें शादी करनेका एक नया तरीका प्रचलित हुआ है जिसे चिन्हुन-चिए-हवन—सामूहिक शादी—कहते हैं। अर्थात् एक ही जगह पर बहुतसे लड़के-लड़कियोंकी शादियां हो जाती हैं। इसीसे जान पड़ता है कि चीनकी विवाह-प्रथामें कितनी कान्ति हो रही है।

मृतक-क्रिया-कर्म भी चीनमें एक प्रधान संस्कार है। परम्परासे लड़के-लड़कियोंकी शादी कराना मां वापकी जिम्मेवारी समझी जाती है और लड़के-लड़कियोंका मां-वापके प्रति यह प्रधान कर्तव्य है कि उनके मरनेके बाद उनके मृतक-क्रिया-कर्मको अच्छी तरह करें। इसलिये मां वापके मरनेके बाद संतानके ऊपर बड़ी जिम्मेवारी आ जाती है। मृत्युके बाद पूरे सौ दिनों तक उन्हें बाल बनाने, मदिरा पीने, मांस खाने और बाहर जानेकी मनाही रहती है तथा उजले रंगका कोरा सनका कपड़ा और वियोगकी टोपी पहिननी पड़ती है। उन्हें सिर छुकाकर मुँदेंकी बगलमें बैठना पड़ता है। उसी समय सम्बन्धियों और मित्रोंके पास शोक-पत्र भेजा जाता है, जिसमें माता पिता की मृत्युके लिये संतान अपनेको दोपी ठहराती है। शोक-पत्र पानेपर सब सम्बन्धियों और मित्रोंका यह कर्तव्य होता है कि उनके घर आकर अर्धा पर फूल चढ़ायें और शोक-प्रस्त वचोंके साथ समवेदना प्रकट करें।

चीनमें शवको दफनानेकी प्रथा है। मृत्युके बाद ही किसी नज़दीकी सम्बन्धी द्वारा शवको स्थान कराते हैं तथा खास तौर पर बनाया हुआ रेशमी कपड़ा उसे ( शव ) पहिनाते हैं। शवको एक सुन्दर और कीमती दफन से ढक्कर मकानके एक बड़े कमरेके बीचमें रखते हैं जहाँ सम्बन्धी या मित्र लोग आकर फूल चढ़ाते और समवेदना प्रकट करते हैं। नृत्यके तीनरे

दिन कफ्नको सिल कर दिया जाता है। एक लकड़ीके तख्तमें, मृतकके जन्म और निधन की तिथि अंकित कर कफ्नके साथ लगा दी जाती है तथा शवकी पूजा की जाती है। मृत्युके उन्द्रवास दिनोंके बाद एक सुन्दर जगह और शुभ तिथि शवको दफ्नानेके लिये नियत की जाती है। दफ्नानेके दिन की संस्कार विधि बड़ो महत्वपूर्ण होती है। कफ्न खब अच्छी तरह सजाया जाता है और उसे ८ से ६४ आदमी तक उठाकर ले जाते हैं। मृतकके बेटे और पोते अर्थीके आगे आगे लकड़ीके सहारे चलते हैं। दूसरे सम्बन्धी और मित्र लोग अगल-बगल तथा खियां गाड़ीमें पीछे पीछे चलती हैं। बाजे गाजेके साथ भजन मंडली तथा धार्मिक अनुष्ठान करानेवाले बौद्ध भिक्षु और ताओं पुरोहित मंत्र पढ़ते हुए अर्थीवें आगे और पीछे चलते हैं। मृतकके जुलूसकी तड़क-भड़क विवाहके जुलूससे भी बढ़कर होती है।

चीनके उत्तर खोहारोंमें सबसे प्रवान ( १ ) खेलोंकी प्रदर्शनी और ( २ ) सामयिक उत्सव हैं। अपने अवकाशके समय चीनके किसान भिन्न-भिन्न तरहके खेल तमाशे करते हैं जैसे तातड़्या मशालका खेल, उण्या सिंहका खेल, उ-लुड़्या अजगरका खेल और चाड़्शि या नाटक आदि। मशालका खेल एक तरहका सार्वजनिक खेल है। इसमें सभी ग्रामीण हाथमें जलता हुआ मशाल लेकर जुलूस के रूपमें गीत गाते हुए एक गांवसे दूसरे गांवको जाते हैं। मशालकी सजावट बड़ी आकर्षक और मनोरंजक होती है। सिंह और अजगर इन दोनों खेलोंमें शारीरिक और सैनिक क्रायदका प्रदर्शन होता है। सिंहके खेलमें एक आदमी सिंह बनता है और दो लड़के बंदर बनते हैं। बंदर बने हुए दोनों लड़कोंके पास एक रेशमका मज्जा रहता है और दोनों मिलकर आपसमें खेलते हैं। जैसे ही सिंह दोनों बंदरोंके हाथसे

मक्का छीन लेता है, दोनों बंदर बड़े वेगसे भाग जाते हैं। तब उस ढलके दूसरे लोग तरह तरहकी कवायद जैसे कूदना, फाँदना, बुसे मारना, लाठी तलवार भाँजना आदि करने लगते हैं। अजगरके खेलमें कागज, कपड़े घास आदिके बहुतसे अजगर बनाए जाते हैं जिन्हें कई आदमी उठाकर चलते हैं। कुछ अजगर इतने बड़े बनाए जाते हैं कि जिन्हें उठाकर ले जानेमें सौ सौ आदमियोंकी ज़्रूरत पड़ जाती है। साथके लोग बहुत तरहकी कसरत करते हैं, कुछ गिरह मारते हैं, कुछ उछलते हैं तथा कुछ लोग सांपकी तरह पेटके बल रंगते हैं। नाटक खासकर ऐतिहासिक घटना सम्बन्धी, वीररसग्रधान और सुखान्त तथा दुःखान्त दोनों प्रकारके होते हैं जिसमें संगीत और नृत्य भी होते हैं। इस तरहके खेल-तमाशे प्रायः सभी 'ग्रामोंमें हर वर्ष या कुछ वर्षों'के बाद, वारी वारीसे पांचसे दस दिनों तक या पखवारेसे महीने भर तक होते रहते हैं। भारतीय मेलोंकी नाईं ही इन खेल-तमाशोंके अवसर पर ग्रामकी बनी चौंजे खरीद-विक्रीके लिये प्रदर्शित की जाती हैं।

भारतीय जनताकी नाईं चीनवाले भी त्योहार-प्रिय हैं। चीनका सबसे बड़ा त्योहार 'नववर्ष' है। चीनी पंचांगके अनुसार नव-वर्षके प्रथम महीनेमें पहली तारीखसे पंद्रह तक यह त्योहार मनाया जाता है। हर मकान और हर कुटिया दीपों और बन्दनबारोंसे सजाई जाती है तथा लाल कागजों पर शुभ और धार्मिक शब्द लिखकर उन्हें दरवाजों और खिड़कियों पर लगाया जाता है। सभी प्रकारके खेल तमाशे होते हैं, तथा घर घरमें मौज होती है। नव वर्षके बाद दूसरे दर्जेका त्योहार पांचवें महीनेकी पश्चमी तिथि और आठवें महीनेकी पंद्रहवीं तिथिको मनाए जाते हैं, जिन्हें चीनी भाषामें क्लमशः त्वान्-उ और च्रुण्ड्यु कहते हैं। त्वान्-उ को 'अजगर नाथकी दोइ'

या ग्रीष्म उत्सव और च्रुष्ट-छ्र्यु को मध्य पतभड़ चन्द्र दर्शन या पतभड़ उत्सव भी कहते हैं। इनके बाद दो त्योहार पूर्वजोंकी यादमें मनाये जाते हैं। वे हैं—छिष्ट-मिष्ट और च्रुष्ट-थ्वान्। छिष्ट-मिष्ट तीसरे महीनेकी पृतोया को और च्रुष्ट-थ्वान् सातवें महीनेकी पंद्रहवीं तिथिको मनाये जाते हैं। पहलेमें पूर्वजोंकी कब्र पर भेंट चढ़ाइ जाती हैं और दूसरेमें पूर्वजोंके नाम बलि प्रदान की जाती है। सातवें महीनेकी सप्तमी तिथि कुमारी लड़कियों के लिये शुभ समझी जाती है और नवें महीनेकी नवमी तिथिको विद्वान् तथा कवि लोग वन-भोज करते हैं। इस दिन वे लोग पहाड़ों पर चढ़ते तथा वहां शराब पीते, गीत गाते और कविता लिखते हैं। इनके अतिरिक्त और भी बहुतसे उत्सव त्योहार हैं। परन्तु इनके सम्बन्धमें एक बात व्याप्त देने की है। दूसरे देशों की नाइं चीनके उत्सवों और त्योहारोंको धार्मिक रूप प्राप्त नहीं है। बल्कि उनका सम्बन्ध मानवीय और सामयिक बातोंसे है। प्रजातंत्रकी स्थापनाके बादसे चीनका प्राचीन पंचांग सरकारी कामों के व्यवहारमें नहीं आता है। सरकारी आफिसोंमें पश्चिमी केलेण्डर का ही अनुसरण किया जाता है। त्योहारोंकी छुट्टियोंमें बहुतसे क्रान्तिकारी दिनोंकी छुट्टियां भी जोड़ दी गई हैं। चीनकी साधारण जनता प्राचीन पंचांगसे ही काम लेती और पुराने त्योहारों को ही मनाती है। यह केवल इसलिये नहीं कि पुराने रीति रिवाजोंको छोड़ना कठिन है, बल्कि बहुत-कुछ इसलिये कि पश्चिमी केलेण्डरकी अपेक्षा चीनी पंचांग और त्यौहार वहांकी जनताकी रुचिके अधिक अनुकूल पड़ते हैं; उनका सहज ही त्याग नहीं किया जा सकता।

अध्याय ४

## नव सांस्कृतिक आनंदोलन

चीनकी सभ्यता अख्यन्त प्राचीन है और इसके लिये चीनके लोगोंको गर्व और उसके प्रति सम्मानकी भावना है। चीनने हजारों वर्षों तक आसपासके देशोंमें अपनी संस्कृतिका प्रचार किया है; केवल उसकालको छोड़कर जब वह स्वयं भारतके बौद्ध धर्मसे प्रभावित हुआ था। उन्नीसवीं शताब्दीमें जब चीन पश्चिमी सभ्यताके सम्पर्कमें आया तो उसकी संस्कृतिका आधार ही हिल गया। उसके बादसे चीनवालोंका भाव विदेशियोंके प्रति एकदम बदल गया। आज चीनी जनताका भुकाव विदेशी आदशों की नकल करने और उसे अपनानेकी ओर हो गया है। इस आधुनिक कालको तीन भागोंमें बांट सकते हैं—

पहला काल—अफ्रीमकी लड़ाई (सन् १८४०-४२ ई०), तथा चृष्टिश और फ्रांस की सम्मिलित सेनाके साथ की लड़ाई (सन् १८५७-६० ई०) में चीन बड़ी बुरी तरह पश्चिमवालोंसे हार गया। इस हारका प्रधान कारण पश्चिमी देशोंका युद्ध-सम्बन्धी आधुनिक ढंग था। इस हारसे चीनवालोंकी गहरी निद्रा टूट गई। पश्चिमी देशोंकी जीतका सारा श्रेय उनके मुधरे हुए हथियार, जहाज तथा मशीनगनको था। इस हारके बाद चीनवालोंके दिलमें पश्चिमी सभ्यताने अपना स्थान बना लिया और पश्चिमी तरीकोंको नकल यहांपर बढ़े जोरोंसे प्रारम्भ हुई। धोड़े ही समयमें इस दिशामें चीनवालोंने आदर्शर्यजनक सफलता प्राप्त कर्ती और इसका फल यह हुआ कि यहांकी जलसेना उस समय संसारमें चृष्टिश जलसेनाके बाद दूसरे नम्बरकी हो गई।

दुर्भाग्यवश पुनः चीन जापानसे सन् १८९५ ई० की लड़ाईमें हार गया और जलसेनाके सुधारका जो कार्य हो रहा था, वह भी अधूरा ही रह गया। उसके बाद दूसरा काल प्रारम्भ होता है।

**दूसरा काल :**—इस हारके बाद लोगोंने समझा कि केवल पश्चिमी युद्ध-प्रणालीकी नकल ही देशके कल्याणके लिये यथेष्ट नहीं है। जापानने केवल पश्चिमी युद्ध-प्रणालीको ही नहीं अपनाया है वल्कि वहाँकी राजनैतिक प्रणाली और आदर्शोंको भी अपने यहां स्थापित किया है। इसलिये अगर चीनको पुनः आक्रमणसे बचना है तो पश्चिमी राजनैतिक आदर्शोंको यहां भी कायम करना होगा तथा जरूरत पड़ने पर जापानसे भी शिक्षा लेनी होगी। इन विचारोंको कार्यरूपमें परिणत करनेके लिये दो तरहके आन्दोलन—वैधानिक आन्दोलन और क्रान्तिकारी आन्दोलन—शुरू हुए; जिसके फलस्वरूप माँचू राजकुलका शासन समाप्त हुआ और उसकी जगह जनतंत्रात्मक सत्ता कायम की गई। परन्तु केवल जनतंत्रकी स्थापनासे इच्छित राजनैतिक फल नहीं मिला। गृहयुद्ध और विदेशी आक्रमणका तांता वंधा ही रहा। इसके बाद ही तीसरा काल आरम्भ हो जाता है।

**तीसरा काल :**—गृह-युद्ध और वाहरी आक्रमणोंसे चीनवालोंका यह विचार और भी दृढ़ हो गया कि मानव-समाजकी आधुनिक अवस्थाके लिये प्राचीन आदर्श बेकार हैं और अगर चीनवालोंको सब दिनके लिये आफतोंसे छुटकारा पाना है तो उसे अपना दृष्टिकोण बदलकर पश्चिमके आधुनिक विचारोंको अपनाना होगा। जिन विचारोंको अपनानेमें पश्चिमके देशोंको कई शतांच्छियां लगी, चीनने उन्हें जल्द ही अपनानेका दृढ़ संकल्प किया। इसलिये चीनमें यूरोपीय आन्दोलनों और सिद्धान्तोंके अध्ययन पर काफी जोर दिया

जाने लगा। चीनकी यह भावना कि पश्चिमी देशोंकी हर नई चीज़ अपनाने योग्य है, चीनके नये सांस्कृतिक आनंदोलनका सार है।

इस नव सांस्कृतिक आनंदोलनके कुरुआत पड़-पिण्ड ( पेकिंग ) विश्वविद्यालयसे हुई। इस विश्वविद्यालयके सभापति डा० छाइ-च्वान-फ़ह इस आनंदोलनके जन्मदाता थे। डा० छाइ, जिनकी शिक्षा पुरानी पद्धतिसे हुई थी और जिन्होंने मांचू राजकालके समयके चीनकी सबसे बड़ी परोक्षा पास की थी, वडे ही सीधे और सरल विचारके बृद्ध चीनी विद्वान हैं। यद्यपि ये बृद्ध हैं परन्तु इनके विचार एक नवयुवक जैसे हैं। ये वडे ही दूरदर्शी हैं। यही एक ऐसे व्यक्ति हैं जिनके अन्दर पुराने और नये विचारके लोग पूरे सहयोगके साथ काम करते हैं। नये विचारवाले छून्त-तु-शिउ और हु-प तथा पुराने ढंगके विद्वान् कुन्हुण-मिण् ये सभी लोग एक ही मंचसे एक साथ मिलकर नये दृष्टिकोणसे चीनकी नमन्याओं पर विचार करते हैं।

छून्त-तु-शिउने अपने चारों ओर उदीयमान नवयुवकोंका दल एकत्रित कर रखा है। ये चीनके नये मानिकवन्न 'न्यू यूथ' के सम्पादक थे। वे इसी पत्रके द्वारा चीनकी प्राचीन संस्कृति की बड़ी कटु आलोचना करते थे जिस पढ़कर चीनके सभी विद्वान् निलमिला उठते थे। इस पत्रके समर्थक इस प्रकारकी आलोचनाको चुराइकी ददा समझते थे परन्तु विरोधी लोग इसे अत्यन्त ही आपत्तिजनक मानते थे। इस पत्रके निबन्ध वडे प्रभावशाली और बुद्धिग्राही होते थे। जैसे (१) 'चीनी नाहिन्यमें क्रान्ति'—इसके लेखकथे छून्त-तु-शिउ और हु-प। इन लोगोंकी रायमें चीनी विचारधारागता परिवर्तन साहित्यके द्वारा ही हो सकता है; (२) 'एक प्रकार' और 'पानल आदमीकी डायरी' जिनमें चीनके पुराने नैतिक साचार विचारोंको कटु आलोचना की गई।

है; (३) छून्-त्ता-चि द्वारा लिखित “अन्धविश्वास और मनोविज्ञान” जिसमें पुराने चीनी विश्वासोंका मनोविज्ञानकी दृष्टिसे विश्लेषण कर खंडन किया गया है। इस पत्रके अलावा हु-ष द्वारा लिखित ‘चीनी दर्शनशास्त्रका इतिहास’ है जिसमें इन्होंने चीनी दर्शनकी नई व्याख्या की है। त्याहूँ-छि-छान् ने ‘छिन् राजकुलके पूर्ववर्ती चीनके राजनैतिक विचारोंका इतिहास’ नामक पुस्तक लिख-कर हु-ष के विचारोंका संशोधन किया। त्याहूँ-षु-मिण् ने एक बहुत ही अच्छी किताब “पूर्वी संस्कृति और उसका दर्शन” नामक लिखी। इसमें लेखकने अपनी व्याख्या द्वारा दोनों विरोधी भावोंमें सामंजस्य लानेकी कोशिश की है। हर पुस्तकमें कुछ खास विशेषतायें और कुछ लचर दलीलें हैं परन्तु ये पुस्तकें आधुनिक चीनी दिमागकी परिचायक हैं।

नव सांस्कृतिक आन्दोलनका देशपर दो तरहसे असर पड़ा है। एक तरफ तो इससे प्राचीन अन्धविश्वासों तथा रीतिरिवाजों परसे लोगोंका विश्वास उठ गया और हर चीज़को नये दृष्टिकोणसे देखनेकी प्रवृत्ति हुई। दूसरी ओर इससे चीनकी संस्कृतिको एक गहरा धक्का लगा। इस आन्दोलनके प्रवर्तक डा० छाइकी इच्छा थी कि पुराने और नये, पश्चिमी और पूर्वी विचारोंके समन्वयसे एक नई संस्कृतिका निर्माण किया जाय। परन्तु उनके अनुयाइयोंमें इस आदर्शके अनुरूप क्षमता नहीं थी। अच्छो भावनाओंके रहते हुए भी जोशमें आकर ये लोग बहुत आगे बढ़ गये। इसका फल यह हुआ कि सामाजिक जीवनकी बुनियाद ही हिल गई। हालमें चीनके सांस्कृतिक आन्दोलनका दूसरा ही रूप हो गया है जो ठीक ढगसे ठीक दिशामें जा रहा है। दरअसल यह दूसरा रूप ही चीनका नवजीवन आन्दोलन है।

## नव-जीवन आनंदोलन

नव-जीवन आनंदोलनके प्रवर्तक मार्शल न्याण् चिए-प ( मार्शल न्याण्-कार्ह-शेक ) हैं। इन्होंने उस आनंदोलनका सूत्रपात अपने प्रधान दफ्तर नान-छाउमें १९ फरवरी सन् १९३४ में किया। चीनके भविष्यके लिये इस आनंदोलनका रास्ता ही सही है। वहुतसे पुराने आनंदोलन भी वहुत अनुभवों के बाद इसी रास्तेपर आ गये हैं। पिछली कई दशाविद्योंमें खासकर अन्तिम दशाविद्यमें चीन सभी प्रकारके सिद्धान्तों और प्रणालियोंको अपनाता रहा, किं भी आगेका पथ अंधकारपूर्ण ही रहा। देशकी सामाजिक हालत एकदम ढाँचाडोल हो गई थी और अगर कुछ दिनों तक वही हालत बनी रहती तो देशका सल्लानाश हो जाता। यह पुराना दर्शनिक सिद्धान्त “कोनेमें पहुँचे हुए को अपने बचावके लिये नया रास्ता हँड़ना ही पड़ता है” पुनः सत्य सिद्ध हुआ। नव-जीवन आनंदोलन देशके लिये अन्धेको अचानक दो आंखें मिल जानेके समान था। जिस समय चीन इस प्रकारके सकटमें घिर था, ठीक उसी समय नव-जीवन आनंदोलन प्रारम्भ हुआ और समूचे गण्डूने नये गत्ते की ओर उत्साहसे कदम उठाया।

इस नव आनंदोलनका उद्देश्य है—चीनी जनताके जीवनको नये सांकेमें डालने के लिये चीनी दर्शन और आचार शास्त्रको चीनी संस्कृति और सभ्यताका आधार बनाना और उसमें परिचमी अच्छाइयोंका समर्वेश करना। क्योंकि चीनका अपना हजारों वर्षोंका इतिहास है और उन वर्षोंमें उनके अनगिनत कृपियोंने मानव-जीवनकी समस्याके सम्बन्धमें विवेचना की है और चीनी

जनताके लिये वसीयतके हृपमें अपने व्यापक अनुभवोंका भाष्डार छोड़ दिया है जो जिल्य सत्य हैं। साथ ही साथ इतिहासके एक लम्बे युगसे चीन मत-भेद, गड्बड़ी और ह्राससे असित है; इसलिये पुराने सिद्धान्तोंको दृढ़ताके साथ अपनाना और प्राचीन बुद्धिके द्वारा वर्तमान गड्बड़ी और बुराइयोंको सुधारना, साथ साथ दूसरी जगहकी स्वास्थ्यप्रद और रुचिकर चीज़ोंको अपनाकर चीनकी वर्तमान परिस्थितिके अनुसार लागू करनेके लिये अपना दिसाग निष्पक्ष रखना ही चीनकी उन्नतिका सही रास्ता था। इस प्रकार चीनी जनता को एक विचारपूर्ण, नया और ताजा जीवन देकर उनकी जिन्दगींको आनन्दमय बनाया जासकता है। इस नव-जीवन आन्दोलनसे चीन आधुनिक संसारमें उचित स्थान प्राप्त कर सकेगा और उन्नतिशील भविष्यका मार्ग भी प्रशस्त करेगा।

नव-जीवनमें प्रवेश करनेका तरीका जीवन संगठनके छः सिद्धान्तों पर आधारित है। (१) एकसी पोशाक (२) सफाई (३) सादा जीवन (४) स्वाभाविक वर्ताव (५) स्फूर्ति और कर्मण्यता और (६) यथार्थतादी दृष्टिकोण। इन छः सिद्धान्तोंका मानना सबके लिये अनिवार्य-सा है। इन छः आदर्शोंका मुख्य उद्देश्य जीवनको (१) अनुशासनमें रखना (२) क्रियाशील और (३) कलापूर्ण बनाना है। अनुशासनसे देशमें एक ईमानदार और देशभक्त फौज तैयार हो सकेगी जिसमें तेजीके साथ और समान काम करनेकी तथा नियमानुसार तथा सीधा सादा जीवन वितानेकी भावना होगी। क्रियाशील होनेसे हर आदमी राष्ट्रकी सम्पत्ति बढ़ानेमें मदद करेगा। काम करनेके तरीकोंमें सुधार होगा जिससे समय की बचत होगी और कार्य करनेका ढंग व्यवस्थित हो सकेगा। कलापूर्ण जीवनसे आदमीमें स्वतंत्रता, नम्रता और शान्ति-पूर्वक

रहनेकी भावना बढ़ेगी। इस तरह मनुष्योंको अपने जीवनके प्रति सावधान और कठोर होते हुए भी ग्रहणशील और उदार होना चाहिये। उन्हें अपने कामोंको फुर्ती, सावधानी और यथार्थ ढंगसे करनेके ज्ञानके साथ-साथ जीवन में मितव्यी और सचरित्र होना चाहिए।

ये सब ही नव-जीवन आन्दोलनके प्रधान मिश्नान्त हैं। उपरोक्त सिद्धान्तोंके आधार पर हर केन्द्र के अपने अलग अलग नियम बनाए हुए हैं। जैसे नान्-छूट् में, जहांसे इस आन्दोलनका श्रीगणेश हुआ है, दूकानों, मनोरंजन गृहों, चायघरों, होटलों, सर्वजनिक पैंक्वानों और स्नान गृहों तथा और भी बहुतसी चीजोंके लिये डर्जनों व्यारेवार नियम और उपनियम बने हुए हैं। बोलने, खाने, काम करने आदि छोटी छोटी बातोंमें लेकर गप्ट् तथा समाजकी गतिविधिको कड़े नियमके आधार पर नियमित कर देना तक इस आन्दोलनमें सम्मिलित है। विदेशी लोग चीनके भोजनकी बढ़ी प्रशंसा करते हैं। शायद उनलोगोंको लगता है कि चीनकी नारी सभ्यता वहांकी पाकशालामें ही केन्द्रित है। बाहरके बहुत कम ही लोग चीनी सभ्यता के नैतिक और सांस्कृतिक व्यवहारोंसे परिचित हैं। इस तरहकी धारणा रखना बड़ा ही हास्यात्पद तथा निगदाजनक है। अमरलमें चीनी लोग जीभ-लिप्साको कम ही महत्व देते हैं। महात्मा मन्-न्त्र (मनसिङ्ग) ने लिखा है—“जो आदमी केवल ज्ञाने पीनेमें ही सभ्य व्यर्तीत करता है वह नियन्त्र ही पृष्णाका पात्र है।” सचमुचमें जिसके जीवनका उद्देश्य केवल ज्ञाना पीना ही है उसके लिये किसीके दिलमें उच्च भावना नहीं हो सकती। नव-जीवन आन्दोलनके प्रधान केन्द्र नान्-छूट् में रसोट्योंके लिये सोलह नियम बनाये गये हैं। उन नियमोंका जानना रसोट्योंके लिये आवश्यक है। कुछ नियम ये—

## चीनका आधुनिक इतिहास

हैं—नियम नं० ६—रसोई बनाते समय, शरीर खुजलानेके बाद अथवा पेशाव-  
खाने से बाहर आनेके बाद रसोइयेको अपना हाथ धो लेना चाहिये । नियम  
नं० ७—खानेकी सड़ी गली चीजें फेंक देनी चाहियें और इस प्रकारकी चीजें  
खरीददारोंके हाथ कभी नहीं बेचनी चाहिये । नियम ९—पाकशालमें रसो-  
इयां कभी भी खुले बदन या खुले पाँव नहीं रहे । नियम १०—रसोइयेको  
भोजन बनानेके वर्तन की ओर मुँह करके कभी नहीं छोकना चाहिए । नियम  
११—रसोई बनाते समय रसोइया सिर पर मुलायम और हल्के रंगकी टोपी,  
शरीर पर लम्बा चोगा और हाथमें उजला दस्ताना पहिने तथा इन कपड़ोंको  
नित्यप्रति धोया करे । नियम १२—रसोई घरका तौलिया साफ होना चाहिये  
तथा प्रति दिन खौलते हुए पानीसे उसे धोना चाहिये । नियम १६—रसोइये  
को रसोईघरकी अग्निसे बराबर सावधान रहना चाहिये ।

यह नव-जीवन आन्दोलन विजलीकी तरह सम्पूर्ण देशमें फैल गया है ।  
विदेशी लोग चीनी जनता पर अफ़ूमची होनेका दोष लगाते हैं । असलमें,  
अफ़ूम पीनेवाले चीनमें बहुत कम रहे हैं और अब तो सिगरेट पीनेकी  
आदत भी लोग छोड़ते जा रहे हैं । चीन पर दूसरा कलंक यह था कि वहांके  
लोग बड़े जुआड़ी होते हैं । वास्तवमें जुआड़ी चीनमें बहुत कम रहे हैं और  
अब तो सार्वजनिक सट्टेवाजी पर भी सूरकारी नियंत्रण है । इस प्रकार आधु-  
निक चीनी समाजका निर्माण दूसरे ही ढांचे पर हो रहा है जो पुराने समाज  
से एकदम भिन्न है । पिछली कई दशादियोंमें ज्यों ज्यों चीनमें कमजोरी  
आती गई और धीरे धीरे उसका हूस होने लगा त्यों त्यों विदेशी लोगोंमें  
दूसरोंके भ्रामक प्रचारसे उसके प्रति ग़लतफहमी भी बढ़ती गई । अगर कोई  
वास्तविक चीनको समझना चाहता है तो उसे चीनी इतिहास, दर्शन और

संस्कृतिका अच्छी तरह गम्भीर अध्ययन करना चाहिये तथा स्वयं जाकर ईमानदारीके साथ अपनी आँखोंसे बहांकौ हालत देखनी चाहिये; तभी इस बड़े राष्ट्र के प्रति बनाई हुई गलत धारणा मिट सकती है। अगर चीनके राष्ट्र-निर्माणकी वर्तमान कार्यप्रणालीमें चाहरी हस्तक्षेप नहीं हुआ तो कुछ बर्दों या कुछ दशाविद्योमें ही एक नव चीनी समाजका निर्माण हो जाएगा जो मानव-हितके कार्य और जिम्मेवारीको पूरी सफलताके साथ निभा सकेगा।

### समाप्त



## पारिश्राण्य के

चीनके ऐतिहासिक युगों और राजवंशोंकी कालानुक्रमणिका

संख्या युगों और राजवंशोंके नाम

चीनी सम्बन्ध

दस्तो मन्

१. फून-कू (पौराणिक आदि पुरुष)

अनिश्चित

अनिश्चित

२. सान-हाङ् ( तीन पौराणिक सम्राट् )

"

"

३. प-ची ( दश युग )

"

"

४. उ-ति ( पांच सासनकर्ता )

"

"

५. हाङ्-ति ( पोला सम्राट् )

१००-१००

द३० पृ० २६६७-२५६८  
द३० पृ० २५६७-२३५८

६. हाङ्-तिके उत्तराधिकारी लोग

१००-१४८

द३० पृ० २६६७-२५६८  
द३० पृ० २५६७-२३५८

७. याङ्-इओ } स्वेच्छासे राजगाही

१४५-१६२

द३० पृ० २३५७-२२०६  
द३० पृ० २२०५-१७६६

८. चिया ( शिआ ) राजवंश

४६३-४३२

द३० पृ० २७६६-१२२२

९०. पाष्ठ राजवंश

८३२-१५७६

द३० पृ० २७६६-१२२२

संख्या युगों और राजवंशोंके नामम्

चीनी सम्बत्	ईस्थी सन्
११. चउ राजवंश	१५७६-१४५२ ई० प० ११२२-२४६
१२. छिन् राजवंश	२४५२-२४१९ ई० प० २४६-२०७
१३. हान् राजवंश	२४८२-२४१६ ई० प० २०६ सन् २१६ ई०
१४. सोन्-कबो (तीन राज्य)	४४१७-४४१९ ई० सन् २२०५०-सन् २१४ ई०
१५. चिन् राजवंश	४४१७-४४१९ सन् २८५-४१६ ई०
१६. नान्-पह (द० और उ० राजवंश)	३११७-३११६ सन् ४२०-५८१ ई०
१७. स्वाइ राजवंश	३२४८-३३१५ सन् ५८१-६१८ ई०
१८. थाङ् राजवंश	३३१५-३६०४ सन् ६१८-६०७ ई०
१९. उ-ताइ ( पांच राजवंश )	३६०४-३६५७ सन् ६०७-६०० ई०
२०. मुङ् राजवंश	३६५७-३६७६ सन् ६६०-१२४७ ई०
२१. युआन् राजवंश	३६७६-४०६४ सन् १२४७-१३६७ ई०
मिङ् राजवंश	४०६५-४३४० सन् १३६८-१३४३ ई०
छिङ् राजवंश	४३४१-४३०८ सन् १३४४-१३१० ई०
प्रजातंत्र	४३०६—

# चीनी राष्ट्रीय दल

अखिल राष्ट्रीय महासभा

केन्द्रीय सदर मुकाम

कार्यकारिणी	निरीक्षण
समिति	समिति

सभा

सभाका सदर

निरीक्षण  
समिति

दफ्तर

निरीक्षण  
समिति

दफ्तर

निरीक्षण  
समिति

दफ्तर

समिति

प्रान्तीय सभा

प्रान्तीय सभाका सदर मुकाम

कार्यकारिणी	निरीक्षण
समिति	समिति

जिला सभा

जिला सभाका दफ्तर

कार्यकारिणी	निरीक्षण
समिति	समिति

शाखा सभा

शाखा सभाका दफ्तर

कार्यकारिणी	निरीक्षण
समिति	समिति

उपशाखा सभा

उपशाखा सभाका दफ्तर

कार्यकारिणी समिति

प्रवासी सभा	नाविकों और रेलवे कर्मचारियोंव विशेष प्रतिष्ठान
सभाका सदर मुकाम	
रिणी	निरीक्षण
ति	समिति
डिभीजन सभा	विशिष्ट सभा
भीजन सभाका दफ्तर	विशिष्ट सभाका दफ्तर
रेणी	कार्यकारिणी
ति	समिति
शाखा सभा	जिला सभा
शाखा सभाका दफ्तर	जिला सभाका दफ्तर
रेणी	कार्यकारिणी
ति	समिति
उपशाखा सभा	उपजिला सभा
शाखा सभाका दफ्तर	उपजिला सभाका दफ्तर
कार्यकारिणी समिति	कार्यकारिणी समिति





## धन की भैद्

लेखक—श्रो० राजारम शास्त्रा

मनुष्यका मन अब तक एक पहली ही रहा । चिन्न-  
विश्लेषण शास्त्रके अविष्कारकोने इस पहलीका  
बहुत सुन्दर ढंगसे सुलभाया है । मनुष्यका वाही  
रूप उसका असली रूप नहीं है । उससे अन्तस्थल-  
में जो गुप्त और सुप्त विचारधारायें काम कर रही  
हैं, जिनसे मनुष्य स्वयमेव अपरिचित होता है  
पर जो हृदय-प्रथियोंका कारण हैं, उसके  
चरित्रका रूप देती हैं । सप्तसंलेकर उठन-  
वैठन तक उसके व्यवहारसे मानवचरित्र  
समझा जा सकता है । वच्चेका अर्थात्  
दिशामें अग्रसर किया जा सकता  
है । इन रहस्योंका अत्यन्त मार्गिक  
और सहज सरल भाषामें  
शास्त्रीजीने उद्घाटन किया  
है । इस पुस्तकके पढ़े बिना  
आधुनिक मानवीय सम-  
स्वाओंका धान नहीं  
हो सकता ।

राजित्व पुस्तकका भूम्य

८३३